



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं 26] नई दिल्ली, शनिवार, जून 25—जुलाई 1, 2005 (आषाढ़ 4, 1927)

No. 26] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 25—JULY 1, 2005 (ASADHA 4, 1927)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 4

[PART I—SECTION 4]

[रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by the Ministry of Defence]

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 25 जून 2005

सं. 297, दिनांक 30 मई 2005.—राष्ट्रपति, शहरी रोजगार एवं गरीबी उम्मूलन मंत्रालय की नफरी में केन्द्रीय सचिवालय सेवा की अनुभाग अधिकारी श्रीमती डैजी बारला को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 15 फरवरी 2005 के का.ज्ञा. संख्या 21/40/2004-सी एस-1(बी) के संदर्भ में 31.3.2005 (पूर्वाह) से अगले आदेश जारी होने तक रक्षा मंत्रालय में तदर्थ आधार पर केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-1 (अवर सचिव) में नियुक्त करते हैं।

2. उपर्युक्त अधिकारी की अवर सचिव (तदर्थ) के रूप में नियुक्त निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन है :—

- (i) तदर्थ पदोन्नति से ग्रेड में अनिश्चित समय तक बने रहने या नियमित नियुक्ति की चयन सूची में शामिल करने या केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड 1 (अवर सचिव) में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा।
- (ii) तदर्थ नियुक्ति को बिना कोई कारण बताए किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है।

जी. विजयराघवन
अवर सचिव

संख्या 298, दिनांक 30 मई 2005.—राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के 17 फरवरी 2005 के का.ज्ञा. सं. 21/9/2004-सी. एस. 1 (पी टी) के अनुसरण में कृषि मंत्रालय (कृषि एवं सहकारिता विभाग) के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के सहायक श्री शिवजी मांझी को 6500--10,500/- रुपए के वेतनमान में 30 मार्च 2005 के पूर्वाह से अगले आदेश जारी होने तक रक्षा मंत्रालय में तदर्थ आधार पर अनुभाग अधिकारी के पद पर इस शर्त के साथ नियुक्त करते हैं कि उन्हें इस तदर्थ पदोन्नति से ग्रेड में अनिश्चित समय तक बने रहने अथवा नियमित नियुक्ति के लिए चयन सूची में नाम शामिल किए जाने अथवा अनुभाग अधिकारी ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा तथा नियमित अनुभाग अधिकारी के उपलब्ध होने पर उन्हें सहायक ग्रेड में प्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा।

राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के 17 फरवरी 2005 के का.ज्ञा. सं. 21/9/2004-सी. एस. 1 (पी टी) के अनुसरण में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के सहायक श्री राजेश मल्होत्रा को 6500--10,500/- रुपए के वेतनमान में 01 अप्रैल 2005 के पूर्वाह से अगले आदेश जारी होने तक रक्षा मंत्रालय में तदर्थ आधार पर अनुभाग अधिकारी के पद पर इस शर्त के साथ नियुक्त करते हैं कि उन्हें इस तदर्थ पदोन्नति से ग्रेड में अनिश्चित समय तक बने रहने अथवा नियमित नियुक्ति के लिए चयन सूची में नाम शामिल किए जाने अथवा अनुभाग अधिकारी

ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करते का कोई अधिकार नहीं होगा तथा नियमित अनुभाग अधिकारी के उपलब्ध होने पर उन्हें सहायक ग्रेड में प्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा।

राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के 17 फरवरी 2005 के का.ज्ञ. सं. 21/9/2004-सी. एस. 1 (पी टी) के अनुसरण में वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के सहायक श्री हरीश चन्द्र मंडल को 6500--10,500/- रुपए के बेतनमान में 01 अप्रैल 2005 के पूर्वाह से अगले आदेश जारी होने तक रक्षा मंत्रालय में तदर्थ आधार पर अनुभाग अधिकारी के पद पर इस शर्त के साथ नियुक्त करते हैं कि उन्हें इस तदर्थ पदोन्नति से ग्रेड में अनिश्चित समय तक बने रहने अथवा नियमित नियुक्ति के लिए चयन सूची में नाम शामिल किए जाने अथवा अनुभाग अधिकारी ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा तथा नियमित अनुभाग अधिकारी के उपलब्ध होने पर उन्हें सहायक ग्रेड में प्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा।

वी. सरस्वती
उप सचिव

वित्त प्रभाग

सं. 299, दिनांक 31 मई 2005--राष्ट्रपति, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय/महानिदेशक, आकाशवाणी के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के सहायक श्री विजय कुमार शर्मा को तदर्थ आधार पर, इस एवं दिनांक 24 मार्च 2005 (अपराह्न) से अगले आदेशों तक, अनुभाग अधिकारी नियुक्त करते हैं।

राष्ट्रपति, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय/महानिदेशक, आकाशवाणी के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के सहायक श्री एस.के. सूद को तदर्थ आधार पर, इस प्रभाग में दिनांक 29 मार्च 2005 (पूर्वाह) से अगले आदेशों तक, अनुभाग अधिकारी नियुक्त करते हैं।

राष्ट्रपति, कृषि एवं सहकारिता विभाग के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के सहायक श्री एच.एम. सोनकुसरे को तदर्थ आधार पर, इस प्रभाग में दिनांक 30 मार्च 2005 (पूर्वाह) से अगले आदेशों तक, अनुभाग अधिकारी नियुक्त करते हैं।

एम.सी. लूथर
उप वित्तीय सलाहकार (स्थापना)

सं. 300, दिनांक 31 मई 2005--राष्ट्रपति, भारतीय रक्षा लेखा सेवा (82) के अधिकारी श्री पी.एन. सुकुल को दिनांक 28 अप्रैल 2005 अपराह्न से आरंभ में तीन वर्षों की अवधि के लिए, जो पांच वर्षों तक बढ़ायी जा सकती है, रक्षा मंत्रालय के वित्त प्रभाग में वित्त प्रबंधक (एल एस) के रूप में नियुक्त करते हैं।

टी.सी.ए. कल्याणी
उप वित्तीय सलाहकार (स्थापना)

(सेना शाखा)

सं. 301, दिनांक 3 जून 2005--राष्ट्रपति, निम्नलिखित को सहर्ष नियुक्ति करते हैं :--

नियमित सेना
स्थायी आयोग
(ले. के पद पर 08 दिसम्बर 2001 से)

निम्नलिखित अधिकारियों को भारत सरकार के राजपत्र जो कि दिनांक 26 अक्टूबर 2002 को प्रकाशित हुआ है, में सम्मिलित किया जाता है :--

के सिद्धार्थ नारायण (आई सी-61387के) इंजीनियर ज्येष्ठता शेखर अत्री (आई सी-61386एफ) इन्फैन्ट्री, प्रशान्त राणा (आई सी-61499के) इन्फैन्ट्री ज्येष्ठता समबित परोजा (आई सी-61498एफ) आर्टी, एस रवी प्रकाश (आई सी-61543एच) आर्टी ज्येष्ठता पंकज शर्मा (आई सी-61542ए) इन्फैन्ट्री, दलिप सिंह (आई सी-61753एच) इन्फैन्ट्री ज्येष्ठता विदेश राजन दासगुप्ता (आई सी-61752ए) इन्फैन्ट्री, दी नित्यानंद करुणया मूर्ती (आई सी-61764पी) ई एम ई ज्येष्ठता दीपक बसखण्डी (आई सी-61763एम) इंजीनियर, अरविन्द राजहंस (आई सी-61897एल) इन्फैन्ट्री ज्येष्ठता निशान्त सिंह (आई सी-61896एच) सिगनल और ज्येष्ठता अखिलेश कुमार पाल (आई सी-61953वाई) इंजीनियर के नीचे प्रदर्शित किया जाए।

(ले. के पद पर 13 दिसम्बर 2003 से)

निम्नलिखित अधिकारियों को भारत सरकार के राजपत्र जो कि दिनांक 20 नवम्बर 2004 को प्रकाशित हुआ है, में सम्मिलित किया जाता है :--

रोहित सामबयाल (आई सी-63367पी) इन्फैन्ट्री ज्येष्ठता अनुपम सिंह (आई सी-63368एक्स) ए एस सी के ऊपर प्रदर्शित किया जाए एवं उमेश चन्द्र साथी (आई सी-63408एन) इन्फैन्ट्री ज्येष्ठता रणजीत नारायण (आई सी-63407एल) इन्फैन्ट्री के नीचे प्रदर्शित किया जाए।

एस के शर्मा
ले. कर्नल
ए एम एस-8बी

एकीकृत मुख्यालय (नौसेना)
(स्थाई कमीशन स्पेशल शाखा)

सं. 302, दिनांक 3 जून 2005--भारत के राष्ट्रपति नौसेना की स्पेशल शाखा में निम्नलिखित सब-लेफ्टिनेन्ट के पद पर पदोन्नति की घोषणा करते हैं :--

सब-लेफ्टिनेन्ट का नाम, व्यक्तिगत संख्या, कमीशन की तारीख
किशन राजाराम खीलारे (सं. 80151के), 01 अप्रैल 2004
संदीप मोर (सं. 81313ए), 01 अप्रैल 2004
बी एन रवि किरण (सं. 81595पी), 01 अप्रैल 2004
एल राजकुमार (सं. 89144जेड), 01 अप्रैल 2004
सज्जन कुमार (सं. 85120बी), 01 अप्रैल 2004

बृज मोहन पाण्डे (सं. 86077बी), 01 अप्रैल 2004
 बसंत मनोहर (सं. 86932बाई), 01 अप्रैल 2004
 धान्या कुमार सिंह (सं. 86933जेड), 01 अप्रैल 2004
 मनजिन्दर सिंह (सं. 86934ए), 01 अप्रैल 2004
 अंमर अहमद (सं. 86935बी), 01 अप्रैल 2004
 यतिन्द्र कुमार (सं. 86936एफ), 01 अप्रैल 2004
 रौय के जार्ज (सं. 84639के), 01 अक्टूबर 2004
 एस अनिल कुमार (सं. 84640एन), 01 अक्टूबर 2004
 दिनेश कुमार (सं. 84641आर), 01 अक्टूबर 2004
 प्रदीप विजयन (सं. 84642टी), 01 अक्टूबर 2004
 पी जे जार्ज (सं. 82045आर), 01 अक्टूबर 2004
 ओ पी शेरन (सं. 85121एफ), 01 अक्टूबर 2004
 जी एस तनवर (सं. 85122एच), 01 अक्टूबर 2004
 श्रीकान्त पाठक (सं. 86937एच), 01 अक्टूबर 2004
 एस के यादव (सं. 86938के), 01 अक्टूबर 2004
 विजय कुमार (सं. 87643एन), 01 अक्टूबर 2004
 लारेन्स डी चुन्हा (सं. 87644आर), 01 अक्टूबर 2004
 कपिल वर्मा (सं. 05588जेड), 01 जनवरी 2005
 संजय सिंह विष्ट (सं. 05589ए), 01 जनवरी 2005
 कुलदीप डेवाल (सं. 05590बी), 01 जनवरी 2005
 रमन सिंह (सं. 05591एफ), 01 जनवरी 2005

जार्ज मैथ्यू
 उप निदेशक (सी एम् जे)
 कार्मिक निदेशालय

वायु सेना मुख्यालय

*सं. 303, दिनांक 30 मई 2005.—राष्ट्रपति, सहर्ष सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा नियमाबली 2001 के नियम 7(8) के अधीन नियुक्त निम्नलिखित अधिकारियों की उप निदेशक (ग्रुप-ए राजपत्रित), वेतनमान, 10000-15200 के पद पर नियुक्ति को उनके नाम के आगे अंकित समय के लिए बढ़ाते हैं :—

नाम सर्व श्री/श्रीमती, बड़ाई गई अवधि का समय

अभिनवजीत औझा, 07 मई 2003 से 08 फरवरी 2005 तक

देवेन्द्र कुमार, 07 मई 2003 से 08 फरवरी 2005 तक

श्रीमती प्रज्ञा शान्तनु, 07 मई 2003 से 08 फरवरी 2005 तक

अनुपम मिश्रा, 21 जून 2003 से 08 फरवरी 2005 तक

श्रीमती श्वेता अशोक, 07 मई 2003 से 08 फरवरी 2005 तक

एस के शुक्ला, 07 मई 2003 से 08 फरवरी 2005 तक

अमर नाथ सिन्हा, 07 मई 2003 से 08 फरवरी 2005 तक

बी सी दास, 07 मई 2003 से 08 फरवरी 2005 तक

एच.पी. मलिक, 07 मई 2003 से 08 फरवरी 2005 तक

जी डी गुप्ता, 07 मई 2003 से 08 फरवरी 2005 तक

ए.एन. शुक्ला, 07 मई 2003 से 08 फरवरी 2005 तक

पी के गर्ग, 07 मई 2003 से 08 फरवरी 2005 तक

डी के चतुर्वेदी, 07 मई 2003 से 08 फरवरी 2005 तक

2. स.से.मु. सिविल सेवा नियमाबली 2001 के नियम 7(8) में उल्लिखित अधिकारियों की उप निदेशक के पद पर नियुक्त निम्नलिखित नियम व शर्तों के अध्यधीन है :—

उप निदेशक के पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के लिए अधिकारी का कोई दावा नहीं होगा और न ही नियम 7(8) के अधीन उप निदेशक के रूप में की गई उनकी सेवा को उक्त ग्रेड में वरिष्ठता के लिए माना जाएगा।

ये नियुक्तियां न्यायालयों/केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के निर्णय जो फीडर ग्रेड में वरिष्ठता को प्रभावित कर सकते हैं, के लागू करने के क्रम में संभाव्य आवश्यक संशोधनों के अध्यधीन होगी।

सन्तोष दासगुप्ता
 उप मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

राष्ट्रीय कैडेट कोर

सं. 304, दिनांक 2 जून 2005.—निम्नांकित को उनकी सेना अध्यक्ष के पद पर नियुक्ति की अवधि तक के लिए राष्ट्रीय कैडेट कोर का कर्नल-इन-चीफ का अवैतनिक पद दिया जाता है :—

जनरल जे जे सिंह, प.वि से मे, अ.वि से मे, वि से मे, ए.डी.सी.,

01 फरवरी 2005

सेना अध्यक्ष

सेना मुख्यालय,

नई दिल्ली-110 011

निम्नांकित को उनकी वायु सेना अध्यक्ष के पद पर नियुक्ति की अवधि तक के लिए राष्ट्रीय कैडेट कोर का कॉमोडोर-इन-चीफ का अवैतनिक पद दिया जाता है :—

एयर चीफ मार्शल एयर पी त्यागी, प.वि से मे, अ.वि से मे, वा से मे, ए.डी.सी.,

31 दिसम्बर 2004

वायुसेना अध्यक्ष

वायुसेना मुख्यालय,

नई दिल्ली-110 011

निम्नलिखित उपकुलपतियों को राष्ट्रीय कैडेट कोर में कर्नल के अवैतनिक रैक प्रदान किए जाते हैं और अपने-अपने विश्वविद्यालयों के उपकुलपति

की नियुक्ति की अवधि तक के लिए उन्हें कर्नल कमांडेन्ट के पद पर निम्नलिखितानुसार नियुक्त किया जाता है :—

उपकुलपति का नाम विश्वविद्यालय का नाम उपकुलपति के पद पर नियुक्ति की तारीख

डा. सी थंगामुथु, भारतीदासन विश्वविद्यालय, 09 जून 2004
उपकुलपति तिरुचिरापल्ली

डा. एन बालारामन, तमिलनाडु वेटनरी एंड एनोमल 01 अक्टूबर 2004
उपकुलपति साइंस विश्वविद्यालय, चेन्नई

जतिन्द्र सिंह
ट्रिमेडियर
उप महानिदेशक (एम एस)

सं. 305, दिनांक 30 मई 2005—भारतीय प्रशासनिक सेवा (हि. प्र. : 87) के अधिकारी और रक्षा मंत्रालय में निदेशक श्री राम सुभाग सिंह की विदेश राज्य मंत्री (श्री राव इन्द्रजीत सिंह) के निजी सचिव के पद पर नियुक्ति होने के परिणामस्वरूप उनकी सेवाएं 8 अप्रैल 2005 (अपराह्न) से विदेश मंत्रालय को सौंपी जाती हैं।

वी सरस्वती
उप सचिव

सं. 306, दिनांक 30 मई 2005—रक्षा मंत्रालय में उप निदेशक (मॉनीटरिंग सेल) श्री एस आर प्रसाद की सेवाएं 9 मई 2005 (अपराह्न) से वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (वाणिज्य विभाग) (पूर्ति विभाग) को सौंपी जाती हैं।

जी विजयराघवन
अवर सचिव

(थल सेना विभाग)

सं. 307, दिनांक 3 जून 2005—राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित सेना दन्त कोर अधिकारी को एक वर्ष की परखावधि सफलतापूर्वक पूरा करने पर सेना अनुदेश 15/79 के अन्तर्गत अल्पकालीन कमीशन में पक्का करते हैं :—

नियमित सेना
सैनिक दन्त चिकित्सा कोर
अल्पकालीन कमीशन
स्थाईकरण

डी एस-12104एन कैप्टन जसवीर कौर, 06 जून 2003

आर सी धीर
लैफिट जनरल
टी जी डी एस

(वायु शाखा)

सं. 308, दिनांक 2 जून 2005—राष्ट्रपति, निम्नलिखित अफसरों को जिन्हें अल्पकालीन सेवा कमीशन (परखाधीन) प्रदान किया गया था की पुष्टि उनके नाम के सामने दी गई तिथि से करते हैं :—

वैमानिक अभियांत्रिकी शाखा
(मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल शाखा)

फ्लाईंग अफसर निशा मोहन मेनन (27169) ए ई (एल), गौरी कालरा (27168) ए ई (एल), पी कुमार अनिल (27162) ए ई (एम), वी शरदा (27183) ए ई (एल), दीपि मलिक (27189) ए ई (एल), व्योमस विलफ्रेड 'डी' मेलो (27158), ए ई (एम) सौरभ जोशी (27165) ए ई (एल), प्रनव शर्मा (27170) ए ई (एल), कविता चहल (27188) ए ई (एल), पुनीत शर्मा (27164) ए ई (एल), के महेश प्रिया (27182) ए ई (एल), अंजली सिंह (27179) ए ई (एल), ग्रीहित चेरिस डी सुजा (27159) ए ई (एम), शीतल चौहान (27184) ए ई (एल), रेस्का नायर (27185) ए ई (एल), शिल्पा सुरी (27178) ए ई (एल), पी भारती (27174) ए ई (एल), मनिन्द्र कौर (27180) ए ई (एल), सुरभी अरोड़ा (27187) ए ई (एल), सुजाता एम (27166) ए ई (एम), मनाली शुक्ला (27181) ए ई (एल), आर सड़ीश (27160) ए ई (एम), स्वेता कौशिक (27173) ए ई (एल), मनप्रीत बेदी (27172) ए ई (एल), सुधाकर वर्मा (26891) ए ई (एल), तुहीना सिंह (27167) ए ई (एल), अभिशेक ओझा (27190) ए ई (एम), अन्डालम प्रहलाद (27163) ए ई (एल), हनुजा के (27175) ए ई (एल), दिनांक 07 जुलाई 2003 से।

राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारियों जिन्हें स्थायी कमीशन (परखाधीन) रखा गया था की पुष्टि, दिनांक 05 जनवरी 2004 से करते हैं, उन्हें उनके नाम के सामने दी गई दिनांक से पूर्व दिनांक (Ante Date) प्रदान की जाती है :—

वैमानिक इंजीनियरिंग शाखा

फ्लाईंग अफसर राजकुमार पी (27324) ए ई (एम), एम दिली बाबू (27316) ए ई (एम), विकास फालिसवाल (27144) ए ई (एल), अजित कुमार के वाई (27384) ए ई (एल), जे मारिया कालडियस (27374) ए ई (एल), एल राजागोपाल (27401) ए ई (एल), एम जे बालामुरुगन (27393) ए ई (एल), धर्मवीर यादव (27346) ए ई (एल), अविजित सिंह चौहान (27392) ए ई (एल), बी कार्थीकेयन (27317) ए ई (एम), ओ एस बाबू (27378) ए ई (एल), किशोर आर विरियाला (27395) ए ई (एल), एम जे खान (27379) ए ई (एल), दीपक व्यास (27358) ए ई (एल), के एस सानू नायर (27398) ए ई (एल), प्रतीक विश्वास (27369) ए ई (एल), दीपक गर्ग (27385) ए ई (एल), राजिन्द्र सिंह (27402) ए ई (एल), एस सतीश (27424) ए ई (एम), एम मुरली धर्म (27429) ए ई (एम), मधुर थपलियाल (27365) ए ई (एल), प्रवीण एन दोननी (27320) ए ई (एम), प्रल्यूष आमद (27337) ए ई (एल), एम श्रीरमण ए ई (एल), वेणू वालेरी (27396) ए ई (एल), सबूर अहमद (27360) ए ई (एल), किरण कृष्णन (27361) ए ई (एल), यू के प्रबुद्ध कुमार (27336) ए ई (एल), प्रवीण नायर (27326) ए ई (एम), जी पी सिंह (27311) ए ई (एम), पी अनिल कुमार (27431) ए ई (एम), सी पी वोलिती (27356) ए ई (एल), अभिषेक प्रेमी (27362) ए ई (एल), एम श्रीनिवासूलू (27353), पंकज यादव (27373) ए ई (एल), आर मुरलीस्वर्ण (27383)

ई (एल), के जयानदन (27413) ई (एल), सुदिपा मुखर्जी (27375) ई (एल), रविन्द्र अग्रवाल (27327) ई (एम), सुनिल कुमार पाण्डेय (27400) ई (एल), अभिषेक बंसल (27419) ई (एम), वी संतोष कुमार (27394) ई (एल), चाकेत गुलाटी (27363) ई (एल), अंशुमन समाजपती (27399) ई (एल), एस के चक्खाण (27357) ई (एल), सी सी सी आनन्दराज (27325) ई (एम), टी ब्रोजन सिंह (27381) ई (एल), अच्छुल्लाह ज़ाहिद (27387) ई (एल), कुमार प्रांशु (27314) ई (एम), दीपक कृष्णाणी (27117) ई (एम), संदीप यादव (27411) ई (एल), एस गिरिधर (27355) ई (एल), प्रसन्ना आर बाडीगर (27323) ई (एम), राम नाथ हर्षण (27328) ई (एम), शशांक शर्मा (27397) ई (एल), डब्ल्यू खिलीनजीत (27371) ई (एल), एन प्रवीण (27370) ई (एल), गुरजाप सिंह (27391) ई (एल), विक्रम सिंह उल्शाई (27368) ई (एल), सुखविन्द्र सिंह (27364) ई (एल), एस राजेश (27351) ई (एल), ए प्रवीण कुमार (27315) ई (एम), एच के एम तल्सानिया (27322) ई (एम), आर संकरामण (27350) ई (एल), गौरव शुक्ला (27339) ई (एल), अविनाश दूबे (27345) ई (एल), परवेज़ असलम (27344) ई (एल), एस प्रसाद (27367) ई (एल), एस के कौशिक (27432) ई (एल) क्षितिज वशिष्ठ (27404) ई (एल), एम बी पोणप्पा (27403) ई (एल), बी कार्तिक (27349) ई (एल), अनूप राज वाष्णव्य (27382) ई (एल), पी वी राजेश (27376) ई (एल), जोठी रविन्द्र (27329) ई (एम), सचिन सोना (27386) ई (एल), एल बी एम जे अन्येनी (27416) ई (एल), गौरव प्रताप (27405) ई (एल), मोहित शर्मा (27313) ई (एम), एस वी सूक्ष्म कुमार (27321) ई (एम), प्रीतम कुमार (27340) ई (एल), के सुरेश कुमार (27389) ई (एल), पंकज कुमार डे (27354) ई (एल), पी के शर्मा (27322) ई (एम), के पी किरण कुमार (27377) ई (एल), कमलेश कुमार झा (27342) ई (एल), धीरज यादव (27331) ई (एम), एम कार्तिकेयन (27318) ई (एम), प्रीतोश मिश्रा (27390) ई (एल), सिदार्थ शर्मा (27366) ई (एल), तनूज वर्मा (27412) ई (एल), के जयराज शेखर (27425) ई (एम), मोहित कुमार वर्मा (27338) ई (एल), गौरव शर्मा (27341) ई (एल), शाहब अहमद (27409) ई (एल), प्रसुन प्रभाकर (27430) ई (एम), अनिल पंत (27380) ई (एल), हीरेन पी कोठारी (27388) ई (एल), शशिधर (27319) ई (एम), के सुब्रामनियन (27352) ई (एल), एन किशोर (27359) ई (एल), ए जी एन चैतन्य (27347) ई (एल), शिवेन्द्र नाथ (27344) ई (एल), एस आर पालीवाल (27310) ई (एम), मुकेश यादव (27333) ई (एम), एम ए सिंह (27414) ई (एल), जे प्रशान्त (27343) ई (एल), आर अरविन्द (27410) ई (एल), विकेत चतुर्वेदी (27312) ई (एम), बाल्स्फोलोमेन (27348), गौरव शर्मा (27415) ई (एल), विक्रम चट्ट्य (27406) ई (एल), एस श्रवण (27372) ई (एल), दिनांक 05 जनवरी 2002 से।

राष्ट्रपति, निम्नलिखित अफसरों को जिन्हें अल्पकालीन सेवा कमीशन (परखाधीन) प्रदान किया गया था पुष्टि उनके नाम के सामने दी गई तिथि से करते हैं :—

वैमानिक अभियांत्रिकी (इलेक्ट्रिकल) शाखा

फ्लाइंग अफसर कपिल अग्रवाल (26887), सुनील शिवशंकर अग्रवाल (26888), सन्दीप मोहनदास शिनोय (26890), आर लक्ष्मी नारायण

(26889), अमनदीप शर्मा (26894), एस राजा प्रभु (26893), बालचन्द्र विवेक (26895), तरनजीत सिंह (26892), गीताम्भु प्रमोद (26656), आजु कुमार रेवी (26896), दिनांक 06 जनवरी 2003 से।

वैमानिक अभियांत्रिकी (मैकेनिकल) शाखा

फ्लाइंग अफसर हरेश दवे (26883), वशिम पठन (26880), अरुण मोहर (26886), एस जगन मोहन (26885), जय चन्द्रन रामास्वामी (26884), कपिल कुमार झा (26882), राहुलदेव सुयाकर बाड़े (26881), दिनांक 06 जनवरी 2003 से।

राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारियों जिन्हें स्थायी कमीशन (परखाधीन) रखा गया था की पुष्टि, दिनांक 05 जुलाई 2004 से करते हैं, उन्हें उनके नाम के सामने दी गई तिथि से पूर्व तिथि (Ante Date) प्रदान की जाती है :—

वैमानिक अभियांत्रिकी शाखा

फ्लाइंग अफसर शैलेन्द्र दत्त सीध्या (27616) ए ई (एल), पंकज बाजपेयी (27580), ए ई (एम), आयुष तिवारी (27587), ए ई (एल), राकेश (27596), ए ई (एल) सन्दीप पाण्डुरंग घुले (27572) ए ई (एल), मनी गोविन्द राजन (27634), ए ई (एल) अमनउल्लाह हसन (27630) ए ई (एल), अलविदा आलविन जेसुस (27591) ए ई (एल), सचिन कुमार (27609) ए ई (एल), शशांक शेखर रव्य (27571) ए ई (एम), बसवराज (27607) ए ई (एल), गुरविन्दर सिंह पल्लहा (27579) ए ई (एम), हबीन व्योमस बी (27594) ए ई (एल), दिनेश हरिक जोसफ (27330) ए ई (एम), चाल्स विनोद विक्टर (27577) ए ई (एम), जयन्त कुमार बी आर (27576) ए ई (एम), श्रीनिक कुमार बनथिया (27590) ए ई (एल), साकले अमोल भुपाल (27584) ए ई (एम), अरविन्द रंजन (27619), ए ई (एल), पर्वा सहा (27618), ए ई (एल), शिवन कुमार वेहरा (27586) ए ई (एल), अभिनव जैन (27595) ए ई (एल), प्रीमी राजेश बाबु (27604) ए ई (एल), अभिषेक जनाने (27620) ए ई (एल), अरनब गोस्वामी (27592) ए ई (एल), मक्करण्ड मधुकर ईंगले (27612) ए ई (एल), संदीप देसाई एस (27597) ए ई (एल), रविकुमार एच एन (27606) ए ई (एल), संजीव सजवान (27603) ए ई (एल), कल्याण चक्रवर्ती गेड़ा (27598) ए ई (एल), नामा सत्यनारायण सेट्टी (27615) ए ई (एल), विजय राजेन्द्रन (27588) ए ई (एल), बर्गीस थोपस (27593) ए ई (एल), बेबी विमल देव (27583) ए ई (एम), प्रतीक व्यापर (27599) ए ई (एल), बसन्तामन्दिरम परमेश्वरन नायर श्री नाथ (27573) ए ई (एम), फेजो के पाल (27570) ए ई (एम), बिश्वारूप देब (27600) ए ई (एल), पाण्डुरंग माधव निबध्ये (27575) ए ई (एम), गुण्डलुस रैड्ही राजा शेखर (27601) ए ई (एल), गोविन्दा कृष्णन यू (27578) ए ई (एम), अनुपम मलिक (27621) ए ई (एल), नवीन शिव शंकर (27581) ए ई (एम), गुनाम साई रामजी (27608) ए ई (एल), देविन्द्र सिंह (27602) ए ई (एल), गुरु प्रसाद किकरी नन्जुन्दास्वामी (27610) ए ई एल, अनवर शाजी सी (27408) ए ई (एल), प्रशान्त कुमार एम (27613) ए ई (एल), हर्ष सन एस (27582), ए ई (एम), कनुप्रीति कृष्णा चैतन्य (27617) ए ई (एल), दिनांक 05 जुलाई 2002 से।

संजीव श्रीवास्तव
विंग कमाण्डर
जे डी पी ओ 3 (डी)

(थल सेना विभाग)

सं. 309, दिनांक 3 जून 2005--थल सेना अनुदेश 15/79 व थल सेना अनुदेश 10/02 द्वारा उसमें जारी संशोधनों के अन्तर्गत राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नति करते हैं :--

नियमित सेना
सैनिक दन्त चिकित्सा कोर
(अल्पस्थाई कमीशन)

कैप्टन से अर्द्धस्थाई मेजर के पद पर

डी एस-12022 एल दिनेश सिंह अहूजा, 10 फरवरी 2005

परमजीत सिंह
मेजर जनरल
ए डी जी डी एस

सं. 310, दिनांक 3 जून 2005--थल सेना अनुदेश 15/79 तथा उसमें जारी संशोधनों के अधीन राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित नियुक्ति करते हैं :--

नियमित सेना
सैनिक दन्त चिकित्सा कोर
अर्द्धस्थाई कमीशन
लेफिट के पद पर (परख पर)

डी एस-12118 एन, प्रमोद उदामनी, ए डी कोर, बी डी एस, कर्नाटक, 03 मार्च 2004

(वेतन और पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता 03 सितम्बर 2003 से दी जाती है। इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए छः महीने पहले से दी गई ज्येष्ठता भी शामिल है, जो उपदान के लिए नहीं गिनी जाएगी।)

(28 अगस्त 2004 को भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना में जहां तक इसका सम्बन्ध उपर्युक्त अफसर से है, रद्द किया जाता है।)

आर सी धीर
लेफिट जनरल
डी जी डी एस

सं. 311, दिनांक 2 जून 2005--राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित अधिकारियों की पदोन्नति करते हैं :--

नियमित सेना
स्थाई कमीशन
(सेना चिकित्सा कोर)

सर्जन कमाण्डर (व समकक्ष) से सर्जन कैप्टन (व समकक्ष) रैंक में
श्रीमती विनीता तंत्रमर (एम आर-05681-एक्स) (75230), 19 नवम्बर 2004

(वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 13 मई 2004 से दी जाती है।)

सी बी चिककना (एम आर-04542-एफ) (75613), 24 दिसम्बर 2004

(वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 03 अक्टूबर 2004 से दी जाती है।)

एस के शर्मा
ब्रिगेडियर

उप मनि स से चि स (का)

ले कर्नल से कर्नल के मूल रैंक में पदोन्नति (चयन द्वारा)

आई सी सं.	नाम	आर्म्स/सर्विस	मूल रैंक की तिथि
1	2	3	4
बी-00347	जगविन्दर सिंह	आर बी सी	01.02.2003
बी-00350	दीपक बदियाल	-वही-	-वही-
बी-00352	आर आर यादव	-वही-	-वही-
38258	पी एस तोमर	ई एम ई	01.08.2003
34907	जेकाब मैथू	-वही-	-वही-
37016	डी प्रदीप कुमार	इन्फैन्ट्री	-वही-
37017	जे एस सोई	आर्टी	-वही-
37020	ललित राय	इन्फैन्ट्री	-वही-
37022	संजय कुलकर्णी	-वही-	-वही-
37023	प्रताप दत्ता	ए डी ए	-वही-
37024	जॉन मणी	इंजीनियर्स	-वही-
37026	जे एस के राव	इन्फैन्ट्री	-वही-
37028	आर एस मान	-वही-	-वही-
37035	मोहिन्दर सिंह	ए ओ सी	-वही-
37045	आर के शर्मा	मेक इन्फैन्ट्री	-वही-
37055	आर एन जी दस्तीदार	-वही-	-वही-
37061	सैयद अहमद अली	इन्फैन्ट्री	-वही-
37077	कपिल देव	इन्फैन्ट्री	-वही-
37084	एस के मनचंदा	ए ओ सी	-वही-
37090	सी एस राठौर	इन्फैन्ट्री	-वही-
37092	बी डब्ल्यू वैद्य	-वही-	-वही-
37096	अरुण गुप्ता	-वही-	-वही-
37100	एस पी सिंह	आर्टी	-वही-

1	2	3	4
37101	ए एस चौमा	ए सी	01.08.2003
37102	कुलविन्दर सिंह	आर्टी	-वही-
37123	आर एस कादियन	इन्फैन्ट्री	-वही-
37128	रघुवीर सिंह	-वही-	-वही-
37130	एस रविन्द्रनाथ	इंजीनियर्स	-वही-
37138	एस एस गिल	इन्फैन्ट्री	-वही-
37139	टी जे डेविस	ए सी	-वही-
37083	आर एस चौपड़ा	इन्फैन्ट्री	-वही-
37673	के शंकर राव	इंजीनियर्स	-वही-
35110	वेणुगोपाल मेनन	-वही-	-वही-
35112	एस श्रीधर	ए सी	-वही-
35114	डी कपूर	गार्ड	-वही-
35115	जगबीर सिंह	मैक इन्फैन्ट्री	-वही-
35116	दीपक मेहता	इन्फैन्ट्री	-वही-
35118	एस पी नवाये	इंजीनियर्स	-वही-
35122	बी एस चौहान	इन्फैन्ट्री	-वही-
35124	पी एम करिअप्पा	सिग्नल	-वही-
35125	एम एन पुरुषोत्तमा	आर्टी	-वही-
35130	एस गणपती	मैक इन्फैन्ट्री	-वही-
35134	राकेश बख्ती	इंजीनियर्स	-वही-
35136	डी एस नेगी	इन्फैन्ट्री	-वही-
35137	पी एम हरीज	मैक इन्फैन्ट्री	-वही-
35139	राकेश मेहता	-वही-	-वही-
35141	टी एस दत्ता	आर्टी	-वही-
35142	राहुल गुप्ता	ए डी ए	-वही-
35144	राकेश निझावन	ए डी ए	-वही-
35145	जे एस मथारू	ई एम ई	-वही-
35146	आर सी जसवाल	ए ओ सी	-वही-
35150	नीरज पाठक	ए सी	-वही-
35153	डी के पुरोहित	इन्फैन्ट्री	-वही-
35154	बी आर आर पिल्टै	-वही-	-वही-
35158	डी नागराजन	-वही-	-वही-
35160	ए के सीवच	-वही-	-वही-
35162	के के शर्मा	-वही-	-वही-
35163	एस के अनेजा	ई एम ई	-वही-
35167	यशवन्त सिंह	-वही-	-वही-
35168	एस के सिन्हा	ए डी ए	-वही-

1	2	3	4
35169	के सी डोगरा	इन्फैन्ट्री	01.08.2003
35171	राजबीर सिंह	-वही-	-वही-
35173	आर जे नोरोहा	-वही-	-वही-
35174	राजीव जुनेजा	सिग्नल	-वही-
35178	आर एस चिलर	ए ओ सी	-वही-
35181	एस चक्रबर्ती	ए डी ए	-वही-
35185	एस एस मलिक	आर्टी	-वही-
35187	अरुण मुखर्जी	इन्फैन्ट्री	-वही-
35188	आर के शर्मा	-वही-	-वही-
35189	अजय कोहली	सिग्नल	-वही-
35199	उमेश कुमार राय	इन्फैन्ट्री	-वही-
35201	ए के सहगल	ए डी ए	-वही-
35202	एम पी सिन्हा	इन्फैन्ट्री	-वही-
35204	यू एस बावा	-वही-	-वही-
35207	आई देवेन्द्र सिंह	ए ओ सी	-वही-
35210	बी के धींगरा	ए डी ए	-वही-
35215	सोहन सिंह धनोआ	इन्फैन्ट्री	-वही-
35217	प्रदीप राणा	-वही-	-वही-
35218	प्रबीण जोशी	-वही-	-वही-
35219	के जी भागवत	-वही-	-वही-
35221	अमित राय	ए सी	-वही-
35222	एस विश्वनाथन	सिग्नल	-वही-
35224	ए के कालिया	ए ओ सी	-वही-
35226	के जी कृष्णा	इन्फैन्ट्री	-वही-
35227	अनिल पुरी	ए एस सी	-वही-
35229	डी के नन्दा	इन्फैन्ट्री	-वही-
35234	जी एस सोब्बी	आर्टी	-वही-
35237	जे अनंतमण	इन्फैन्ट्री	-वही-
35242	डी नाथ	-वही-	-वही-
35246	जगमोहन बर्मा	-वही-	-वही-
35249	जी एस चौमा	ए सी	-वही-
35250	ए के नागपाल	-वही-	-वही-
35254	सुनील सबरवाल	-वही-	-वही-
35258	हरिदास गोपालन	ए डी ए	-वही-
35259	आलोक वाजपेयी	इंजीनियर्स	-वही-
35260	सरताज सिंह	ए ओ सी	-वही-
35261	पी एन के नारायणन	इन्फैन्ट्री	-वही-

1	2	3	4	1	2	3	4
35264	एच एस शाहिद	इन्फैन्ट्री	01.08.2003	39030	राम गोपाल	सिग्नल	01.8.2003
35266	के पी चंद	आर्टी	-वही-	39032	एस एन अखाड़े	-वही-	-वही-
35270	पी न्हे शंब	ए ओ सी	-वही-	39034	एस के रैना	इंजीनियर्स	-वही-
35271	अनील सूद	ई एम ई	-वही-	39043	बी के छिमबाल	ई एम ई	-वही-
35274	विनोद कुमार	इन्फैन्ट्री	-वही-	39056	सुखवीर शर्मा	इंजीनियर्स	-वही-
35277	डी के राय	-वही-	-वही-	35108	नरेन्द्र सिंह	-वही-	-वही-
35282	जसबीर सिंह	-वही-	-वही-	35109	आर वी कनिटकर	ए सी	-वही-
35284	विकास जोशी	आर्टी	-वही-	35111	रंजन कुमार सिंह	इन्फैन्ट्री	-वही-
35285	पी के सोधी	ए एस सी	-वही-	39054	ए भंडारकर	ई एम ई	-वही-
35290	सुधीर उप्पल	इन्फैन्ट्री	-वही-	37732	राकेश कुमार	-वही-	-वही-
35294	बी जी रावत	ए ओ सी	-वही-	37734	जी रविकुमार	-वही-	-वही-
35297	जे एस रावत	इन्फैन्ट्री	-वही-	37132	एन के बक्षी	आर्टी	-वही-
35301	सी एस मलिक	ए सी	-वही-	37175	बी सी कटोच	ए सी	-वही-
35304	आर के जोशी	इंजीनियर्स	-वही-	37178	आर एस सिंह	मेक इन्फैन्ट्री	-वही-
35307	बी एन प्रसाद	इन्फैन्ट्री	-वही-	37179	बी के छिक्कर	इन्फैन्ट्री	-वही-
35308	एच एस मंगत	आर्टी	-वही-	37181	एस बनर्जी	ए सी	-वही-
35309	एल एस रंधावा	-वही-	-वही-	37183	के जे सिंह	ए ओ सी	-वही-
35314	डी पी श्रीनिवास	इन्फैन्ट्री	-वही-	37189	बी एस सम्ब्याल	इन्फैन्ट्री	-वही-
35317	एस के पाटिल	ए एस सी	-वही-	37190	आर एम शर्मा	ए एस सी	-वही-
35318	अशोक शर्मा	ए ओ सी	-वही-	37193	एस अधिकारी	इन्फैन्ट्री	-वही-
35321	आर के पाण्डे	इन्फैन्ट्री	-वही-	37194	गुरमीत सिंह	ई एम ई	-वही-
35324	आर एस परहार	ए सी	-वही-	37195	कुलबीर सिंह	ए ओ सी	-वही-
35329	अनिल भाटिया	इन्फैन्ट्री	-वही-	37200	बी बी अत्रे	ए सी	-वही-
35346	ए के वैद	-वही-	-वही-	37201	पी एस शेखावत	ए एस सी	-वही-
35347	एन के एम भट्टागर	-वही-	-वही-	37202	के सी पत्त	इन्फैन्ट्री	-वही-
35351	सी उनीकृष्णन	-वही-	-वही-	37204	बिनाय पोनेन	-वही-	-वही-
35357	सी एम मल्होत्रा	एसी	-वही-	37209	एम सी चौहान	ए एस सी	-वही-
35360	राकेश वीरमनी	इन्फैन्ट्री	-वही-	37210	एस पदमनाथ	इन्फैन्ट्री	-वही-
35365	राजीव जौहरी	आर्टी	-वही-	37211	डी एस डडवाल	-वही-	-वही-
35367	एम गिरिधर	इन्फैन्ट्री	-वही-	37217	राजेश कुमार	आर्टी	-वही-
35371	अनूप प्रकाश सिंह	ए ओ सी	-वही-	37219	ए के एस चौहान	-वही-	-वही-
35373	एच एस साही	इन्फैन्ट्री	-वही-	37220	उत्तम सिंह	इन्फैन्ट्री	-वही-
35375	पी मंडोत्रा	-वही-	-वही-	37223	ए चन्द्र	-वही-	-वही-
35376	गौतम देब	इन्ट कोर	-वही-	37230	ए के शर्मा	-वही-	-वही-
35384	पी एस डडवाल	ए एस सी	-वही-	37233	ओ पी यादव	-वही-	-वही-
39024	के के पाहुजा	इंजीनियर्स	-वही-	37238	ए पी एस चीमा	इन्फैन्ट्री	-वही-
39028	राजपाल सिंह	ई एम ई	-वही-	37242	के एस राणा	-वही-	-वही-

1	2	3	4	1	2	3	4
37243	जे फ्रेडरिक	आर्टी	01.8.2003	35512	जयराज अजरिया	आर्टी	01.12.2003
37245	राजन कुलकर्णी	इन्फैन्ट्री	-वही-	35513	कुलवन्त सिंह	-वही-	-वही-
37247	जी एस चंदेल	-वही-	-वही-	35514	बी के मदान	-वही-	-वही-
37258	बी सी वर्गास	इंजीनियर्स	-वही-	35515	भधानी एस दास	इन्फैन्ट्री	-वही-
37268	एस एस जोसन	इन्फैन्ट्री	-वही-	35520	के एस चौधरी	-वही-	-वही-
37271	राजीव सूद	ए ओ सी	-वही-	35521	संजय सरन	आर्टी	-वही-
37283	बी पी रमेश	इन्फैन्ट्री	-वही-	35522	पी आर नारायण	-वही-	-वही-
37294	एच बहादुर	-वही-	-वही-	35527	बी के यादव	-वही-	-वही-
35183	कुलदीप सिंह	-वही-	-वही-	35538	नीरज बाली	इन्फैन्ट्री	-वही-
35468	संदीप कुमार	-वही-	-वही-	35543	टी के मुखर्जी	आर्टी	-वही-
35470	ए कुण्डु	ए सी	-वही-	35548	एस के सामने	-वही-	-वही-
35471	बिपिन रावत	इन्फैन्ट्री	-वही-	35550	संजीव शुक्ला	ए सी	-वही-
35472	एम एन बुधानी	-वही-	-वही-	35553	सुनील शर्मा	इन्फैन्ट्री	-वही-
35474	एम एम शुक्ला	-वही-	-वही-	35558	मोहम्मद सज्जाद	-वही-	-वही-
35479	बी एस नेगी	-वही-	-वही-	35559	हरिन्द्र भनोट	ई एम ई	-वही-
35480	सुरिंदर सिंह	-वही-	-वही-	35560	जे घोसल	इन्फैन्ट्री	-वही-
35481	आर नारायण	ए सी	-वही-	35563	बी के जैन	-वही-	-वही-
35482	एस कौशिक	इंजीनियर्स	-वही-	35566	एम जे मैथ्यू	आर्टी	-वही-
35485	राजीव तलवार	ए सी	-वही-	35572	आर एस निरबान	इन्फैन्ट्री	-वही-
35486	एस सी रंगी	इन्फैन्ट्री	-वही-	35574	पी सी कटोच	आर्टी	-वही-
35487	एन पी एस हीरा	-वही-	-वही-	35577	एस कल्लत	-वही-	-वही-
35488	जी राजीवन	आर्टी	-वही-	35578	डी बिन्दा	इन्फैन्ट्री	-वही-
35490	एन पी मुरलीधरण	सिग्नल	-वही-	35581	सी प्रकाश	आर्टी	-वही-
35491	पी एस मेहला	ए एस सी	-वही-	35584	जी के गुजाला	इन्फैन्ट्री	-वही-
35492	डी ए पाटिल	मेक.इन्फैन्ट्री	-वही-	35585	जगदीश सिंह	-वही-	-वही-
एसएल-				35586	भुपिंदर सिंह	मेक.इन्फैन्ट्री	-वही-
2478	डी आर यादव	एस एल आर ओ	-वही-	35587	बेअंत परमार	इन्फैन्ट्री	-वही-
35494	सुब्रत साहा	इन्फैन्ट्री	01.12.2003	35589	डी एस ननुआन	आर्टी	-वही-
35496	एस एन यादव	आर्टी	-वही-	35595	एस एस होरा	-वही-	-वही-
35498	इन्द्रजीत सिंह	ए ओ सी	-वही-	35602	ए बी शिवाणे	ए सी	-वही-
35499	एम आर बाबू	इन्फैन्ट्री	-वही-	35606	जी के पाण्डे	आर्टी	-वही-
35500	एफ एस करमसोत	आर्टी	-वही-	35607	एच एस भाटी	ए सी	-वही-
35501	के ए मुथाना	इन्फैन्ट्री	-वही-	35610	बलबीर सिंह	ए एस सी	-वही-
35502	एच एस पठानिया	गार्ड्स	-वही-	35619	एस एस पठानिया	सिख	-वही-
35505	अमर कृष्ण	इंजीनियर्स	-वही-	35622	आशुतोष धर	ए एस सी	-वही-
35506	अमुल भेहरा	सिग्नल	-वही-	35623	आर के कपूर	सिग्नल	-वही-
35511	भरत भूषण	इन्फैन्ट्री	-वही-	35624	एस के बहल	आर्टी	-वही-

1	2	3	4	1	2	3	4
35625	ए के सहगल	आर्टी	01.12.2003	35789	रंजीत सिंह	ए ई सी	01.12.2003
35626	यू के गुरुंग	इन्फैन्ट्री	-वही-	35790	डी चौधरी	-वही-	-वही-
35637	आर बद्रीनारायण	ए ओ सी	-वही-	35801	आर एस खत्री	ए ई सी	-वही-
35643	बी नारायणन	इन्फैन्ट्री	-वही-	35833	पी चक्रवर्ती	-वही-	-वही-
35644	अनिरुद्ध नाथ	ए ओ सी	-वही-	35874	सी एस नायर	जैग	-वही-
35645	सी पी कुमार	आर्टी	-वही-	39398	ए के वाही	इंजीनियर्स	-वही-
35649	विजय कुमार सिंह	आर्टी	-वही-	39401	डी के जी काढू	-वही-	-वही-
35650	बी सी मैथ्यूज	इन्फैन्ट्री	-वही-	39407	के अनन्थ	ई एम ई	-वही-
35651	जॉसेफ एम जे	ए एस सी	-वही-	39408	एच के सेमवाल	इंजीनियर्स	-वही-
35653	एम एम शाह	इन्फैन्ट्री	-वही-	39410	देबरचन पलीत	-वही-	-वही-
35655	थॉमस जॉर्ज	-वही-	-वही-	39413	आशीष चन्द्र	ई एम ई	-वही-
35658	के डी पेन्डरकर	इन्ट	-वही-	35140	बी सी सरमाह	इन्फैन्ट्री	-वही-
35667	गौतम कर	आर्टी	-वही-	35340	बी एन पी चन्द्रन	-वही-	-वही-
35669	सी पी मेदाप्पा	इन्फैन्ट्री	-वही-	37049	के एस राठौर	इन्फैन्ट्री	01.8.2003
35672	सुरिन्दर सिंह	आर्टी	-वही-	मेजर से ले. कर्नल के मूल रैंक में (समय मान) द्वारा			
35680	बलदेव सिंह	इन्फैन्ट्री	-वही-	आई सी-42446 आशीश मुखर्जी सिंगल, 15 दिसम्बर 2004			
35681	एस डी भण्डारे	आर्टी	-वही-	आई सी-42544 मोनिल कुमार सिंगल, 15 दिसम्बर 2004			
35684	संदेश	इंफैन्ट्री	-वही-	आई सी-42445 पी के शर्मा ए एस सी, 15 दिसम्बर 2004			
35686	एन एस नेगी	पायनियर	-वही-	आई सी-42403 एम के राओत आर्टी, 15 दिसम्बर 2004			
35688	अर्जुन गुप्ता	इन्फैन्ट्री	-वही-	आई सी-42506 एल के बुबना आर्टी, 15 दिसम्बर 2004			
35692	एम पी एस बवेजा	सिंगल	-वही-	आई सी-42594 के कुमार सिंगल, 15 दिसम्बर 2004			
35704	सी के एस मान	इन्फैन्ट्री	-वही-	आई सी-42443 मौराथन बी एस इन्फैन्ट्री, 15 दिसम्बर 2004			
35706	एस एस सिरोही	ए एस सी	-वही-	आई सी-42586 आर महाजन ए डी ए, 15 दिसम्बर 2004			
35715	बी पी के पिल्लै	इन्फैन्ट्री	-वही-	आई सी-42436 ए के साह आर्टी, 15 दिसम्बर 2004			
35717	जी श्रीनिवासन	आर्टी	-वही-	आई सी-42484 राकेश कक्कर सिंगल, 15 दिसम्बर 2004			
35718	अनिल कुमार	ए ओ सी	-वही-	आई सी-42510 जी रैडी ए सी, 15 दिसम्बर 2004			
35720	एन के माथुर	आर्टी	-वही-	आई सी-41795 श्री बहादुर इन्फैन्ट्री, 17 दिसम्बर 2003			
35722	टी आर शर्मा	ई एम ई	-वही-	आई सी-41539 एस के पांडे सिंगल, 17 दिसम्बर 2003			
35724	एम एस संधू	इन्फैन्ट्री	-वही-	आई सी-41804 एस कुमार इंजीनियर्स, 17 दिसम्बर 2003			
35727	सुधीर सिंह	-वही-	-वही-	आई सी-41712 एस एच शुक्ला इन्फैन्ट्री, 17 दिसम्बर 2003			
35731	एस बी अस्थाना	असम	-वही-	आई सी-41270 राजीव बक्शी इंजीनियर्स, 18 जून 2003			
35743	सुनील कपूर	ए सी	-वही-	आई सी-43181 यू के सिंह इंजीनियर्स, 19 जून 2003			
35746	एच एस पुरी	ए एस सी	-वही-	आई सी-43644 सुनील भगत इंजीनियर्स, 18 दिसम्बर 2003			
35748	महेश कुमार	कुमाऊं	-वही-	आई सी-43616 ए के भटाईया इंजीनियर्स, 18 दिसम्बर 2003			
35760	वाई एस सिरोही	इंजीनियर्स	-वही-	आई सी-45159 रजनीश कुमार इंजीनियर्स, 10 नवम्बर 2003			
35766	एम आई एस चौहान	इन्फैन्ट्री	-वही-				
35768	ए के शर्मा	आर्टी	-वही-				

आई सी-41658 जगबीर सिंह इंजीनियर्स, 17 दिसम्बर 2003	46700 हेमन्त कुमार डोगरा, आर्टी
आई सी-41285 स्वरूप चन्द मैक इन्फैन्ट्री, 18 जून 2003	46194 फिरोज हमीद उसमानी, इंजीनियर्स
आई सी-41779 निर्मल कुमार इंजीनियर्स, 17 दिसम्बर 2003	46497 विवेक गुप्ता, ए सी
आई सी-44026 पी क्षीरसागर इंजीनियर्स, 14 जून 2004	46555 अनिल कुमार जैन, इंजीनियर्स
आई सी-38926 परमजीत सिंह इन्फैन्ट्री, 7 जून 2003	46670 दिनेश कुमार यादव, आर्टी
आई सी-42015 सी जे रीगो इंजीनियर्स, 9 जून 2004	46671 संजय घोष, ए डी आर्टी
आई सी-41918 के रवि आर्टी, 9 जून 2004	46685 सी शशि, इन्फैन्ट्री
आई सी-43994 जसबीर सिंह इंजीनियर्स, 14 जून 2004	46789 रावीश वैद ए एस सी
आई सी-41990 ए एस राजावत ए सी, 9 जून 2004	48840 सुनील कुमार, ए ओ सी
आई सी-41835 ए कुमार इंजीनियर्स, 20 दिसम्बर 2001	48911 पार्थसार्थी आर, इंजीनियर्स
आई सी-40224 ई पी पी टोपनो इन्फैन्ट्री, 19 दिसम्बर 2001	49169 अजय अहलावत, ए सी
आई सी-42139 आर एस वर्मा ई एम ई, 9 जून 2004	49312 अरुण शर्मा, ए सी
आई सी-42219 राजीव बाबू आर्टी, 9 जून 2004	49395 कमलजीत सिंह बिन्द्रा, ई एम ई
आई सी-41794 ए के माधुर ए एस सी, 17 दिसम्बर 2003	49581 अनिल गुरुंग, इन्फैन्ट्री
एस एल-3266 के एस बहिनसोरा ए ओ सी, 20 जुलाई 2004	50015 अजय आहूजा, इन्फैन्ट्री
आई सी-40944 डी के मित्रा इन्फैन्ट्री, 24 दिसम्बर 2002	50131 सुनील कुमार, इन्फैन्ट्री
आई सी-40899 अतुल कश्यप इन्फैन्ट्री, 24 दिसम्बर 2002	50206 जसविन्दर सिंह, आर्टी
आई सी-41006 एस बत्रा इन्फैन्ट्री, 24 दिसम्बर 2002	50483 बावीसेती श्री नारेश, ई एम ई
आई सी-42093 एम के देव मैक इन्फैन्ट्री, 9 जून 2004	50518 दंतकाले विवेक रमेश, इन्फैन्ट्री
एस एल-3206 आर के राय इंजीनियर्स, 20 जुलाई 2004	50572 अरुण गणेश रोब पथाड़े, आर्टी
आई सी-45330 एस मोहन ए सी, 9 नवम्बर 2004	50619 विनोद दिवाकरण, इन्फैन्ट्री
आई सी-45308 एम ए बेग जे ए जी, 9 नवम्बर 2004	50627 अनूप देवली, आर्टी
एस एल-3146 एच बी गुरुंग एस एल, 20 जुलाई 2004	50630 नरेन्द्र पाल सिंह तूर, ए सी
कप्तान से भेजर	50643 प्रबीण कुमार भट्ट, इन्फैन्ट्री
आई सी नं. नाम आर्म	50979 शंकरराव वसंतराव यादव, इंजीनियर्स
53178 सन्दीप चटर्जी, इन्फैन्ट्री	50992 यतेन्द्र सिंह तोमर, इन्फैन्ट्री
53249 एम सूरज प्रकाशम, आर्टी	51018 उमेद सिंह राठौर, आर्मी ए वी एन.
53269 कौशलेश पंगहाल, ए ओ सी	51045 सौरभ लाल, इन्फैन्ट्री
53288 नवदीप सिंह, इन्फैन्ट्री	51063 विनय कपूर, इन्फैन्ट्री
53405 प्रभास अवस्थी, इंजीनियर्स	51080 राकेश बिश्वास, ए एस सी
53438 बिष्णु प्रसाद जगदेव, इंजीनियर्स	51296 तल्लापानेनी श्रोनिवासुलु, इन्फैन्ट्री
56924 मुरलीधरन एम, ई एम ई	51319 किरण काशीराम गौरव, इन्फैन्ट्री
--10 दिसम्बर 2004	51363 राजीव गोयल, ए ओ सी
50057 रुमन दीप सिंह, इंजीनियर्स	51464 प्रसाद भास्कर, इंजीनियर्स
--01 नवम्बर 2004	51566 दीपेन्द्र सिंह चमयाल, ए ओ सी
44989 संजय सिंह, सिग्नल्स	51620 गौरव साहाय, इन्फैन्ट्री
45817 नरेश कुमार छिब्बर, इन्फैन्ट्री	
45857 खेमचन्दा पाटिल, ई एम ई	

51721 एस कंडस्वामी, इन्फैन्ट्री	52581 रवि भूषण, इन्फैन्ट्री
51757 विश्व बंधु, ए एस सी	52582 अमन दीप सिंह रूपल, आर्टी
51769 तुषार श्रीवास्तव, आर्टी	52591 विनोद कुमार शर्मा, ई एम ई
51776 मुजीत कुमार, आर्टी	52601 विजय मिश्रा, सिग्नल्स
51810 गजानन पाण्डेय, ए एस सी	52614 समीर अरोड़ा, ए ओ सी
51830 रावि श्रीवास्तव, आर्टी	52616 विवेक अहलावत, ई एम ई
51862 मुरली अच्यर, सिग्नल्स	52618 नवीन तेवतिया, आर्टी
51874 अरिजीत रे, आर्टी	52622 चेतन दीवना, ई एम ई
51881 आर अनिल कुमार, ए ओ सी	52627 विजय चाहर, इन्फैन्ट्री
51993 रमेशन के सी, ई एम ई	52631 जयन्त कुमार जाना, ई एम ई
52000 गुरप्रीत सिंह, इन्फैन्ट्री	52652 जशवंत सिन्हा, इंजीनियर्स
52062 जार्ज मैथ्यू सिग्नल्स	52669 देवेन्द्र सिंह सोहल, ई एम ई
52160 आलोक भाटिया, इंजीनियर्स	52671 नरेश चौधरी, मैक इन्फैन्ट्री
52164 आर रघुपति, इन्टर्स	52673 विक्रान्त सिंह, सिग्नल्स
52167 रजनीश सेठी, सिग्नल्स	52679 शैलेन्द्र पट्टीक, सिग्नल्स
52174 गुरप्रीत सिंह बेदी, ए एस सी	52803 अजीत सिंह, इन्फैन्ट्री
52195 ए विजय कुमार, ई एम ई	52870 अजय कुमार, ए सी
52204 अजय नैच्यर, आर्टी	52887 मुक्तेश कपिल, आर्टी
52208 प्रबल मुखर्जी, इन्फैन्ट्री	52890 विकास कालुचा, सिग्नल्स
52214 कानन एस, ए एस सी	52913 पंकज सिन्हा, आर्टी
52218 नवेन्द्र एस पाल, इन्फैन्ट्री	52918 विनोद सी एच, आर्टी
52254 राम सिंह यादव, ए ओ सी	52924 हरमीक सिंह, आर्टी
52270 सुदर्शन भट्टाचार्य, सिग्नल्स	52925 अजय कुमार, इन्फैन्ट्री
52274 प्रणव कांति चौधरी, ए एस सी	52939 जॉफ़्फ़ी जॉर्ज जॉन, ई एम ई
52297 मुजीत कुमार मुखर्जी, इंजीनियर्स	52948 कुमार भास्कर, ई एम ई
52394 रवि भूषण, इन्फैन्ट्री	52962 गौतम वर्मा, आर्टी
52407 उज्ज्वल जी काम्पर, सिग्नल्स	52963 विनोत चतुर्वेदी, इन्फैन्ट्री
52453 रोडित बक्शी, ए सी	52984 मीनाक्षी सुन्दर एस, इंजीनियर्स
52459 सुरिन्द्र होरा, इन्फैन्ट्री	52988 देवेन्द्र प्रताप सिंह, इन्फैन्ट्री
52493 रणधीर सिंह, आर्टी	52997 नितिन चतुर्वेदी, ए ओ सी
52548 प्रवीण धीमन, आर्टी	53007 विनोद शर्मा, इन्फैन्ट्री
52555 डी श्रीनिवासन, आर्टी	53012 अमित सिंह नेगी, इन्फैन्ट्री
52557 अनिल ठाकुर, ए एस सी	53026 श्रीकांत तिवारी, आर्टी
52563 रजनीश भट्टाचार्य, ए एम ई	53055 अनीश जेटली, ए सी
52568 धीरज सिंह, ए एस सी	
52569 प्रताप सिंह, इन्फैन्ट्री	

53057 मार्क रॉबर्ट आरलैंड, ईन्ड	53352 संजय मिश्रा, ई एम ई	
53064 रवि कुमार मिश्रा, ई एम ई	53367 दिनेश पट्ट्याभी, ई एम ई	
53076 विक्रम विजय सुरी, ई एम ई	53386 विजय कुमार थपलियाल, इन्फैन्ट्री	
53078 अशोष खरे, ई एम ई	53388 राजीव कुमार ओहलयान, इन्फैन्ट्री	
53082 ईशुकापल्ली रघु वैकटेश्वरस्तु, ए ई सी	53392 अजय सिरोही, ई एम ई	
--01 नवम्बर 2004		
53142 सुनील उत्तम, आर्टी	53393 परमीन्दर पाल सिंह, ई एम ई	
53145 मंजीत सिंह, सिग्नल्स	53394 आई पी बी वैद्यनाथन, सिग्नल्स	
53149 नवीन कुमार शर्मा, ई एम ई	53401 चैकुरी श्रीनिवास राव, ए एस सी	
53182 हरीश चन्द्र जोशी, ए एस सी	53404 शेख असद, ए एस सी	
53190 करमजीत सिंह गिल, इंजीनियर्स	53412 नवीन चौहान, इंजीनियर्स	
53193 बलवंत सिंह, ए डी ए	53425 राजेश राना, ए एस सी	
53200 राकेश तिवारी, आर्टी	53428 नीरज चौधरी, ई एम ई	
53214 मनु कुमार, ए औ सी	53436 अनुराग कुमार चौधरी, इंजीनियर्स	
53233 शरद कुमार सिंह, ए एस सी	53455 संजीव कुमार सिंह, इन्फैन्ट्री	
53238 कैलाश चन्द्र, आर्टी	10 दिसम्बर 2004	
53251 जगभीन्द्र सिंह मान, इन्फैन्ट्री	53480 अजय कुमार उपाध्याय, ई एम ई	
53264 स्यामल सिन्हा, इन्फैन्ट्री	53483 रामा सुब्रामणीयन एच, सिग्नल्स	
53275 कुलजीत सिंह बाजवा, इन्फैन्ट्री	53867 मुनीश भागी, इंजीनियर्स	
53280 अजय कुमार गर्वैक, आर्टी	53888 शिवा राम कृष्णा सेतामगङ्गा, इंजीनियर्स	
53285 सत्य नारायण दास, इन्फैन्ट्री	53913 योगेश चन्द्रा, इंजीनियर्स	
53290 कपिल देव शर्मा, इंजीनियर्स	54264 विनीत सक्सेना, सिग्नल्स	
53297 सुरेन्द्र सिंह छिल्लर, इन्फैन्ट्री	54269 एस सरवनन, इंजीनियर्स	
53300 अमित शर्मा, इंजीनियर्स	54273 तपस कुमार विश्वनाथ दास, ई एम ई	
53305 विक्रमदेव सिंह ग्रेवाल, ए एस सी	54277 इन्द्र मोहन सिंह, ई एम ई	
53309 देवेश दुआ, इंजीनियर्स	54285 वी ए नारायण, इंजीनियर्स	
53311 रज कुमार, ई एम ई	54582 आर एल मनोज, इंजीनियर्स	
53319 सुरेन्द्र कुमार, आर्टी	54597 संदीप अचार्या, ई एम ई	
53333 कमलदीप सिंह रंधावा, ए डी ए	54604 ई पी जॉन, ई एम ई	
53335 दीपेन्द्र नाथ मल्लिक, इन्फैन्ट्री	54605 समीर सिंह, ई एम ई	
53341 राजेश मिश्रा, सिग्नल्स	54643 एच एस खोखर, ए डी ए	
53342 सुमंतो सेन, ए एस सी	54706 उदय कुमार आर संकेश्वर, इंजीनियर्स	
53348 शिवानन्द एम ए, ई एम ई	54716 अरुण सूद, ए सी	
53349 सुकुमार साहु, इंजीनियर्स	54721 बापट केदार जगन्नाथ, इन्फैन्ट्री	

54822 हरबंस सिंह, ई एम ई	55088 मनोज के बी, इंजीनियर्स
54836 प्राबीर कानूनगो, आर्टी	55093 जयदीप चक्रवर्ती, आर्टी
54855 नीरज मोडे, ए सी	--01 नवम्बर 2004
54863 ललित मोहन, इन्फैन्ट्री	55119 सूर्यवंशी अतुल दिलिप कुमार, इंजीनियर्स
54870 संजय कुमार आहूजा, ए एस सी	55123 राजेन्द्रा सिंह रावत, इंजीनियर्स
54875 संजय दामोदरन, इन्फैन्ट्री	55130 संदीप रात्रा, जैग
54882 मनबीर सिंह धनकर, ए ओ सी	55135 डी एस पूर्वेश, इंजीनियर्स
	55137 संजय आष्टे, ई एम ई
54891 जीतेन्द्र यादव, ए एस सी	55138 सुधीर कुमार सिंह, इन्फैन्ट्री
	55139 राम कृष्ण दास कपूर, ए एस सी
54893 कीर्ति सिंह बिष्ट, इन्फैन्ट्री	55143 परम जीत सिंह, इन्फैन्ट्री
54924 अजय कुमार भट्टाचार्जी, आर्टी	55145 नीरज शरद, इन्फैन्ट्री
54926 पार्था प्रातिमि देब, सिग्नल्स	55146 जय भगवान, सिग्नल्स
54932 अबरार अहमद, आर्टी	55149 अभिजीत एम वेलांकर, इन्फैन्ट्री
54939 रुद्र दीप दत्ता रॉय, इन्फैन्ट्री	55160 धर्मेन्द्र कुमार उपाध्याय, आर्टी
54943 धर्मेन्द्र सिंह चौधरी, ए ओ सी	55163 टी अलविन, ए ओ सी
54948 मंजीत सिंह, ए एस सी	55166 जे फ्रांसिस जुड़े मोहन राज, इन्फैन्ट्री
	55172 असीम कपूर, आर्टी
01 नवम्बर 2004	55174 हरीश सेठी, आर्टी
54951 रजनीश सिंह गौड़, ए एस सी	55176 अमित कुमार चौधरी, ए एस सी
54956 संजीव ठाकुर, ए एस सी	55178 मनीष मृणाल, ए एस सी
	--03 नवम्बर 2004
04 नवम्बर 2004	
54978 पाथाराकर नीलेश रविन्द्रा, इन्फैन्ट्री	55328 संजीव त्यागी, ई एम ई
54983 रणदीप सिंह नाकाय, ए सी	--01 नवम्बर 2004
54985 जगत सिंह जे हाड़ा, इन्फैन्ट्री	55518 सुशील कुमार सैनी, ई एम ई
54993 रुस्तम दारायौस खम्भबट्टा, आर्टी	55520 विजयंत ठाकुर, सिग्नल्स
55014 हिमांशु दिक्षित, ए एस सी	55526 पवन कुमार, ई एम ई
55015 संतोष कुमार, आर्टी	--01 नवम्बर 2004
55023 छत्रपाल सिंह सोलंकी, इन्फैन्ट्री	56914 तुषार प्रकाश घाटे, इंजीनियर्स
55026 पृथ्वीश साहा, आर्टी	56926 ए एल सुरेश कुमार, सिग्नल्स
55028 विमल सेठी, ई एम ई	--10 दिसम्बर 2004
55058 राकेश कुमार सिंह, इन्फैन्ट्री	48459 डी जेम्स विजय वर्धन, ए डी ए
55062 दीपक शर्मा, ए सी	--21 दिसम्बर 1997
55070 नीलेन्द्र सिंह माथुर, ए ओ सी	51313 जगदीप सिंह मान, आर्टी
55087 सवयसाची दत्ता, ई एम ई	--11 नवम्बर 2002

52406 चंचल दास गुप्ता, ए ओ सी	46240 पारस बासनेट, इन्फैन्ट्री
--11 दिसम्बर 2003	46250 इन्दर पाल सिंह धुमन, आर्टी
52724 अनुज कालिया, ए सी	46293 बीरेन्द्र सिंह वर्मा, आर्टी
52871 सौरभ सिंह शेखावत, इन्फैन्ट्री	46398 नरेन्द्र शर्मा, आर्टी
53048 परमीन्दर सिंह सिंह, ए एस सी	46414 संजय सिन्हा, आर्टी
--11 जून 2004	46420 रवि कुमार धर, ए सी
53102 अजित सिंह भदोरिया, एम एफ	46544 इन्द्रजीत सिंह, इंजी
53868 जोसफ जे के, एम एफ	46589 मनीष श्रीवास्तव, ए एस सी
--16 दिसम्बर 2004	46620 राजूनियाला बैंकटेश, ए ओ सी
54568 धीरेन्द्र सिंह, ई एम ई	46754 भास्कर बनजी, ई एम ई
--12 जून 2004	46766 देवज्योति ब्रह्मा, इन्फैन्ट्री
55047 रे गौतम प्रसाद, ए ओ सी	46812 हर्ष वी छिक्कर, ए सी
--19 अप्रैल 2004	46822 जसवंत सिंह, आर्टी
52497 सचिन पुरी, ए डी ए	46890 एस मित्रा, आर्टी
--16 दिसम्बर 2004	46952 मनप्रीत सिंह छिल्सो, आर्टी
43237 अनिल गौड़, सिग्नल्स	46960 शरद शर्मा, ई एम ई
43612 राजेश नौटियाल, इन्फैन्ट्री	46969 विक्रम सिंह, ए सी
43989 वाई यू एस जामबाल, ए एस सी	47095 अतुल अजमानी, सिग्नल्स
44397 अनिल राम, ए सी	47295 प्रेम सिंह खरबाल, ए एस सी
44413 आर एस बिष्ट, ई एम ई	47526 सी एस रवीन्द्र रेहडी, सिग्नल्स
45574 ए ए आर देशपांडे, इन्फैन्ट्री	47806 सुरेन्द्र सिंह, इन्फैन्ट्री
45661 जतिन्दर पौल, इन्फैन्ट्री	47870 आलोक जौहरी, ई एम ई
45669 सोरब जेटली, इन्फैन्ट्री	47890 अरविन्दर सिंह, ग्रेवाल, ए एस सी
45719 पौन्हिडवेरी एस सुनील कुमार, ई एम ई	47929 सिंह अलबेल सिंह, आर्टी
45749 दिनेश निशावन, ए सी	47969 किशोर जे, ई एम ई
45768 अरुण कुमार कोहली, ई एम ई	48220 पी मधुसूदन, ए ओ सी
45790 वी एस शेखावत, ए एस सी	48421 जोयन्त कुमार राय चौधरी, इन्फैन्ट्री
45861 एस हरि कुमार, ई एम ई	48853 अतुल वत्स, इंजी
45964 सुखजिन्दर सिंह, ए एस सी	48927 अमित गहलौत, ई एम ई
46018 मनुवेन्द्र चटर्जी, आर्टी	48942 कौथारप्पा श्रीनिवास, सिग्नल्स
46077 के पी प्रत्याकर, ई एम ई	48951 राज शेखर एस पाटिल, इंजी
46097 रवि मिश्रा, इन्फैन्ट्री	49155 बालाकृष्णन उन्निथन आर, आर्टी
46105 धरम वीर सिंह, इन्फैन्ट्री	49754 गणेशेसन एम, सिग्नल्स
46137 खुशरू मिस्त्री, आर्टी	49716 सुखबीत सिंह धालिवाल, इन्फैन्ट्री
46153 डी कृष्ण कुमार, आर्टी	49765 मिन बहादुर गुरुंग, इन्फैन्ट्री
46239 अनिल कुमार कानन, ए सी	49766 बीरेन्द्र सिंह, इन्फैन्ट्री

- 49783 राजीव कटोच, ए सी
 49798 संदीप सिंह, इन्फैन्ट्री
 49829 सुधीर बहल, ई एम ई
 49833 महावीर सिंह, कंवर, इंजी
 49843 संजय श्रीवास्तव, ई एम ई
 49847 प्रवीण, एम एफ
 50156 अमरजीत सिंह, ए डी आर्टी
 50234 दीपक कुमार, इन्फैन्ट्री
 50245 सजीव कुमार सिंह, इंजी
 50463 ईश्वर सिंह थापा, इन्फैन्ट्री
 50542 अमित घोष, मैक इन्फैन्ट्री
 50577 तन्मय सिंह, आर्टी
 50633 वीरेन्द्र मोहन बेन्डी, मैक इन्फैन्ट्री
 50635 एन अनिल कुमार, ई एम ई
 50654 आलोक भटनागर, इन्फैन्ट्री
 50776 सुखारापु नागराज, इंजी
 50951 आशीष बेदी, ए सी
 51026 किशोर कुमार, इंजी
 51033 शर्म चन्द्र कुमार लेखराज, आर्टी
 51059 मणि कुमार लिम्बू, इन्फैन्ट्री
 51076 एस के सिंह, ए एस सी
 51077 विवेक शर्मा, ई एम ई
 51101 हिमांशु शेखर, ई एम ई
 51111 रंजन कुमार के चौधरी, ए ई सी
 51155 संजय दलाल, इन्फैन्ट्री
 51339 अरुण कुमार पीताम्बर झा, इंट
 51377 गोपाल सिंह, चौहान, इन्फैन्ट्री
 51386 रूपिन्दर सिंह पन्नू, इन्फैन्ट्री
 51458 स्याम सुन्दर पटनायक, ई एम ई
 51599 रविन्दर सिंह बाली, इन्फैन्ट्री
 51627 राकेश कुमार वर्मा, ई एम ई
 51629 एस खत्री, सिग्नल्स
 51672 पंकज गुप्ता, आर्टी
 51698 नरसिंह मूर्ति के एन, इंजी
 51789 के एस मचल, इन्फैन्ट्री
 51811 जीतेन्द्र नारायण कुमार, ए एस सी
- 51841 वी वेंकट श्रीनिवास, आर्टी
 51872 मनीष शर्मा, ए एस सी
 51878 अरुण कांत त्रिपाठी, आर्टी
 51917 संजय कुमार, ए ई सी
 52122 अजय गुप्ता, आर्टी
 52185 सलभ त्रिपाठी, ए सी
 52201 देवेन्द्र सिंह, इन्फैन्ट्री
 52211 विरुपक शायच, ए एस सी
 52212 तिलक मगन थापा, ए ओ सी
 52216 सुशील कुमार हांदिया, इन्फैन्ट्री
 52237 सी पी राजीव, इन्फैन्ट्री
 52242 मनजीत सिंह सोही, इन्फैन्ट्री
 52340 मनोरंजन दास, इंजी.
 52422 विश्वजीत कुमार, ई एम ई
 52473 वी नागेन्द्र गाव, इंजी.
 52491 रंधावा सिंह, आर्टी
 52501 बाबू जयशंकर चंद्रा, ई एम ई
 52541 पी टी संजीव, ई एम ई
 52551 हीरा सिंह संधू, इन्फैन्ट्री
 52565 सुरेश नायर, सिग्नल्स
 52566 जसविंदर सिंह बग्गा, सिग्नल्स
 52589 के एस जानकीराम, ई एम ई
 52623 सुरिन्दर सिंह, आर्टी
 52676 वी बिनोद, इंजी.
 52704 गिरीश कश्यप एस, इंजी.
 52707 वीरेश नन्दन सहाय, ई एम ई
 52718 साही बलजिन्दर साहनी, इंजी.
 52773 ललित सहगल, आर्टी
 52792 पॉल देबोपम दिन्येन्द्र, इंजी.
 52866 तरुण कुमार, आर्टी
 52898 देविन्दर पाल सिंह दनूना, इन्फैन्ट्री
 52941 विसाहल सक्सेना, सिग्नल्स
 53008 सन्दीप कुमार निगाडे, इंजी.
 53014 जसविंदर सिंह, ई एम ई
 53041 नरेन्द्र सिंह, मैक. इन्फैन्ट्री
 53043 ए एस मुखर्जी, आर्टी
 53046 बिनोद कुमार, सिग्नल्स
 53051 तुषार तिवारी, ई एम ई
 53058 मनीष चौहान, इंट

- 53059 गौरव रजीदा, इन्फैन्ट्री
 53169 आशीष खंवलकर, ए डी आर्टी
 53176 पाठिल धनन्जिराव, शिवाजीराव, आर्टी
 53211 महेन्द्र कुमार सिंह, इन्फैन्ट्री
 53219 ललित बलहाया, ए सी
 53221 पवार नितिन राजाराम, सिग्नल्स
 53246 राजीव कुमार शर्मा, आर्टी
 53262 स्नेहाशीष भट्टाचार्जी, इन्फैन्ट्री
 53272 जगन्नाथ निर्सोकू, इंजी.
 53283 सी लालहमिंग थंगा, ए एस सी
 53320 अनिल कुमार सिंहरोहा, इन्फैन्ट्री
 53362 रितेश कुमार, इंट.
 53366 शशांक त्रिवेदी, इन्फैन्ट्री
 53381 राजकुमार सैनी, ई एम ई
 53387 पंकज दुकनैट, इन्फैन्ट्री
 53416 अनुज गर्ग, ई एम ई
 53429 मनेष बाबू जी, ए सी
 53433 कार्मिक आशीष श्रीकान्त, आर्टी
 53439 राजीव ए, ए ई सी
 53449 शैलेन्द्र प्रताप सिंह, इन्फैन्ट्री
 53484 राव मुरली श्रीधर, इंजी.
 53486 अनिल अब्राहम, इंजी.
 53877 के सुगुमार, सिग्नल्स
 54254 राजीव चट्टोपाध्याय, सिग्नल्स
 54271 के एन सिंह, ई एम ई
 54275 अनुपम कुमार सिंह, ई एम ई
 54606 प्रदीप कर, सिग्नल्स
 54611 रोहित थापा, ए ओ सी
 54634 रोहित भट्टारा, ए सी
 54702 अशोक सी, इन्फैन्ट्री
 54736 यजुवेन्द्र सिंह, ए एस सी
 54764 शैलेन्द्र सिंह साही, इन्फैन्ट्री
 54780 सुखदेव सिंह, ए ओ सी
 54790 संजय बाशिंगटन, इन्फैन्ट्री
 54793 अरविन्द कौल, इन्फैन्ट्री
 54807 प्रद्युम्न सिंह बनफर, आर्टी
 54823 वसन्त सेट्टी श्रीनिवास, ए ओ सी
 54829 सुनील कुमार चन्द्रन, आर्टी
 54830 सिद्धू जॉर्ज के, जैग
 54843 सुरेश नारायण, इंजी.
- 54860 राजबीर शर्मा, ए ओ सी
 54865 तारक मजूमदार, आर्टी
 54869 अपर कृष्णत्रय, ए एस सी
 54888 मोहित पुरी, ए ओ सी
 54914 महेश कुमार नायन, ए डी आर्टी
 54927 नीरज भाकरी, इन्फैन्ट्री
 54930 अबार घोष, ए एस सी
 54931 रश्मि रन्जन बेहुरा, सिग्नल्स
 54937 अजय सांगवाल, इन्फैन्ट्री
 54946 शर्मा सुधीर प्रणीत, इन्फैन्ट्री
 54949 विनीत मुकुद, इन्फैन्ट्री
 54953 हरीश्वर सिंह, आर्टी
 53166 कुलविन्द्र सिंह, ई एम ई
 55006 संजय कुमार शुक्ला, इन्फैन्ट्री
 55007 नारायण कुरुप, इन्फैन्ट्री
 55008 भूषण कुन्देरिया, ए सी
 55031 जीतेन्द्र सिंह एस पंचार, ए एस सी
 55034 अरुण कुमार बैसला, ए एस सी
 55037 गुरप्रीत सिंह खन्ना, ए ओ सी
 55038 गिलबर्ट नेलटन जेना, इंजी.
 55041 गुरप्रीत सिंह, इन्फैन्ट्री
 55048 विशाल गौतम, आर्टी
 55057 डैरिस हौपकिंग, आर्टी
 55061 शान्तनु, ए एस सी
 55074 सी जे लक्ष्मी नारायण, सिग्नल्स
 55089 विवेक चतुर्वेदी, आर्टी
 55094 अद्वल बसीत अद्वल हंगल, ए एस सी.
 55132 एस कुमार पाण्डियन, इन्फैन्ट्री
 55157 राहुल कौडिंग्या, ए सी
 55164 देवेन्द्र कुमार सिंह, इन्फैन्ट्री
 55168 कमलदीप सिंह समरा, इन्फैन्ट्री
 55187 राज शेखर नियोगी, ई एम ई
 55203 सतयान्शु वर्मा, सिग्नल्स
 55335 योगिन्द्र पाल सिंह, इंजी.
 55515 विजय बासनेट, सिग्नल्स
 55523 ए के सिंह, ई एम ई

--16 दिसम्बर 2004

एस एस सिन्हा
 उप निदेशक
 एम एस 8 सी

सं. 313, दिनांक 01 जून 2005—राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नति करते हैं :—

- संख्या, नाम, मेजर जनरल के मूल रैंक की प्रभावी तिथि
 आई सी-17595 ब्रिगेडियर अरुण राय वीएसएम गार्डस, 01 मार्च 2002
 आई सी-17637 ब्रिगेडियर के एस सिन्धु वीएसएम 15 ए आर, 02 मार्च 2002
 आई सी-19107 ब्रिगेडियर दीपक मुखर्जी वाईएसएम बिहार, 01 अप्रैल 2002
 आई सी-19122 ब्रिगेडियर जतिन्दर सिंह एसएम आर्टी, 02 अप्रैल 2002
 आई सी-24143 ब्रिगेडियर एस एन मुखर्जी इंजीनियर— 11 सितम्बर 2003 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 03 अप्रैल 2002 से दी जायेगी।
 आई सी-26878 ब्रिगेडियर गगन जीत सिंह एवीएसएम 88 ए आर, 04 अप्रैल 2002
 आई सी-19386 ब्रिगेडियर ए के सामन्तारेय वीएसएम आर्टी (जीसी)—01 अगस्त 2002 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 05 अप्रैल 2002 से दी जायेगी।
 आई सी-19391 ब्रिगेडियर बी एस पवार, आर्टी, 06 अप्रैल 2002
 आई सी-19393 ब्रिगेडियर के डी एस शेखावत 3 कॉव, 07 अप्रैल 2002
 आई सी-19396 ब्रिगेडियर डी एच सुमनवार वीएसएम राज रिफ, 08 अप्रैल 2002
 आई सी-19403 ब्रिगेडियर आर डी सिंह, एओसी, 20 अप्रैल 2002
 आई सी-19405 ब्रिगेडियर ए के शाखुजा, आर्टी, 01 मई 2002
 आई सी-19407 ब्रिगेडियर एस के दहिया, एएससी, 02 मई 2002
 आई सी-19410 ब्रिगेडियर मोहन पाण्डे, महार, 01 जून 2002
 आई सी-19411 ब्रिगेडियर त्रीपति सिंह एसएन वीएसएम पंजाब--01 अगस्त 2002 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 02 जून 2002 से दी जायेगी।
 आई सी-19422 ब्रिगेडियर आर आर गोस्वामी इंजीनियर, 01 जुलाई 2002
 आई सी-19429 ब्रिगेडियर जैड यू शाह वीएसएम आर्टी (जीसी), 02 जुलाई 2002
 आई सी-19440 ब्रिगेडियर सुधीर शर्मा वीएसएम गार्ड, 03 जुलाई 2002।
 आई सी-19445 ब्रिगेडियर राजीव चोपड़ा वीएसएम आर्टी, 04 जुलाई 2002
 आई सी-19456 ब्रिगेडियर आर पी गोपाल एओसी, 05 जुलाई 2002

- आई सी-19478 ब्रिगेडियर जी के निश्चल सिग्स, 06 जुलाई 2002
 आई सी-19506 ब्रिगेडियर पी के महाजन, आर्टी (जीसी)--01 सितम्बर 2002 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 01 अगस्त 2002 से दी जायेगी।
 आई सी-19510 ब्रिगेडियर री बी वीजन आर्टी (डीसी), 02 अगस्त 2002
 आई सी-19531 ब्रिगेडियर एस के माकिन एसएम सिग्नल्स--14 अप्रैल 2003 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 01 सितम्बर 2002 से दी जायेगी।
 आई सो-19550 ब्रिगेडियर आर के मेहता वाईएसएम, वीएसएम पारा, 02 सितम्बर 2002
 आई सी-19554 ब्रिगेडियर राज पाल एएससी, 03 सितम्बर 2002
 आई सी-19586 ब्रिगेडियर आर एल कौल, एएससी, 04 सितम्बर 2002
 आई सी-24465 ब्रिगेडियर ए के सैनी सिग्नल्स--06 अगस्त 2003 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 05 सितम्बर 2002 से दी जायेगी।
 आई सी-24528 ब्रिगेडियर यू भट्टाचार्य इंजी.—01 जनवरी 2003 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 06 सितम्बर 2002 से दी जायेगी।
 आई सी-26295 ब्रिगेडियर एस घोष वीएसएम ग्रिनेडियर, 01 अक्टूबर 2002
 आई सी-26360 ब्रिगेडियर डी पी मर्चेन्ट एवीएसएम मद्रास, 02 अक्टूबर 2002
 आई सी-28342 ब्रिगेडियर वी के जोशी वीएसएम इन्ट, 03 अक्टूबर 2002
 आई सी-28636 ब्रिगेडियर एस सी मोहन एएससी, 04 अक्टूबर 2002
 आई सी-26531 ब्रिगेडियर एसपीएस नारंग, वीएसएम आर्टी, 01 नवम्बर 2002
 आई सी-26638 ब्रिगेडियर एसडी अवस्थी राजपूत, 02 नवम्बर 2002
 आई सी-19832 ब्रिगेडियर रवीन्द्र सिंह वाईएसएम राज रिफ-- 31 मार्च 2003 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 03 नवम्बर 2002 से दी जायेगी।
 आई सी-19834 ब्रिगेडियर एचएस पनाग मेक इन्फैन्ट्री, 04 नवम्बर 2002
 आई सी-19845 ब्रिगेडियर डीएन देसाई वीएसएम 18 कॉव, 01 दिसम्बर 2002
 आई सी-19846 ब्रिगेडियर एचएस बत्रा वीएसएम पारा, 02 दिसम्बर 2002
 आई सी-19848 ब्रिगेडियर थामस मैथथ्यू राजपूत, 03 दिसम्बर 2002

आई सी-19853 ब्रिगेडियर अरविन्द महाजन, वीएसएम, ईएमई,
4 दिसम्बर 2002

आई सी-19860 ब्रिगेडियर मन्धावा सिंह, वीएसएम, 9जीआर, 01
जनवरी 2003

आई सी-19868 ब्रिगेडियर एसएस छिल्लन, वीएसएम, ग्रिनेडियर, 02
जनवरी 2003

आई सी-19876 ब्रिगेडियर आर एस चट्टाल, सिग्नल्स--06 अगस्त
2003 से जबेष्टता परन्तु बेतन व पेशन पर असर छले बिना 04 जनवरी
2003 से दी जायेगी।

आई सी-19886 ब्रिगेडियर वाई के जैन, इंजीनियर, 05 जनवरी 2003

आई सी-19890 ब्रिगेडियर आर के सिंह, वीएसएम, सिख लाई,
06 जनवरी 2003

आई सी-19931 ब्रिगेडियर पी के रामपाल, 11 जी आर, 09 जनवरी
2003

आई सी-19980 ब्रिगेडियर आर के गुप्ता, ईएमई, 02 फरवरी 2003

आई सी-19983 ब्रिगेडियर दीपक आनन्द, वीएसएम, एमएलआई,
21 फरवरी 2003

आई सी-23030 ब्रिगेडियर पी एस चौधरी, एसएम, वीएसएम, राज रिफ
02 मार्च 2003

आई सी-23039 ब्रिगेडियर परमजीत सिंह, वीएसएम, गढ़वाल रिफ,
04 मार्च 2003

आई सी-23068 ब्रिगेडियर एस एन राजन, एएससी, 05 मार्च 2003

आई सी-24975 ब्रिगेडियर एस के साहिजपाल, इंजीनियर, 01 अप्रैल
2003

एन. मारियप्पन
संयुक्त निदेशक
एमएस (एक्स)

(रक्षा उत्पादन विभाग)

सं. 314, दिनांक 02 जून 2005—राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नतियां
करते हैं :—

गु.आ.नि. (इलैक्ट्रॉनिक्स), बैंगलोर के श्री जी. रविकुमार, कनिष्ठ
तकनीकी अधिकारी की दिनांक 20 जुलाई 2004 (पूर्वाह) से स्व-स्थानिक
कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के रूप में।

गु.आ.स्था. (डब्ल्यू. ई.) बैंगलोर की श्रीमती प्रेमा कुमारी, वरिष्ठ
तकनीकी सहायक-I का मु.गु.आ.स्था. (डब्ल्यू.ई.) बैंगलोर में दिनांक 26
जुलाई 2004 (पूर्वाह) से कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के रूप में।

व.गु.आ.स्था. (इलैक्ट्रॉनिक्स), चेन्नई के श्री एस. ए. शिव कुमार,
कनिष्ठ तकनीकी अधिकारी की दिनांक 20 जुलाई 2004 (पूर्वाह) से स्व-स्थानिक
कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के रूप में।

मु.गु.आ.स्था. (डब्ल्यू.ई.), बैंगलोर के श्री एस. कृष्णा राव, वरिष्ठ
तकनीकी सहायक-I की दिनांक 26 जुलाई 2004 (पूर्वाह) से स्व-स्थानिक
कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के रूप में।

व.गु.आ.स्था. (सामान्य भंडार), कोलकाता के श्री आर.एन. सोरेन,
वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक की दिनांक 23 जुलाई 2004 (पूर्वाह) से
स्व-स्थानिक कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के रूप में।

मानकीकरण निदेशालय, नई दिल्ली के श्री पी. पी. पांडे, वरिष्ठ वैज्ञानिक
सहायक का व.गु.आ.स्था. (सामान्य भंडार), नई दिल्ली दिनांक 20 अगस्त
2004 (पूर्वाह) से कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के रूप में।

व.गु.आ.स्था. (सामान्य भंडार), चेन्नई के श्री वी. के. पांडे, वरिष्ठ
वैज्ञानिक सहायक का व.गु.आ.स्था. (सामान्य भंडार), कोलकाता में दिनांक
05 अगस्त 2004 (पूर्वाह) से कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के रूप में।

व.गु.आ.स्था. (सामान्य भंडार), मुम्बई के श्री गया राम, कनिष्ठ तकनीकी
अधिकारी की दिनांक 20 जुलाई 2004 (पूर्वाह) से स्व-स्थानिक कनिष्ठ
वैज्ञानिक अधिकारी के रूप में।

गु.आ.नि. (पै.प.), कानपुर के श्री मोती लाल, वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक
का गु.आ.नि. (सामग्री) की दिनांक 27 जुलाई 2004 (पूर्वाह) से कनिष्ठ
वैज्ञानिक अधिकारी के रूप में।

गु.आ.नि. (पै.प.), कानपुर के श्री गोरे लाल, वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक
का गु.आ.नि. (सामग्री) कानपुर में दिनांक 27 जुलाई 2004 (पूर्वाह) से
कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के रूप में।

गु.आ.नि. (सामग्री), कानपुर के श्री ए.के. सोंकर, वरिष्ठ वैज्ञानिक
सहायक की दिनांक 21 जुलाई 2004 (पूर्वाह) से स्व-स्थानिक कनिष्ठ
वैज्ञानिक अधिकारी के रूप में।

व.गु.आ.स्था. (सामान्य भंडार), चेन्नई के श्री एस. के. भद्र, वरिष्ठ
वैज्ञानिक सहायक का व.गु.आ.स्था. (सामान्य भंडार), कोलकाता में दिनांक
16 अगस्त 2004 (पूर्वाह) से कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के रूप में।

व.गु.आ.स्था. (सामान्य भंडार), नई दिल्ली की श्रीमती एस. गीता,
वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक की दिनांक 20 जुलाई 2004 (पूर्वाह) से
स्व-स्थानिक कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के रूप में।

व.गु.आ.स्था. (सामान्य भंडार), नई दिल्ली के श्री आर. सी. शर्मा,
वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक की दिनांक 20 अगस्त 2004 (पूर्वाह) से
स्व-स्थानिक कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के रूप में।

व.गु.आ.स्था. (सामान्य भंडार), कोलकाता के श्री यू. के. तामुलारी,
वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक की दिनांक 29 अक्टूबर 2004 (पूर्वाह) से
स्व-स्थानिक कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के रूप में।

व.गु.आ.स्था. (आयुध), दिल्ली कैन्ट के श्री सुदर्शन कुमार कनिष्ठ
तकनीकी अधिकारी का गु.आ.नि. (आयुध), किरकी में दिनांक 20 नवम्बर
2004 (पूर्वाह) से कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के रूप में।

गु.आ.नि. (आयुध), किरकी के श्री एम. साई. प्रसाद, सी.डी.एम., की दिनांक 01 जनवरी 2005 (पूर्वाह्न) से स्व-स्थानिक कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के रूप में।

व.गु.आ.स्था. (आयुध), कोसीपोर के श्री जी.डी. सक्सेना, वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक का गु.आ.नि. (धातु), इच्छापुर में दिनांक 23 नवम्बर 2004 (पूर्वाह्न) से कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के रूप में।

गु.आ.नि. (वाहन), अहमदनगर के श्री जे.ए. दीक्षित, कनिष्ठ तकनीकी अधिकारी की दिनांक 27 अक्टूबर 2004 (पूर्वाह्न) से स्व-स्थानिक कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के रूप में।

गु.आ.नि. (सामान्य भंडार), कानपुर के श्री सुब्रोतो घोष, वरिष्ठ तकनीकी सहायक का व.गु.आ.स्था. (सामान्य भंडार), शाहजहांपुर में दिनांक 06 दिसम्बर 2004 (पूर्वाह्न) से कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के रूप में।

गु.आ.नि. (यंत्र), देहरादून के श्री प्रेम चन्द, कनिष्ठ तकनीकी अधिकारी की दिनांक 01 दिसम्बर 2004 (पूर्वाह्न) से स्व-स्थानिक कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के रूप में।

व.गु.आ.स्था. (आयुध), सिकन्दराबाद के श्री ए.एम. सातपुते, कनिष्ठ तकनीकी अधिकारी का व.गु.आ.स्था. (आयुध), कोलकाता में दिनांक 06 दिसम्बर 2004 (पूर्वाह्न) से कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के रूप में।

गु.आ.नि. (ए.वी.ए.ल.), अवाडी के श्री देवब्रत हलधर, कनिष्ठ तकनीकी अधिकारी की दिनांक 10 फरवरी 2005 (पूर्वाह्न) से स्व-स्थानिक कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के रूप में।

गु.आ.नि. (भारी वाहन), अवाडी के श्री एन. बालासुब्रह्मनियन, कनिष्ठ तकनीकी अधिकारी की दिनांक 31 जनवरी 2005 (पूर्वाह्न) से स्व-स्थानिक कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के रूप में।

व.गु.आ.स्था. (वाहन), चेन्नई के अंतर्गत बी.क्यू.ए.डब्ल्यू., वैंगलोर के श्री डी. गोवर्धन राव, कनिष्ठ तकनीकी अधिकारी की दिनांक 31 जनवरी 2005 (पूर्वाह्न) से स्व-स्थानिक कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के रूप में।

एस. पटनायक
निदेशक (पूर्ति-I)

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन

सं. 315, दिनांक 03 जून 2005--राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के आगे दर्शाये गये वर्तमान ग्रेड पर दिनांक 01 सितम्बर 2004 (पूर्वाह्न) से पदोन्तति करते हैं :--

नाम	प्रयोगशाला/वर्तमान स्थान	पदोन्तति	पदोन्तत ग्रेड का वेतनमान
	स्थान	ग्रेड	
श्री/श्रीमती			
जी.पृथ्वीराज	सीबीआर डीई	तकनीकी अधिकारी 'बी' अधिकारी 'सी'	रु.10,000-325-15,200
एत सीनुवासन	-वही-	तकनीकी अधिकारी 'बी' अधिकारी 'सी'	-वही-
एस पालनीचामी	-वही-	तकनीकी अधिकारी 'बी' अधिकारी 'सी'	-वही-

1	2	3	4	5
श्री/श्रीमती				
वी राजगोपाल	सीबीआर डीई	तकनीकी अधिकारी 'बी' अधिकारी 'सी'	रु.10,000-325-15,200	
ए.रामलिंगाह	-वही-	तकनीकी अधिकारी 'बी' अधिकारी 'सी'	-वही-	
गजेन्द्र कुमार	-वही-	तकनीकी अधिकारी 'ए' अधिकारी 'बी'	रु. 8,000-275-13,500	
टी बालाकृष्ण	-वही-	तकनीकी अधिकारी 'ए' अधिकारी 'बी'	-वही-	
जी थीरुगणनम	-वही-	तकनीकी अधिकारी 'ए' अधिकारी 'बी'	-वही-	
ए.मारीया-प्रकाशनाथन	-वही-	तकनीकी अधिकारी 'ए' अधिकारी 'बी'	-वही-	
एम गुणशेखरण	-वही-	तकनीकी अधिकारी 'ए' अधिकारी 'बी'	-वही-	
वी.एस.माडीवण	-वही-	तकनीकी अधिकारी 'ए' अधिकारी 'बी'	-वही-	
वी.रामास्वामी	-वही-	तकनीकी अधिकारी 'ए' अधिकारी 'बी'	-वही-	
एस.मोहन	-वही-	तकनीकी अधिकारी 'ए' अधिकारी 'बी'	-वही-	
सी.जयाकुमार	-वही-	तकनीकी अधिकारी 'ए' अधिकारी 'बी'	-वही-	
एन.नटराजन	-वही-	तकनीकी अधिकारी 'ए' अधिकारी 'बी'	-वही-	
एम.राजमाणीकम	-वही-	तकनीकी अधिकारी 'ए' अधिकारी 'बी'	-वही-	
जे.इमानूलराज	-वही-	तकनीकी अधिकारी 'ए' अधिकारी 'बी'	-वही-	
ए.मुरलीधरण	-वही-	तकनीकी अधिकारी 'ए' अधिकारी 'बी'	-वही-	
कमल.स्वरूप	आईआरडीई	तकनीकी अधिकारी 'बी' अधिकारी 'सी'	रु.10,000-325-15,200	
ए.के.कालरा	-वही-	तकनीकी अधिकारी 'बी' अधिकारी 'सी'	-वही-	
विकाऊ सिंह	-वही-	तकनीकी अधिकारी 'बी' अधिकारी 'सी'	-वही-	
ए.के.रौय	-वही-	तकनीकी अधिकारी 'बी' अधिकारी 'सी'	-वही-	
निर्मल.सिंह	-वही-	तकनीकी अधिकारी 'बी' अधिकारी 'सी'	-वही-	
पूरन.सिंह	-वही-	तकनीकी अधिकारी 'बी' अधिकारी 'सी'	-वही-	
जय.भगवानगोयल	-वही-	तकनीकी अधिकारी 'ए' अधिकारी 'बी'	रु. 8,000-275-13,500	
ओम.प्रकाशसिंह	-वही-	तकनीकी अधिकारी 'ए' अधिकारी 'बी'	-वही-	

1	2	3	4	5
श्री/श्रीमती				
राजेन्द्र प्रसाद	आईआरडीई तकनीकी	तकनीकी	रु. 8,000-275-13,500	
	अधिकारी 'ए' अधिकारी 'बी'			
सन्तोष कुमार	-वही-	तकनीकी	तकनीकी	-वही-
	अधिकारी 'ए' अधिकारी 'बी'			
राजेन्द्र सिंह	-वही-	तकनीकी	तकनीकी	-वही-
	अधिकारी 'ए' अधिकारी 'बी'			
जितेन्द्र कुमार	-वही-	तकनीकी	तकनीकी	-वही-
	अधिकारी 'ए' अधिकारी 'बी'			
रंजना चटर्जी	-वही-	तकनीकी	तकनीकी	-वही-
	अधिकारी 'ए' अधिकारी 'बी'			
बृज मोहन	-वही-	तकनीकी	तकनीकी	-वही-
अग्रवाल		अधिकारी 'ए' अधिकारी 'बी'		
एन सी जोशी	-वही-	तकनीकी	तकनीकी	-वही-
	अधिकारी 'ए' अधिकारी 'बी'			
विनय कुमार	-वही-	तकनीकी	तकनीकी	-वही-
जैन		अधिकारी 'ए' अधिकारी 'बी'		
राम सिंह	डॉईएएल	तकनीकी	तकनीकी	रु. 10,000-325-15,200
	अधिकारी 'बी' अधिकारी 'सी'			
आर पी गुजराल	-वही-	तकनीकी	तकनीकी	-वही-
	अधिकारी 'बी' अधिकारी 'सी'			
आई पी जुयाल	-वही-	तकनीकी	तकनीकी	रु. 8,000-275-13,500
	अधिकारी 'ए' अधिकारी 'बी'			
गजय सिंह	-वही-	तकनीकी	तकनीकी	-वही-
	अधिकारी 'ए' अधिकारी 'बी'			
कुलदीप सिंह	-वही-	तकनीकी	तकनीकी	-वही-
	अधिकारी 'ए' अधिकारी 'बी'			
ललित मोहन	-वही-	तकनीकी	तकनीकी	-वही-
शर्मा		अधिकारी 'ए' अधिकारी 'बी'		
बी डी नौटियाल	-वही-	तकनीकी	तकनीकी	-वही-
	अधिकारी 'ए' अधिकारी 'बी'			
एच के एल वर्मा	-वही-	तकनीकी	तकनीकी	-वही-
	अधिकारी 'ए' अधिकारी 'बी'			
बी के बापत	एचईएमआर तकनीकी	तकनीकी	रु. 10,000-325-15,200	
	एल अधिकारी 'बी' अधिकारी 'सी'			
आर डी दाहिवाल	-वही-	तकनीकी	तकनीकी	-वही-
	अधिकारी 'बी' अधिकारी 'सी'			
एस डब्ल्यू जोशी	-वही-	तकनीकी	तकनीकी	-वही-
	अधिकारी 'बी' अधिकारी 'सी'			
पी एस डेंजे	-वही-	तकनीकी	तकनीकी	-वही-
	अधिकारी 'बी' अधिकारी 'सी'			
एल एन भुजबल	-वही-	तकनीकी	तकनीकी	-वही-
	अधिकारी 'बी' अधिकारी 'सी'			
पी एम वानी	-वही-	तकनीकी	तकनीकी	-वही-
	अधिकारी 'बी' अधिकारी 'सी'			
बी एम दर्शने	-वही-	तकनीकी	तकनीकी	-वही-
	अधिकारी 'बी' अधिकारी 'सी'			

1	2	3	4	5
श्री/श्रीमती				
एम एच गिजेरे	एचईएमआर तकनीकी	तकनीकी	रु. 10,000-325-15,200	
	अधिकारी 'बी' अधिकारी 'सी'			
बी डब्ल्यू	-वही-	तकनीकी	तकनीकी	-वही-
अभ्यांकर		अधिकारी 'बी' अधिकारी 'सी'		
एम बी मनोहर	-वही-	तकनीकी	तकनीकी	-वही-
	अधिकारी 'बी' अधिकारी 'सी'			
एम ए तपस्वी	-वही-	तकनीकी	तकनीकी	-वही-
	अधिकारी 'बी' अधिकारी 'सी'			
आर एस पुणेकर	-वही-	तकनीकी	तकनीकी	-वही-
	अधिकारी 'बी' अधिकारी 'सी'			
डो के साहा	एआरडीई	तकनीकी	तकनीकी	-वही-
	अधिकारी 'बी' अधिकारी 'सी'			
एच ए खेर	-वही-	तकनीकी	तकनीकी	-वही-
	अधिकारी 'बी' अधिकारी 'सी'			
एस एच गुलाटी	-वही-	तकनीकी	तकनीकी	-वही-
	अधिकारी 'बी' अधिकारी 'सी'			
बी जी जोशी	-वही-	तकनीकी	तकनीकी	-वही-
	अधिकारी 'बी' अधिकारी 'सी'			
जोली मात्यू	एनपीओएल	तकनीकी	तकनीकी	-वही-
	अधिकारी 'बी' अधिकारी 'सी'			
जय लकपमी	-वही-	तकनीकी	तकनीकी	-वही-
गंगाधरन		अधिकारी 'बी' अधिकारी 'सी'		
एन एम मात्यू	-वही-	तकनीकी	तकनीकी	-वही-
	अधिकारी 'बी' अधिकारी 'सी'			
टी पी मूरलीदरन	-वही-	तकनीकी	तकनीकी	रु. 8,000-275-13,500
	अधिकारी 'ए' अधिकारी 'बी'			
के टी वर्गांस	-वही-	तकनीकी	तकनीकी	-वही-
	अधिकारी 'ए' अधिकारी 'बी'			
टी पी सुरेष	-वही-	तकनीकी	तकनीकी	-वही-
बाबू		अधिकारी 'ए' अधिकारी 'बी'		
बलसा जोण	-वही-	तकनीकी	तकनीकी	-वही-
	अधिकारी 'ए' अधिकारी 'बी'			
ए एम वर्गांस	-वही-	तकनीकी	तकनीकी	-वही-
	अधिकारी 'ए' अधिकारी 'बी'			
के एम मवकार	-वही-	तकनीकी	तकनीकी	-वही-
	अधिकारी 'ए' अधिकारी 'बी'			
बी बी पूषपांगतन	-वही-	तकनीकी	तकनीकी	-वही-
	अधिकारी 'ए' आधिकारी 'बी'			
के बी एलीयास	-वही-	तकनीकी	तकनीकी	-वही-
	अधिकारी 'ए' अधिकारी 'बी'			
एस अशोकन	-वही-	एसटीए 'सी'	तकनीकी	रु. 7,450-225-11,500
	अधिकारी 'ए'			
एम बी जोर्ज	-वही-	एसटीए 'सी'	तकनीकी	-वही-
	अधिकारी 'ए'			
पी के लालू	-वही-	एसटीए 'सी'	तकनीकी	-वही-
	अधिकारी 'ए'			
लिसियाम्मा	-वही-	एसटीए 'सी'	तकनीकी	-वही-

जोसफ		अधिकारी 'ए'		
1	2	3	4	5
श्री/श्रीमती				
एस प्रसाद	एनपीओएल एसटीए 'सी'	तकनीकी	रु. 7,450-225-11,500	
		अधिकारी 'ए'		
पी एल रोसिली	-वही-	एसटीए 'सी'	तकनीकी	-वही-
		अधिकारी 'ए'		
डी एन	एडीई	एसटीए 'सी'	तकनीकी	-वही-
राजांगोपाला			अधिकारी 'ए'	
एस उमेश	-वही-	एसटीए 'सी'	तकनीकी	-वही-
		अधिकारी 'ए'		
गोपालाकृष्णा	-वही-	एसटीए 'सी'	तकनीकी	-वही-
		अधिकारी 'ए'		
रघुराज	-वही-	एसटीए 'सी'	तकनीकी	-वही-
		अधिकारी 'ए'		
जोसफ मेथ्यू	जीटीआरई	एसटीए 'सी'	तकनीकी	-वही-
		अधिकारी 'ए'		
बी श्रीधर	-वही-	एसटीए 'सी'	तकनीकी	-वही-
		अधिकारी 'ए'		
के अशोका	-वही-	एसटीए 'सी'	तकनीकी	-वही-
		अधिकारी 'ए'		
बी एस शंसादरी	-वही-	एसटीए 'सी'	तकनीकी	-वही-
		अधिकारी 'ए'		
रवि जार्ज	-वही-	एसटीए 'सो'	तकनीकी	-वही-
		अधिकारी 'ए'		
एस पालनी	-वही-	एसटीए 'सी'	तकनीकी	-वही-
		अधिकारी 'ए'		
आर नारायणन	-वही-	एसटीए 'सी'	तकनीकी	-वही-
		अधिकारी 'ए'		
बी एल	-वही-	तकनीकी	तकनीकी	रु. 10,000-325-15,200
गधाकृष्णन		अधिकारी 'बी'	अधिकारी 'सी'	
एच ए चन्द्रशेखर	-वही-	तकनीकी	तकनीकी	-वही-
मूर्ती		अधिकारी 'बी'	अधिकारी 'सी'	
एन एस	-वही-	तकनीकी	तकनीकी	-वही-
सीतारामग्राव		अधिकारी 'बी'	अधिकारी 'सी'	
एस बेदव्यासचर	-वही-	तकनीकी	तकनीकी	-वही-
		अधिकारी 'बी'	अधिकारी 'सी'	
एम सीतारामा भट	-वही-	तकनीकी	तकनीकी	-वही-
		अधिकारी 'बी'	अधिकारी 'सी'	
टी गंगाधरण	-वही-	तकनीकी	तकनीकी	-वही-
		अधिकारी 'बी'	अधिकारी 'सी'	
मेघनाथ मुदालियर	-वही-	तकनीकी	तकनीकी	-वही-
		अधिकारी 'बी'	अधिकारी 'सी'	
सी एस	-वही-	तकनीकी	तकनीकी	रु. 8,000-275-13,500
लक्ष्मीकान्ता सेठी		अधिकारी 'ए'	अधिकारी 'बी'	
एस एलगोवन	-वही-	तकनीकी	तकनीकी	-वही-
		अधिकारी 'ए'	अधिकारी 'बी'	
के हरिनारायणन	-वही-	तकनीकी	तकनीकी	-वही-
		अधिकारी 'ए'	अधिकारी 'बी'	
के एस सुन्दर	-वही-	तकनीकी	तकनीकी	-वही-
राजन		अधिकारी 'ए'	अधिकारी 'बी'	

1	2	3	4	5
श्री/श्रीमती				
प्रशान्त कुमार	जीटीआरई	तकनीकी	तकनीकी	रु. 8,000-275-13,500
पाल		अधिकारी 'ए'	अधिकारी 'बी'	
यू ए बांसोडे	-वही-	तकनीकी	तकनीकी	-वही-
		अधिकारी 'ए'	अधिकारी 'बी'	
बी गोपालाकृष्णन	-वही-	तकनीकी	तकनीकी	-वही-
		अधिकारी 'ए'	अधिकारी 'बी'	
ए के वल्सन	-वही-	तकनीकी	तकनीकी	-वही-
		अधिकारी 'ए'	अधिकारी 'बी'	
शैयद निसार	-वही-	तकनीकी	तकनीकी	-वही-
अहमद		अधिकारी 'ए'	अधिकारी 'बी'	
एम मणीमेगलाई	-वही-	तकनीकी	तकनीकी	-वही-
		अधिकारी 'ए'	अधिकारी 'बी'	
टी सेदरोई	-वही-	तकनीकी	तकनीकी	-वही-
		अधिकारी 'ए'	अधिकारी 'बी'	
के वेकटपाराव	-वही-	तकनीकी	तकनीकी	-वही-
		अधिकारी 'ए'	अधिकारी 'बी'	
आर सोमासुन्दरम	-वही-	तकनीकी	तकनीकी	-वही-
		अधिकारी 'ए'	अधिकारी 'बी'	
एल वेंकटरमन	एलएसटीएल	तकनीकी	तकनीकी	रु. 10,000-325-15,200
		अधिकारी 'बी'	अधिकारी 'सी'	
एस साहीनुला	-वही-	तकनीकी	तकनीकी	-वही-
		अधिकारी 'बी'	अधिकारी 'सी'	
के धावालेश्वर राव	-वही-	तकनीकी	तकनीकी	-वही-
		अधिकारी 'बी'	अधिकारी 'सी'	
ए श्री रामाराव	-वही-	तकनीकी	तकनीकी	-वही-
		अधिकारी 'बी'	अधिकारी 'सी'	
टी नागेश्वर राव	-वही-	तकनीकी	तकनीकी	-वही-
		अधिकारी 'बी'	अधिकारी 'सी'	
के एस एन मूर्ती	-वही-	तकनीकी	तकनीकी	-वही-
		अधिकारी 'बी'	अधिकारी 'सी'	
एम निर्मला देवी	-वही-	तकनीकी	तकनीकी	-वही-
		अधिकारी 'बी'	अधिकारी 'सी'	
के वैंकटरमन	-वही-	तकनीकी	तकनीकी	रु. 8,000-275-13,500
		अधिकारी 'ए'	अधिकारी 'बी'	
पी वीरभद्राव	-वही-	तकनीकी	तकनीकी	-वही-
		अधिकारी 'ए'	अधिकारी 'बी'	
के दुर्गाभवानी	-वही-	तकनीकी	तकनीकी	-वही-
		अधिकारी 'ए'	अधिकारी 'बी'	
जी वोरभद्राव	-वही-	तकनीकी	तकनीकी	-वही-
		अधिकारी 'ए'	अधिकारी 'बी'	
बी बी स्वर्णलता	-वही-	तकनीकी	तकनीकी	-वही-
		अधिकारी 'ए'	अधिकारी 'बी'	
बी हरिप्रसादराव	-वही-	तकनीकी	तकनीकी	-वही-
		अधिकारी 'ए'	अधिकारी 'बी'	
इएआरएम रेडी	-वही-	तकनीकी	तकनीकी	-वही-
		अधिकारी 'ए'	अधिकारी 'बी'	
आर रामाराव	-वही-	तकनीकी	तकनीकी	-वही-
		अधिकारी 'ए'	अधिकारी 'बी'	

1	2	3	4	5
श्री/श्रीमती				
डॉ श्रीनिवास- एनएसटीएलतकनीकी	तकनीकी	रु. 8,000-275-13,500		
राय	अधिकारी 'ए'	अधिकारी 'बी'		
सोएच रामबाबू	-वही-	तकनीकी	-वही-	
	अधिकारी 'ए'	अधिकारी 'बी'		
एन बालाजी	-वही-	तकनीकी	-वही-	
	अधिकारी 'ए'	अधिकारी 'बी'		
राम बी	एडीई	तकनीकी	रु. 10,000-325-15,200	
	अधिकारी 'बी'	अधिकारी 'सी'		
वेजयकुमार	-वही-	तकनीकी	-वही-	
टी आर	अधिकारी 'बी'	अधिकारी 'सी'		
राजू बी के	-वही-	तकनीकी	-वही-	
	अधिकारी 'बी'	अधिकारी 'सी'		
आचार्य बी बी	-वही-	तकनीकी	-वही-	
	अधिकारी 'बी'	अधिकारी 'सी'		
जयवर्धनी एस	-वही-	तकनीकी	-वही-	
	अधिकारी 'बी'	अधिकारी 'सी'		
शोभा ए सी	-वही-	तकनीकी	-वही-	
	अधिकारी 'बी'	अधिकारी 'सी'		
सत्पादुगिंदी	-वही-	तकनीकी	-वही-	
पी बी	अधिकारी 'बी'	अधिकारी 'सी'		
विजयलक्ष्मी जे	-वही-	तकनीकी	-वही-	
एस	अधिकारी 'बी'	अधिकारी 'सी'		
सन्दीप एस	-वही-	तकनीकी	-वही-	
	अधिकारी 'बी'	अधिकारी 'सी'		
जोय के जे	-वही-	तकनीकी	रु. 8,000-275-13,500	
	अधिकारी 'ए'	अधिकारी 'बी'		
कृष्णाचर सी बी	-वही-	तकनीकी	-वही-	
	अधिकारी 'ए'	अधिकारी 'बी'		
लक्ष्माह एम	-वही-	तकनीकी	-वही-	
	अधिकारी 'ए'	अधिकारी 'बी'		
सत्यनारायण एच	-वही-	तकनीकी	-वही-	
बी	अधिकारी 'ए'	अधिकारी 'बी'		
जोशी बी एल	-वही-	तकनीकी	-वही-	
	अधिकारी 'ए'	अधिकारी 'बी'		
ओसामादीन खाजी	-वही-	तकनीकी	-वही-	
	अधिकारी 'ए'	अधिकारी 'बी'		
चनपा जी	-वही-	तकनीकी	-वही-	
	अधिकारी 'ए'	अधिकारी 'बी'		
रंगाह डी	-वही-	तकनीकी	-वही-	
	अधिकारी 'ए'	अधिकारी 'बी'		
रामाकृष्णा ए	-वही-	तकनीकी	-वही-	
	अधिकारी 'ए'	अधिकारी 'बी'		
चन्द्रमोहन के	-वही-	तकनीकी	-वही-	
	अधिकारी 'ए'	अधिकारी 'बी'		

1	2	3	4	5
श्री/श्रीमती				
प्रसाद पी	एडीई	तकनीकी	रु. 8,000-275-13,500	
	अधिकारी 'ए'	अधिकारी 'बी'		
हेन्डरी जे	-वही-	तकनीकी	-वही-	
	अधिकारी 'ए'	अधिकारी 'बी'		
आर बी दिवे	एआरडीए	एसटीए 'सी' तकनीकी	रु. 7,450-225-11,500	
	अधिकारी 'ए'			
के डी जोशी	-वही-	एसटीए 'सी' तकनीकी	-वही-	
	अधिकारी 'ए'			
के बाई गलांडे	-वही-	एसटीए 'सी' तकनीकी	-वही-	
	अधिकारी 'ए'			
डी के शिंदे	-वही-	एसटीए 'सी' तकनीकी	-वही-	
	अधिकारी 'ए'			
एस ए	-वही-	एसटीए 'सी' तकनीकी	-वही-	
सोनावडेकर	अधिकारी 'ए'			
बी के देशमुख	-वही-	एसटीए 'सी' तकनीकी	-वही-	
	अधिकारी 'ए'			
एम डी जलिन्द्र	-वही-	एसटीए 'सी' तकनीकी	-वही-	
	अधिकारी 'ए'			
एस एस उपिन	-वही-	एसटीए 'सी' तकनीकी	-वही-	
	अधिकारी 'ए'			
पी एन गंधीर	-वही-	एसटीए 'सी' तकनीकी	-वही-	
	अधिकारी 'ए'			
डी एम नगाने	-वही-	एसटीए 'सी' तकनीकी	-वही-	
	अधिकारी 'ए'			
पी राजेन्द्रन	सीबीआरडीई	एसटीए 'सी' तकनीकी	-वही-	
	अधिकारी 'ए'			
पी आयापिल्टै	-वही-	एसटीए 'सी' तकनीकी	-वही-	
	अधिकारी 'ए'			
टी बी राजेन्द्रन	-वही-	एसटीए 'सी' तकनीकी	-वही-	
	अधिकारी 'ए'			
एस मुथुरामालिङ्गम	-वही-	एसटीए 'सी' तकनीकी	-वही-	
	अधिकारी 'ए'			
एम जे राजकुमार	-वही-	एसटीए 'सी' तकनीकी	-वही-	
	अधिकारी 'ए'			
के कैशावन	-वही-	एसटीए 'सी' तकनीकी	-वही-	
	अधिकारी 'ए'			
आर धनाशेखरन	-वही-	एसटीए 'सी' तकनीकी	-वही-	
	अधिकारी 'ए'			
जी बालाकृष्ण	-वही-	एसटीए 'सी' तकनीकी	-वही-	
	अधिकारी 'ए'			
बी मुरुज्जान	-वही-	एसटीए 'सी' तकनीकी	-वही-	
	अधिकारी 'ए'			
जे पुगालेन्ही	-वही-	एसटीए 'सी' तकनीकी	-वही-	
	अधिकारी 'ए'			
गणपति	-वही-	एसटीए 'सी' तकनीकी	-वही-	
मीनाक्षीनाथन	अधिकारी 'ए'			

1	2	3	4	5
श्री/श्रीमती				
एम आर मोहन सीबीआरडीई एसटीए 'सी' तकनीकी	रु. 7,450-225-11,500			
	अधिकारी 'ए'			
पी शेखर	-वही-	एसटीए 'सी' तकनीकी	-वही-	
	अधिकारी 'ए'			
एम यू शेख	एचईएम आरएल	एसटीए 'सी' तकनीकी	-वही-	
		अधिकारी 'ए'		
जे एम जोशी	-वही-	एसटीए 'सी' तकनीकी	-वही-	
		अधिकारी 'ए'		
आर डब्ल्यू चुते	-वही-	एसटीए 'सी' तकनीकी	-वही-	
		अधिकारी 'ए'		
एस के चावरे	-वही-	एसटीए 'सी' तकनीकी	-वही-	
		अधिकारी 'ए'		
ए एल पंड	-वही-	एसटीए 'सी' तकनीकी	-वही-	
		अधिकारी 'ए'		
वी एन पोल्दर	-वही-	एसटीए 'सी' तकनीकी	-वही-	
		अधिकारी 'ए'		
आर एम काले	-वही-	एसटीए 'सी' तकनीकी	-वही-	
		अधिकारी 'ए'		
एस एन भल्कल	-वही-	एसटीए 'सी' तकनीकी	-वही-	
		अधिकारी 'ए'		
एस बी मुधोलकर	-वही-	एसटीए 'सी' तकनीकी	-वही-	
		अधिकारी 'ए'		
जी एम यशवंत	-वही-	एसटीए 'सी' तकनीकी	-वही-	
		अधिकारी 'ए'		
जी जे चावन	-वही-	एसटीए 'सी' तकनीकी	-वही-	
		अधिकारी 'ए'		

2. निम्नलिखित अधिकारी को उनके नाम के आगे दर्शये गये वर्तमान ग्रेड से अगले ग्रेड पर दिनांक 02 सितम्बर 2004 (पूर्वाह) से पदोन्नति करते हैं:

नाम	प्रयोगशाला/स्थापन	वर्तमान ग्रेड	पदोन्नति	पदोन्नत ग्रेड का वेतनमान
श्री सी वाई जाधव एचईएम आर एल	एसटीए 'सी' तकनीकी	रु. 7,450-225-11,500		
	अधिकारी 'ए'			

राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित अधिकारी को उनके नाम के आगे दर्शये गये वर्तमान ग्रेड से अगले ग्रेड पर दिनांक 27 सितम्बर 2004 (पूर्वाह) से पदोन्नति करते हैं :

नाम	प्रयोगशाला/स्थापन	वर्तमान ग्रेड	पदोन्नति	पदोन्नत ग्रेड का वेतनमान
श्री ए डी नवगिरे एआरडीई	तकनीकी	तकनीकी	रु. 10,000-325-15,200	
	अधिकारी 'बी'	अधिकारी 'सी'		

वी. वी. शर्मा
उप निदेशक (कार्मिक-।)

एकीकृत मुख्यालय (नौसेना)
(स्थाई कमीशन)

सं. 316, दिनांक 03 जून 2005—भारत के राष्ट्रपति, भारतीय नौसेना के पत्र सं. टी आर/8282 दिनांक 09 फरवरी 1993 और रक्षा मंत्रालय के

पत्र सं. एमपी/0491/एनएचक्यू/743/डीओ/डी(एन-4) दिनांक 01 जुलाई 1992 के अधीन भारतीय नौसेना की कार्यकारी शाखा (वायु यातायात नियंत्रण) में निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं :—

सब लेफिनेट का नाम	व्यक्तिगत संख्या	कमीशन की तारीख	लेफिनेट के पद पर पदोन्नति की तारीख
एस के यादव	05311-डब्ल्यू	12.08.2002	12.11.2004
ए एस राना	05317-एच	12.08.2002	12.12.2004
नितु सिनसिनवर	05319-एन	12.08.2002	12.12.2004
पुष्णा पाण्डे	05310-टी	12.08.2002	12.02.2005
एस जेटली	05312-वाई	12.08.2002	12.04.2005
जस्टीन जे पुथर	05316-एफ	12.08.2002	12.02.2005
समीर शोरी	05314-ए	12.08.2002	12.02.2005
जयश्री	05315-बी	12.08.2002	12.12.2004
रुचि भाटिया	05318-के	12.08.2002	12.12.2004

भारत के राष्ट्रपति, नौसेना रक्षा मंत्रालय पत्र संख्या 4(1) यू एस (एम पी)/डी(एन-II/2004, दिनांक 11 मार्च 05 और आईएचक्यू/एमओडी(एन) पत्र संख्या एन ए/3102 पोलसी दिनांक 14 मार्च 05 के अंतर्गत भारतीय नौसेना की (वायु यातायात नियंत्रण) में निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं :—

सब लेफिनेट का नाम	व्यक्तिगत संख्या	कमीशन की तारीख	लेफिनेट के पद पर पदोन्नति की तारीख
पुष्णा पाण्डे	05310-टी	12.08.2002	16.12.2004
समीर शोरी	05314-ए	12.08.2002	16.12.2004
जस्टीन जे पुथर	05316-एफ	12.08.2002	16.12.2004
एस जेटली	05312-वाई	12.08.2002	16.12.2004

भारत के राष्ट्रपति, रक्षा मंत्रालय पत्र संख्या एम पी/0421/एनएचक्यू/869/यूएस/डी (एन-II) दिनांक 01 मई 1989 तथा टीआर/0886/एलएसएस/पी दिनांक 04 जनवरी 1993 के अंतर्गत भारतीय नौसेना की एक्स शाखा (नौ सेना लोजेस्टिक काडर) में निम्नलिखित अधिकारियों की पदोन्नति करते हैं :—

सब लेफिनेट का नाम	व्यक्तिगत संख्या	कमीशन की तारीख	लेफिनेट के पद पर पदोन्नति की तारीख
परमजीत सिंह	05350-एच	12.08.2002	27.01.2005

भारत के राष्ट्रपति, रक्षा मंत्रालय पत्र संख्या एम पी/0421/एनएचक्यू/869/यूएस/डी (एन-II) दिनांक 01 मई 1989 तथा टीआर/0886/एलएसएस/पी दिनांक 04 जनवरी 1993 के अंतर्गत

भारतीय नौसेना की एक्स शाखा (नौ सेना लोजेस्टिक काडर) में निम्नलिखित अधिकारियों की पदोन्नति करते हैं :--

सब लेफ्टिनेंट का नाम	व्यैक्तिगत संख्या	कमीशन की तारीख	लेफ्टिनेंट के पद पर पदोन्नति की तारीख
राठेर वरखा	05399-डब्ल्यू	10.02.2003	10.04.2005
रामिन्द्रा सिंह	05344-डब्ल्यू	12.08.2002	27.02.2005

भारत के राष्ट्रपति, नौसेना रक्षा मंत्रालय पत्र संख्या 4(1)यू एस(एमपी)/डी(एन-II)/2004 दिनांक 11 मार्च 2005 और आईएचक्यू/एमओडी(एन) पत्र संख्या एन ए/3102/पोलिसी दिनांक 14 मार्च 2005 के अंतर्गत भारतीय नौ सेना की एक्स शाखा (नौ सेना लोजेस्टिक काडर) में निम्नलिखित अधिकारी की पदोन्नति करते हैं :--

सब लेफ्टिनेंट का नाम	व्यैक्तिगत संख्या	कमीशन की तारीख	लेफ्टिनेंट के पद पर पदोन्नति की तारीख
परमप्रित सिंह	05354-टी	12.08.2002	16.12.2004

भारत के राष्ट्रपति, नौसेना रक्षा मंत्रालय पत्र संख्या एमपी/0421/एनएचक्यू/869/यूएस/डी (एन-II), दिनांक 01 मई 1989 तथा टीआर/0886/एलएसएस/पी दिनांक 04 जनवरी 1993 के अंतर्गत भारतीय नौ सेना की एक्स शाखा (नौ सेना लोजेस्टिक काडर) में निम्नलिखित अधिकारियों की पदोन्नति करते हैं :--

सब लेफ्टिनेंट का नाम	व्यैक्तिगत संख्या	कमीशन की तारीख	लेफ्टिनेंट के पद पर पदोन्नति की तारीख
निमा के यु	05185-एच	04.07.2001	20.10.2003
राजेश आर पिलाई	05263-के	01.01.2002	16.08.2004
परवीन मालिक	05338-एफ	12.08.2002	12.08.2004
जस्मीत नेहाल	05339-एच	12.08.2002	12.08.2004
प्रिया खुराना	05351-के	12.08.2002	12.08.2004
विक्रम मलहन	05355-डब्ल्यू	12.08.2002	27.11.2004
शिलप	05342-आर	12.08.2002	12.09.2004
अपरना रमेश जोशी	05340-के	12.08.2002	12.10.2004
अगस्तीन सुनेना	05347-ए	12.08.2002	27.12.2004
स्वेता सेठी	05343-टी	12.08.2002	27.01.2005
पूजा राजपूत	05352-एन	18.08.2002	03.02.2005
दीपिका सिंह	05348-बी	12.08.2002	12.12.2004
रनदीप संदीप सतीश	05336-ए	12.08.2002	27.11.2004
भावना सलेरिया	05346-जेड	12.08.2002	27.01.2005
प्रयंका गुप्ता	05345-वाई	12.08.2002	27.02.2005

भारत के राष्ट्रपति नौसेना आदेश 79 के 127 और रक्षा मंत्रालय पत्र सं. एनसी/3066/एनएचक्यू/डी (एन-2) दिनांक 10 जून 1977 के अधीन भारतीय नौसेना की इंजीनियरिंग शाखा (नौसेना निर्माता कोर) में निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं :--

सब लेफ्टिनेंट का नाम	व्यैक्तिगत संख्या	कमीशन की तारीख	लेफ्टिनेंट के पद पर पदोन्नति की तारीख
अमरित पाल सिंह	42197-ए	01.01.2000	01.07.2002
एक के राव	42198-बी	01.01.2000	16.01.2002
दीपक सेबस्टेन	42199-एफ	01.01.2000	16.01.2003
राजेश विजयन नायर	42200-एच	01.01.2000	01.08.2002

भारत के राष्ट्रपति, नौसेना की इंजीनियरिंग शाखा में निम्नलिखित सब-लेफ्टिनेंट के पद पर पदोन्नत की घोषणा करते हैं :--

सब लेफ्टिनेंट का नाम	व्यैक्तिगत संख्या	कमीशन की तारीख
मिथुन जोय	42505-ए	01.01.2003

भारत के राष्ट्रपति, नौसेना विनियमावली भाग 3, सांविधिक, 167 सं. 168 और रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या एडी/2232/75/3798/एचक्यू/डी (एन-2) दिनांक 21 जुलाई 1976 तथा टीआर/3331/पीडी दिनांक 07 फरवरी 1989 के अंतर्गत भारतीय नौसेना की शिक्षा शाखा में निम्नलिखित अधिकारियों की पदोन्नति करते हैं :--

सब लेफ्टिनेंट का नाम	व्यैक्तिगत संख्या	कमीशन की तारीख	लेफ्टिनेंट के पद पर पदोन्नति की तारीख
शीबु देवशियां	70475-डब्ल्यू	12.08.2002	12.12.2004
सीमा बुद्धेला	70476-वाई	12.08.2002	12.12.2004
सन्दुपाल दत्त	70469-एफ	05.07.2001	05.08.2003
लेन्सी पुथीता	70474-टी	12.08.2002	12.02.2005

भारत के राष्ट्रपति, नौसेना की एक्स शाखा (नौसेना की कानून कैंडर) में रक्षा मंत्रालय पत्र संख्या एमपी/0417/एनएचक्यू/III/डीओ/डी (एन-4) दिनांक 20 दिसम्बर 1991 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकारियों की पदोन्नति करते हैं :--

सब लेफ्टिनेंट का नाम	व्यैक्तिगत संख्या	कमीशन की तारीख	लेफ्टिनेंट के पद पर पदोन्नति की तारीख
वनीला किरन	05192-जेड	13.07.2001	13.07.2003
रुचि एस इनगले	05191-वाई	02.07.2001	02.09.2003
भूमिका सक्सेना	05189-टी	02.07.2001	02.12.2003

भारत के राष्ट्रपति, भारतीय नौसेना की एक्स शाखा (नौसेना की उड़ान केड़र) में नौसेना आदेश 56/80 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकारियों की पदोन्नति करते हैं :—

सब लेफ्टिनेंट का नाम	व्यैक्तिगत संख्या	कमीशन की तारीख	लेफ्टिनेंट के पद पर पदोन्नति की तारीख
एम शर्मा	05303-ए	07.01.2002	22.01.2004
आर वर्मा	05211-टी	01.07.2002	16.11.2004
वी वी सेन्थल	05250-एफ	01.07.2002	16.12.2004
जे घोष	05216-बी	01.07.2002	01.11.2004
पी परितोष	05295-एच	01.01.2003	16.03.2005
एस रेना	05267-डब्ल्यू	01.01.2003	01.02.2005
वी कटोजु	05282-बी	01.01.2003	16.03.2005
नवीन पंडीता	05271-बी	01.01.2003	01.05.2005

भारत के राष्ट्रपति, नौसेना रक्षा मंत्रालय पत्र संख्या 4(1) यूएस (एमपी)/डी (एन-II/2004 दिनांक 11 मार्च 2005 और आईएचक्यू/एमओडी (एन) पत्र संख्या एन ए/3102 पोलिसी दिनांक 14 मार्च 2005 के अंतर्गत भारतीय (नौसेना की उड़ान केड़र) में निम्नलिखित अधिकारियों की पदोन्नति करते हैं :—

सब लेफ्टिनेंट का नाम	व्यैक्तिगत संख्या	कमीशन की तारीख	लेफ्टिनेंट के पद पर पदोन्नति की तारीख
एस रेना	05267-डब्ल्यू	01.01.2003	16.12.2004
वी कटोजु	05282-बी	01.01.2003	16.12.2004
पी परितोष	05295-एच	01.01.2003	16.12.2004
एन पंडीता	05271-बी	01.01.2003	16.12.2004

जार्ज मैथू
उप निदेशक (सी एवम् जे)
कार्मिक निदेशालय

वायु शाखा

सं. 317, दिनांक 01 जून 2005--राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित मूल पदोन्नति करते हैं :—

भारतीय वायु सेना

वैमानिक इंजीनियरिंग शाखा

ग्रुप कैप्टन के मूल रैंक में :—

एम एफ आलम (14173) वै.इ.(वै.), 01 जनवरी 2003

डी के पांडे (15081) वै.इ.(वै.), 01 जनवरी 2003

पी कनकराज (15066) वै.इ.(यां.), 01 जनवरी 2003

एस सी लुथरा (15105) वै.इ.(वै.), 01 जनवरी 2003

वी एम खन्ना (15071) वै.इ.(यां.), 01 जनवरी 2003

डी एस खजुरिया (15073) वै.इ.(यां.), 01 जनवरी 2003

एस ए नारायनन (15079) वै.इ.(वै.), 01 जनवरी 2003

आर चोपड़ा (15087) वै.इ.(वै.), 01 जनवरी 2003

पी पी खांडेकर (15095) वै.इ.(वै.), 01 जनवरी 2003

यू एस शेनॉय (15065) वै.इ.(यां.), 01 जनवरी 2003

एस. के. शुक्ला

उप निदेशक कार्मिक (अधिकारी)-2(बी)

सं. 318, दिनांक 30 जून 2005--राष्ट्रपति, रक्षा मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय सेवा के उप सचिव श्री बी. पी. शर्मा की अधिवर्षिता की आयु पूरी होने पर उन्हें 30 अप्रैल, 2005 (अपराह्न) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त करते हैं।

जी. विजयराधवन
अवर सचिव

अनुभाव एवं विकास संगठन

सं. 319, दिनांक 30 मई 2005--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने अर्थात् 60 वर्ष के होने पर अनु. एवं वि. संगठन में कार्यरत अनुभाव अधिकारी श्री एच एस कैन 31 मार्च 2005 से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं। (और 01 अप्रैल 2005 से पेशन स्थापना में स्थानांतरित कर दिए गए हैं)।

सन्तोष दासगुप्ता
उप मुख्य प्रशासन अधिकारी (प्रशा.)

(थल सेना विभाग)

सं. 320, दिनांक 03 जून 2005--राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारी को उसके निजी कारणवश निवेदन पर समय पूर्व सेवा निवृत्ति, उनके नाम के समक्ष लिखी दिनांक से अनुमति प्रदान करते हैं :—

नियमित सेना
सेना दन्त चिकित्सा कोर
स्थाई कमीशन
समय पूर्व निवृत्ति

कर्नल नरेश बेहल (डीआर-10356एफ), 31 जनवरी 2005 (एन)

परमजीत सिंह
मेजर जनरल
एडीजीडीएस

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन

सं. 321, दिनांक 03 जून 2005—सेवा निवृत्ति की आयु पर पहुंचने के परिणामस्वरूप श्री एम सी गुप्ता, टीओ 'सी' पी एण्ड सी, डीआरडीओ मुख्यालय, नई दिल्ली से 31 जुलाई 2005 अपराह्न को सेवा निवृत्त होंगे तथा 01 अगस्त 2005 पूर्वाह्न से पेंशन स्थापना में स्थानान्तरित किए जाएंगे।

सेवा निवृत्ति की आयु पर पहुंचने के परिणामस्वरूप श्री बी बी ऋषि, टीओ 'बी' डी आई सी, डीआरडीओ मुख्यालय, नई दिल्ली से 31 जुलाई 2005 अपराह्न को सेवा निवृत्त होंगे तथा 01 अगस्त 2005 पूर्वाह्न से पेंशन स्थापना में स्थानान्तरित किए जाएंगे।

सेवा निवृत्ति की आयु पर पहुंचने के परिणामस्वरूप श्री महेश कुमार तकनीकी अधिकारी 'बी' मुख्यालय डी आई सी, नई दिल्ली से 31 मार्च 2005 अपराह्न को सेवा निवृत्त हुए तथा 01 अप्रैल 2005 पूर्वाह्न से पेंशन स्थापना में स्थानान्तरित किए जाएंगे।

बी. बी. शर्मा
उप निदेशक कार्मिक-1

थल सेना शाखा

शुद्धि पत्र

सं. 322, दिनांक 03 जून 2005—29 जनवरी 2005 को भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना शीर्षक, नियमित सेना-सैनिक दन्त चिकित्सा कोर, अर्द्धस्थाई कमीशन, उपशीर्षक 'लेफ्टिनेंट कॉफ्टन के पद पर' में डीएस-12118एन, प्रमोद उदागनी के नाम के सामने निम्नलिखित संशोधन किया जाता है :--

के स्थान पर: 03 सितम्बर 2004

पढ़ा जाए: 03 मार्च 2004

आर. सी. धीर
लेफ्टिनेंट जनरल
डीजीडीएस

शुद्धि पत्र

सं. 323, दिनांक 03 जून 2005—राष्ट्रपति सहर्ष 10 अक्टूबर 1996 को भारत के राजपत्र भाग-I, खण्ड-4 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना, शीर्षक 'नियमित सेना'/स्थाई कमीशन व उपशीर्षक ले. कर्नल से कर्नल (व समकक्ष) रैंक में निम्नलिखित संशोधन करते हैं :--

नियमित सेना
स्थाई कमीशन
(सेना चिकित्सा कोर)

ले. कर्नल (व समकक्ष) से कर्नल (व समकक्ष) पद पर

के स्थान पर :

19. एम के गर्ग (एमआर-3268) एएमसी/पीसी 31 दिसम्बर 1996
(ज्येष्ठता उनके वेतन व पेंशन पर प्रभाव डाले बिना 16 दिसम्बर 1996
से)

पढ़ा जाए :

19. आर के गर्ग (एमआर-3268) एएमसी/पीसी 31 दिसम्बर 1996
(ज्येष्ठता उनके वेतन व पेंशन पर प्रभाव डाले बिना 16 दिसम्बर 1996
से)

एस. के. शर्मा
ब्रिगेडियर
उप म.नि.स.सं.चि.से (कार्मिक)

स्थायी आयोग (विशेष सूची)

शुद्धि पत्र

सं. 324, दिनांक 03 जून 2005—भारत के राजपत्र में रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना 27 फरवरी 1993 को प्रकाशित किया गया है कि निम्नलिखित शीर्षक सेना के स्थायी आयोग (विशेष सूची) में शुद्धि इस प्रकार की जाती है :--

के स्थान पर :

जेसी-160693एफ सूबेदार सुरिन्द्र सिंह, ईएमई (एसएल-4010पी),
ले. ईएमएई (एसए)

पढ़ा जाए :

जेसी-160693एफ सूबेदार सुरिन्द्र सिंह, ईएमई (एसएल-4010एफ),
ले. ईएमएई (एसए)

(सेना शाखा)

नियमित सेवा

(अल्पकालीन सेवा आयोग)

ले. के पद पर

शुद्धि पत्र

भारत सरकार के राजपत्र संख्या 235 दिनांक 27 मई 2000 को प्रकाशित अधिसूचना के शीर्षक "नियमित सेना" के अन्तर्गत उपशीर्षक "अल्पकालीन सेवा आयोग ले. के पद पर" के अन्तर्गत प्रकाशित सूचना निम्नलिखित रूप में संशोधित की जाती है :--

वैयक्तिक संख्या 00431एम के सामने (एल सी के नाम के कॉलम के नीचे)

के लिये :

निधी सिंह

पढ़ें :

निधि सिंह

एस. के. शर्मा
ले. कर्नल
सह सेना सचिव 8-बी

शुद्धि पत्र

सं. 325, दिनांक 03 जून 2005--भारत के राजपत्र में दिनांक 29 सितम्बर 2001 को शीर्षक नियमित सेना स्थायी कमीशन एवं उप शीर्षक कप्तान से मेजर के अधीन प्रकाशित रक्षा मंत्रालय के राजपत्र सं. 579 में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है :--

आई सो 50057 आर डी सिंह, इन्ट -- के बदले

रिक्त पढ़ा जाए

एस. एस. सिन्हा
उप निदेशक
एम एस 8-सी

शुद्धि पत्र

सं. 326, दिनांक 03 जून 2005--भारत के राजपत्र में दिनांक 23 अक्टूबर 2004 को शीर्षक नियमित सेना स्थायी कमीशन एवं उप शीर्षक

कप्तान से मेजर के अधीन प्रकाशित रक्षा मंत्रालय के राजपत्र में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है :--

आई सो 54594 मनोज कुमार लैंका, ए ई सी -- के बदले
रिक्त -- पढ़ा जाए

ए. एस. श्रीवास्तव
ले. कर्नल
ए एस 8-सी

वायु शाखा

सं. 327, दिनांक 01 जून 2005--

संशोधन

26 फरवरी 2005 को मौसम विज्ञान शाखा के अंतर्गत प्रकाशित राजपत्र भाग I अनुभाग 4 में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है :--

विंग कमांडर एम एस देशपांडे (14430) मौवि शा के बारे में प्रकाशित तिथि के बारे में :--

29 जुलाई 2002 के स्थान पर 01 जुलाई 2003 पढ़ा जाए

एस. के. शुक्ला
उप निदेशक कार्मिक (अधिकारी)-2 बी

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 25th June 2005

No. 297, dated 30th May 2005.—The President is pleased to appoint Smt. Daisy Barla, CSS, Section Officer borne on the strength of the Ministry of Urban Employment and Poverty Alleviation, to Grade I of the CSS (Under Secretary) on adhoc basis in the Ministry of Defence w.e.f. 31.03.2005 (FN), until further orders in terms of DOP&T OM No. 21/40/2004-CS.I(B) dated 15.02.2005.

2. The appointment of the above officer as Under Secretary (ad-hoc) is subject to following condition:—

- (v) The ad-hoc promotion shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Grade I (Under Secretary) of CSS.
- (vi) Ad-hoc appointment may be terminated at any point of time without giving any reason therefor.

G. VIJAYARAGHAVAN
Under Secy.

No. 298, dated 30th May 2005.—The President is pleased to appoint Shri Sheojee Manjhi, Assistant, borne on the CSS Cadre of Ministry of Agriculture (Dept. of Agriculture & Cooperation), as Section Officer on ad-hoc basis in the Ministry of Defence in the scale of pay of Rs. 6,500—10,500/- with effect from the forenoon of 30th March, 2005 until further orders in pursuance of Department of Personnel & Training O. M. No. 21/9/2004-CS.I (Pt), dated 17.02.2005 subject to the condition that ad-hoc promotion shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Section Officers' Grade and will be reverted to Assistants' Grade on availability of regular Section Officer.

The President is pleased to appoint Shri Rajesh Malhotra, Assistant, borne on the CSS Cadre of Ministry of Information & Broadcasting, as Section Officer on ad-hoc basis in the Ministry of Defence in the scale of pay of Rs. 6,500—10,500/- with effect from the forenoon of 1st April, 2005 until further orders in pursuance of Department of Personnel & Training O. M. No. 21/9/2004-CS.I (Pt), dated 17.02.2005 subject to the condition that ad-hoc promotion shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Section Officers' Grade and will be reverted to Assistants' Grade on availability of regular Section Officer.

The President is pleased to appoint Shri Harish Chandra Mondal, Assistant, borne on the CSS Cadre of Ministry of Finance, Deptt. of Revenue, as Section Officer on ad-hoc

basis in the Ministry of Defence in the scale of pay of Rs. 6,500—10,500/- with effect from the forenoon of 1st April, 2005 until further orders in pursuance of Department of Personnel & Training O. M. No. 21/9/2004-CS.I (Pt), dated 17.02.2005 subject to the condition that ad-hoc promotion shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Section Officers' Grade and will be reverted to Assistants' Grade on availability of regular Section Officer.

V. SARASWATHY
Dy. Secy.

(FINANCE DIVISION)

No. 299, dated 31st May 2005.—The President is pleased to appoint Shri Vijay Kumar Sharma, Assistant of CSS Cadre of Information & Broadcasting/DG AIR as Section Officer on adhoc basis in this Division w.e.f. 24.03.2005 (AN) until further orders.

The President is pleased to appoint Shri S. K. Sood, Assistant of CSS Cadre of Information & Broadcasting/ DG AIR as Section Officer on adhoc basis in this Division w.e.f. 29.03.2005 (FN) until further orders.

The President is pleased to appoint Shri H. M. Sonkusare, Assistant of CSS Cadre of D/o Agri & Co-op as Section Officer on adhoc basis in this Division w.e.f. 30.03.2005 (FN) until further orders.

M. C. LUTHER
Dy. Financial Adviser (E)

No. 300, dated 31st May 2005.—The President is pleased to appoint Shri P. N. Sukul, an officer of the Indian Defence Accounts Service (82), as Finance Manager (LS) in the Finance Division of Ministry of Defence with effect from the afternoon of 28th April, 2005 for an initial period of three years extendable up to five years.

T. C. A. KALYAANI
Dy. Financial Adviser (E)

ARMY BRANCH

No. 301, dated 3rd June 2005.—The President is pleased to make the following appointments:—

REGULAR ARMY

(PERMANENT COMMISSION)

(To be Lts w.e.f. 08 Dec 2001)

K. Siddhartha Narayan (IC-61387K) Engrs seniority next below Shekhar Attri (IC-61386F) Inf, Prashant Rana

(IC-61499K) Inf seniority next below Sambit Parija (IC-61498F) Arty, S Ravi Prakash (IC-61543H) Arty seniority next below Pankaj Sharma (IC-61542A) Inf, Dalip Singh (IC-61753H) Inf seniority next below Bidesh Ranjan Dasgupta (IC-61752A) Inf, T Nithyananda Karunya Murthy (IC-61764P) EME seniority next below Deepak Baskandi (IC-61763M) Engrs, Arvind Rajhans (IC-61897L) Inf seniority next below Nishant Singh (IC-61896H) Sigs seniority next below Akhilesh Kumar Pal (IC-61953Y) Engrs whose names appeared in the Gazette of India, Ministry of Defence Notification published on 26 Oct 2002.

(To be Lts w.e.f. 13 Dec 2003)

Rohit Sambyal (IC-63367P) Inf seniority next above Anupam Singh (IC-63368X) ASC and Umesh Chandra Sati (IC-63408N) Inf seniority next below Ranjeet Narayan (IC-63407L) Inf whose names appeared in the Gazette of India, Ministry of Defence Notification published on 20 Nov 2004.

S. K. SHARMA
Lt. Col
AMS 8B

NAVY BRANCH
(PERMANENT COMMISSION)
(SPECIAL DUTY LIST)

No. 302, dated 3rd June 2005.—The President is pleased to make following appointments:—

Name of Sub Lt., P. No. and Date of Commission
Kisan Rajaram Khilare (80151K), 01.04.2004
Sandeep More (81313A), 01.04.2004
B N Ravi Kiran (81595T), 01.04.2004
L Rajkumar (89144Z), 01.04.2004
Sajan Kumar (85120B), 01.04.2004
Brij Mohan Pandey (86077B), 01.04.2004
Vasant Manohar (86932Y), 01.04.2004
Dhanya Kumar Singh (86933Z), 01.04.2004
Manjinder Singh (86934A), 01.04.2004
Anshar Ahemad (86935B), 01.04.2004
Yatender Kumar (86936F), 01.04.2004
Roy K George (84639K), 01.10.2004
S Anil Kumar (84640N), 01.10.2004
Dinesh Kumar (84641R), 01.10.2004
Pradeep Vijayan (84642T), 01.10.2004
P J George (82045R), 01.10.2004
O P Sheoran (85121F), 01.10.2004

G S Tanwar (85122H), 01.10.2004
Shrikant Pathak (86937H), 01.10.2004
S K Yadav (86938K), 01.10.2004
Vijay Kumar (87643N), 01.10.2004
Lawrence D' Cunha (87644R), 01.10.2004
Kapil Verma (05588Z), 01.01.2005
Sanjay Singh Bisht (05589A), 01.01.2005
Kuldeep Dadwal (05590B), 01.01.2005
Raman Singh (05591F), 01.01.2005

GEORGE MATHEW
DD (C&J)
Directorate of Personnel

AIR HEADQUARTERS

No. 303, dated 30th May 2005.—The President is pleased to extend the appointment of the following Officers of AFHQ Civil Services under rule 7(8) of AFHQ Civil Service Rules, 2001 as Deputy Directors (Group 'A' Gazetted) in the pay scale of Rs. 10000-323-15200/- for the period as mentioned against each:—

Name	Period of Extension	
	From	To
S/Shri/Smt. Abhinavjeet Ojha	07 May 2003	08 Feb 2005
Devendra Kumar	07 May 2003	08 Feb 2005
Pragya Shantanu	07 May 2003	08 Feb 2005
Anupam Mishra	21 Jun 2004	08 Feb 2005
Shweta Ashok	07 May 2003	08 Feb 2005
S K Shukla	07 May 2003	08 Feb 2005
Amar Nath Sinha	07 May 2003	08 Feb 2005
B C Das	07 May 2003	08 Feb 2005
H P Malik	07 May 2003	08 Feb 2005
G D Gupta	07 May 2003	08 Feb 2005
A N Shukla	07 May 2003	08 Feb 2005
P K Garg	07 May 2003	08 Feb 2005
D K Chaturvedi	07 May 2003	08 Feb 2005

2. The appointment of the above mentioned Officers to the grade of Deputy Director under Rule 7(8) of AFHQ Civil Service Rules 2001 is subject to the following conditions:—

(a) The service rendered by the Officers in the grade of Dy Dir under rule 7(8) of AFHQ Civil Service Rules, 2001, will neither be taken into account for

seniority of the Officers in this grade nor will it reckon for appointment of the Officers as Deputy Director on regular basis.

- (b) These appointments are subject to the outcome of various court cases, pending before the Hon'ble CAT/Hon'ble High Court, Delhi, which may affect the seniority position in the feeder grades.

SANTOSH DASGUPTA
Dy. Chief Administrative Officer

NATIONAL CADET CORPS

No. 304, dated 2nd June 2005.—The undermentioned is granted the honorary rank of Colonel-in-Chief of the National Cadet Corps for the period of his appointment as Chief of the Air Staff:—

General JJ Singh, PVSM, AVSM, VSM, ADC, Chief of the Army Staff, Army Headquarters, New Delhi-110011—01 Feb 2005.

The undermentioned is granted the honorary rank of Commodore-in-Chief of the National Cadet Corps for the period of his appointment as Chief of the Air Staff:—

Air Chief Marshal SP Tyagi, PVSM, AVSM, VM, ADC, Chief of the Air Staff, Air Headquarters, New Delhi-110011—31 Dec 2004.

The undermentioned Vice Chancellors are granted the honorary rank of Colonel in the National Cadet Corps and are appointed as Colonel Commandant of their respective University as shown against their name for the period of their appointment as Vice Chancellor of the said University.

Name of the Vice Chancellor, Name of the University, Date of appointment as Vice Chancellor

Dr. C Thangamuthu, Vice Chancellor, Bharathidasan University, Thiruchirappalli—09 Jun 2004.

Dr. N Balaraman, Vice Chancellor, Tamil Nadu Veterinary and Animal Science University, Chennai—01 Oct 2004.

JATINDER SINGH
Brig.
Dy. Dir. Gen. (MS)

No. 305, dated 30th May 2005.—Consequent on his appointment as Private Secretary to the MOS (External Affairs) (Shri Rao Inderjit Singh), the services of Shri Ram Subhag Singh, IAS (HP: 87), Director, Ministry of Defence are placed at the disposal of Ministry of External Affairs, w.e.f. 08.04.2005(FN).

V. SARASWATHY
Dy. Secy.

the Ministry of Defence are placed at the disposal of Ministry of Commerce & Industry (Department of Commerce) (Supply Division) w.e.f. the 09.05.2005 (AN).

G. VIJAYARAGHAVAN
Under Secy.

ARMY BRANCH

No. 307, dated 3rd June 2005.—The President is pleased to confirm the undermentioned Officer in the Short Service Commission on successful completion of probationary period of one year in terms of AI 15/79 as amended.

REGULAR ARMY

(ARMY DENTAL CORPS)

SHORT SERVICE COMMISSION

CONFIRMATION

DS-12104N Capt (Ms) Jasvir Kaur—06 Jun 2003.

R. C. DHIR
Lt. Gen
DGDS

AIR BRANCH

No. 308, dated 2nd June 2005.—The President is pleased to confirm the undermentioned Officers, who were granted Short Service Commission (on probation) w.e.f. the date as stated against their names:—

AERONAUTICAL ENGINEERING

(MECHANICAL & ELECTRICAL BRANCH)

Fg Offr Nisha Mohan Menon (27169) AE(L), Gauri Kalra (27168) AE(L), P Kumar Anil (27162) AE(M), V Sharda (27183) AE(L), Deepti Malik (27189) AE(L), Thomas Wilfred D' Melo (27158) AE(M), Saurabh Joshi (27165) AE(L), Pranav Sharma (27170) AE(L), Kavita Chahal (27188) AE(L), Puneet Sharma (27164) AE(L), K Mahesh Priya (27182) AE(L), Anjali Singh (27179) AE(L), Grahith Chris D'Souza (27159) AE(M), Sheetal Chauhan (27184) AE(L), Renuka Nair (27185) AE(L), Shilpa Suri (27178) AE(L), P Barathy (27174) AE(L), Maninder Kaur (27180) AE(L), Surbhi Arora (27187) AE(L), Sujatha M (27166) AE(M), Manali Shukla (27181) AE(L), R Sadish (27160) AE(M), Shweta Kaushik (27173) AE(L), Manpreet Bedi (27172) AE(L), Sudhakar Verma (26891) AE(L), Tuhina Singh (27167) AE(L), Abhishek Ojha (27190) AE(M), Andalam Prahalad (27163) AE(L), Hanuja K (27175) AE(L)... w.e.f 07 Jul 2003.

The President is pleased to confirm the undermentioned Officers, who were granted Permanent Commission (on probation), w.e.f 05 Jan 2004. They are granted ante date w.e.f the dates stated against their name:—

No. 306, dated 30th May 2005.—The services of Shri S. R. Pershad, Deputy Director (Monitoring Cell) in

AERONAUTICAL ENGINEERING BRANCH

Fg Offr Rajkumar P (27324) AE(M), M Dilli Bab (27316) AE(M), Vikas Phalswal (27144) AE(L), Ajith Kumar Kayyath Yathcendra Das (27384) AE(L), Jayaseelan Maria Cladius (27374) AE(L), L Rajagopal (27401) AE(L), MJ Balamurugan (27393) AE(L), Dharam Veer Yadav (27346) AE(L), Avijit Singh Chauhan (27392) AE(L), B Karthikeyan (27317) AE(M), Oruganti Sudhir Babu (27378) AE(L), Viriyala Raghavendra Kishore (27395) AE(L), Mohammad Javid Khan (27379) AE(L), Deepak Vyas (27358) AE(L), Sanu Nair KS (27398) AE(L), Prateek Vashistha (27369) AE(L), Deepak Garg (27385) AE(L), Rajender Singh (27402) AE(L), Sathish S (27424) AE(M), Muvankara Muralidharan (27429) AE(M), Madhur Thapliyal (27365) AE(L), Praveen Narasimhamurthy Donni (27320) AE(M), Pratyush Anand (27337) AE(L), Sri Raman Muralidharan (27335) AE(L), Venu Valeri (27396) AE(L), Saboor Ahmed (27360) AE(L), Kiran Krishnan (27361) AE(L), Prabodh Kumar Udaya Kumaran (27336) AE(L), Praveen Prabhakaran Nair (27326) AE(M), Gajendra Pratap Singh (27311) AE(M), Anil Kumar P (27431) AE(M), Chaitanya Pavan Voleti (27356) AE(L), Abhishek Premi (27362) AE(L), Maddheker Sreenivasulu (27353) AE(L), Pankaj Yadav (27373) AE(L), Muraleeswaran Rajendran (27383) AE(L), K Jayandan (27413) AE(L), Sudipta Mukherjee (27375) AE(L), Ravindra Agarwal (27327) AE(M), Sunil Kumar Pandey (27400) AE(L), Abhishek Bansal (27419) AE(M), Santhosh Kumar Vayakodan (27394) AE(L), Chaket Gulati (27363) AE(L), Ansuman Samajpai (27399) AE(L), Santosh Kumar Chavan (27357) AE(L), C Clement Chelliah Anantharaj (27325) AE(M), Thoungajam Brojen Singh (27381) AE(L), Abdullah Zahid (27387) AE(L), Kumar Pranshu (27314) AE(M), Deepak Krishnani (27117) AE(M), Sandeep Yadav (27411) AE(L), Giridhar Sridhar (27355) AE(L), Prasanna R Badiger (27323) AE(M), Ramanath Harshan P (27328) AE(M), Shashank Sharma (27397) AE(L), Wangkheimayum Khelenjit (27371) AE(L), N Praveen (27370) AE(L), Gurjap Singh (27391) AE(L), Vikram Singh Ulshai (27368) AE(L), Sukhwinder Singh (27364) AE(L), Shanmugam Rajesh (27351) AE(L), Praveena Kumar Arlagadda (27315) AE(M), Talsaniya Hiren Kumar Mansukhbhai (27332) AE(M), Sankararaman Ramachandran (27350) AE(L), Gaurav Shukal (27339) AE(L), Avinash Dubey (27345) AE(L), Perwaiz Aslam (27334) AE(L), S Prasad (27367) AE(L), Satish Kumar (27432) AE(L), Kshitij Vashishtha (27404) AE(L), Ponnappa MB (27403) AE(L), B Karthik (27349) AE(L), Anoop Raj Varshney (27382) AE(L), Perla Venkata Rajesh (27376) AE(L), Jothi Ravindra (27329) AE(M), Sachin Sonna (27386) AE(L), Boon Mari Joseph Antony (27416) AE(L), Gaurav Pratap (27405) AE(L), Mohit Sharma (27313) AE(M), Suvin Kumar SV (27321) AE(M), Pritam Kumar (27340) AE(L), Kesava Suresh Kumar (27389) AE(L), Pankaj Kumar Dey (27354) AE(L), Prashant Kumar Sharma (27322) AE(M), Kiran Kumar Kenchanakuppe Paramashivaiah (27377) AE(L), Kamlesh Kumar Jha (27342) AE(L), Dheeraj Yadav (27331) AE(M),

M Karthikeyan (27318) AE(M), Pritish Mishra (27390) AE(L), Sidharth Sharma (27366) AE(L), Tanuj Verma (27412) AE(L), Kodali Jayarajashekhar Amarnath (27425) AE(M), Mohit Kumar Verma (27338) AE(L), Gaurav Sharma (27341) AE(L), Shahab Ahmad (27409) AE(L), Prasoon Prabhakaran (27430) AE(M), Anil Pant (27380) AE(L), Hiren Pramodkhai Kothari (27388) AE(L), Shashidhar (27319) AE(M), Subramanian Krishnamurthy (27352) AE(M), Kishore N (27359) AE(L), Chaitanya AGN (27347) AE(L), Shivendra Nath (27344) AE(L), Sidhartha Raj Palival (27310) AE(M), Mukesh Yadav (27333) AE(M), Moirangthem Amarjit Singh (27414) AE(L), Jayaprakash Prashanth (27343) AE(L), Aravindh Ramakrishnan (27410) AE(L), Vivek Chaturvedi (27312) AE(M), Charles Solomon (27348) AE(L), Gaurav Sharma (27415) AE(L), Vikram Chatta (27406) AE(L), Saravanan Selvaraj (27372) AE(L) ante date wef 05 Jan 2002.

The President is pleased to confirm the undermentioned Officers, who were granted Short Service Commission (on probation) wef the date as stated against their names:—

AERONAUTICAL ENGINEERING (MECHANICAL) BRANCH

Fg Offr Hiren Haresh Dave (26883) AE(M), Washim Pathan (26880) AE(M), Arun Manohar (26886) AE(M), S Jagan Mohan (26885) AE(M), Jaya Chandran Ramasamy (26884) AE(M), Kapil Kumar Jha (26882) AE(M), Rahuldev Sudhakar Badhe (26881) AE(M) wef 06 Jan 2003.

AERONAUTICAL ENGINEERING (ELECTRICAL) BRANCH

Fg Offr Kapil Kumar Aggarwal (26887) AE(L), Sunil Shivshankar Agarwal (26888) AE(L), Sandeep Mohandas Shenoy (26890) AE(L), R Lakshmi Narayanan (26889) AE(L), Ananddeep Sharma (26894) AE(L), S Raja Prabhu (26893) AE(L), Balachandran Vivek (26895) AE(L), Taranjeet Singh (26892) AE(L), Geetanshu Pramod (26656) AE(L), Aju Kumar Revi (26896) AE(L) wef 06 Jan 2003.

The President is pleased to confirm the undermentioned Officers, who were granted Permanent Commission (on probation), wef 05 Jul 2004. They are granted ante date wef the dates stated against thier names:—

AERONAUTICAL ENGINEERING BRANCH

Fg Offr Shailendra Dutt Seetha (27616) AE(L), Pankaj Bajpai (27580) AE(M), Aayush Tiwari (27587) AE(L), Rakesh (27596) AE(L), Sandeep Pandurang Ghule (27572) AE(L), Mani Govindarajan (27634) AE(L), Amanullah Hasan (27630) AE(L), Alweida Alvin Jesus (27591) AE(L), Sachin Kumar (27609) AE(L), Shashank Shekhar Rath (27571) AE(M), Basavaraj (27607) AE(L), Gurvinder Singh Pallha (27579) AE(M), Habin Thomas B (27594) AE(L), Denesh Herrick Joseph (27330) AE(M), Charles Vinod Victor (27577) AE(M), Jayanth Kumar BR (27576) AE(M), Shrenik Kumar Bantia (27590) AE(L), Sakale Amol Bhupal (27584) AE(M), Aravind Ranjan (27619)

AE(L), Partha Saha (27618) AE(L), Shiban Kumar Behera (27586) AE(L), Abhinav Jain (27595) AE(L), Parimi Rajesh Babu (27604) AE(L), Abishek Zanane (27620) AE(L), Arnab Goswami (27592) AE(L), Makrand Madhukar Ingale (27612) AE(L), Sandeep Desai S (27597) AE(L), Ravi Kumar HN (27606) AE(L), Sanjeev Sajwan (27603) AE(L), Kalyan Chakravarty Geda (27598) AE(L), Nama Sathyanarayana Setty (27615) AE(L), Vijay Rajendran (27588) AE(L), Varghese Thomas (27593) AE(L), Baby Vimal Dev (27583) AE(M), Prateek Thapar (27599) AE(L), Vasanthamandiram Parameswaran Nair Sreenath (27573) AE(M), Fejo K Paul (27570) AE(M), Biswarup Deb (27600) AE(L), Pandurang Madhav Nibandhe (27575) AE(M), Gundluru Reddy Raja Sekhar (27601) AE(L), Govindakrishnan U (27578) AE(M), Anupam Mullick (27621) AE(L), Naveen Shiva Shankar (27581) AE(M), Gunnam Sai Ramji (27608) AE(L), Devinder Singh (27602) AE(L), Guruprasad Kikkery Nanjundaswamy (27610) AE(L), Anwar Shaji C (27408) AE(L), Prashant Kumar M (27613) AE(L), Harsha NS (27582) AE(M), Kañuparti Krishna Chaitanya (27617) AE(L) ante date wef 05 Jul 2002.

S SRIVASTAV
Wg Cdr
JDPO-3(D)

(ARMY BRANCH)

No. 309, dated 3rd June 2005.—The President is pleased to make the following promotion (SSC) under AI 15/79 as amended vide AI 10/02:—

REGULAR ARMY

ARMY DENTAL CORPS

(SHORT SERVICE COMMISSION)

Captain to be Quasi Substantive Major

DS-12022L Dinesh Singh Ahuja—10 Feb 2005

PARAMJIT SINGH
Maj Gen
Addl DGDS

No. 310, dated 3rd June 2005.—The President is pleased to make the following appointment/promotion under AI 15/79 as amended:—

REGULAR ARMY

ARMY DENTAL CORPS

(SHORT SERVICE COMMISSION)

To be Lieut (On probation)

DS-12118N, BDS Karnataka, Pramod Udagani, AD Corps—03 Mar 2004

with seniority for pay and promotion from 03 Sep 2003 (includes 06 months ante date for paid job of Lecturer at

Bapuji Dental College & Hospital, Karnataka, which will not count for gratuity)

Ministry of Defence Gazette Notification published in the Gazette of India dated 28 Aug 2004 in so far as it pertain to the officer is hereby cancelled.

A. C. DHIR
Lt. Gen
DGDS

No. 311, dated 2nd June 2005.—The President is pleased to make the following promotions:

REGULAR ARMY
PERMANENT COMMISSION
(ARMY MEDICAL CORPS)

Surg Cdr (& equivalent) to be Surg Capt (& equivalent)

Mrs. Vinita Tomar (MR-05681X)(75230), 19 Nov 2004 with notional seniority without effect on pay & pension from 13 May 2004

C. B. Chikkanna (MR-04542F) (75613), 24 Dec 2004 with notional seniority without effect on pay & pension from 03 Oct 2004.

S. K. SHARMA
Brig
Dy. DGAFMS (P)

No. 312, dated 3rd June 2005.—The President is pleased to make the following promotions:—

REGULAR ARMY
PERMANENT COMMISSION

Lt Col to be Substantive Col (By Sel)

Pers No., Name, Arm and Subs Date

V00347 Jagvinder Singh, RVC—01 Feb 2003

V00350 Deepak Badial, RVC—01 Feb 2003

V00352 RR Yadava, RVC—01 Feb 2003

IC38258 PS Tomar, EME—01 Aug 2003

IC34907 Jacob Mathew, EME—01 Aug 2003

IC37016 D Pradeep Kumar, Inf—01 Aug 2003

IC37017 JS Soin, Arty—01 Aug 2003

IC37020 Lalit Rai, Inf—01 Aug 2003

IC37022 Sanjay Kulkarni, Inf—01 Aug 2003

IC37023 Partap Datta, ADA—01 Aug 2003

IC37024 John Mani, Engrs—01 Aug 2003

IC37026 JSK Rao, Inf—01 Aug 2003

IC37028 RS Mann, Inf—01 Aug 2003

- IC37035 Mohinder Singh, AOC—01 Aug 2003
 IC37045 RK Sharma, Mech Inf—01 Aug 2003
 IC37055 RNG Dastidar, Mech Inf—01 Aug 2003
 IC37061 Syed Ahmad Ali Inf—01 Aug 2003
 IC37077 Kapil Dev, Inf—01 Aug 2003
 IC37084 SK Manchanda, AOC—01 Aug 2003
 IC37090 CS Rathore, Inf—01 Aug 2003
 IC37092 VW Vaidya, Inf—01 Aug 2003
 IC37096 Arun Gupta, Inf—01 Aug 2003
 IC37100 SP Singh, Arty—01 Aug 2003
 IC37101 AS Cheema, AC—01 Aug 2003
 IC37102 Kulwinder Singh, Arty—01 Aug 2003
 IC37123 RS Kadian, Inf—01 Aug 2003
 IC37128 Rupnevir Singh, Inf—01 Aug 2003
 IC37130 S Ravindernath, Engrs—01 Aug 2003
 IC37138 SS Gill, Inf—01 Aug 2003
 IC37139 TJ Davies, AC—01 Aug 2003
 IC37083 RS Chopra, Inf—01 Aug 2003
 IC37673 K Sankara Rao, Engrs—01 Aug 2003
 IC35110 Venugopal Menon, Engrs—01 Aug 2003
 IC35112 S Sridhar, AC—01 Aug 2003
 IC35114 D Kapur, Guards—01 Aug 2003
 IC35115 Jagbir Singh, Mech Inf—01 Aug 2003
 IC35116 Deepak Mehta, Inf—01 Aug 2003
 IC35118 SP Nawathe, Engrs—01 Aug 2003
 IC35122 BS Chauhan, Inf—01 Aug 2003
 IC35124 PM Cariappa, Sigs—01 Aug 2003
 IC35125 MN Purushothama, Arty—01 Aug 2003
 IC35130 S Ganapathy, Mech Inf—01 Aug 2003
 IC35134 Rakesh Bassi, Engrs—01 Aug 2003
 IC35135 DS Negi, Inf—01 Aug 2003
 IC35137 PM Hariz, Mech Inf—01 Aug 2003
 IC35139 Rakesh Mehta, Mech Inf—01 Aug 2003
 IC35141 TS Datta, Arty—01 Aug 2003
 IC35142 Rahul Gupta, ADA—01 Aug 2003
 IC35144 Rakesh Nijhawan, ADA—01 Aug 2003
 IC35145 JS Matharu, EME—01 Aug 2003
 IC35146 RC Jaswal, AOC—01 Aug 2003
 IC35150 Niraj Pathak, AC—01 Aug 2003
 IC35153 DK Purohit, Inf—01 Aug 2003
 IC35154 VR Pillai, Inf—01 Aug 2003
 IC35158 D Nagarajan, Inf—01 Aug 2003
 IC35160 AK Siwach, Inf—01 Aug 2003
 IC35162 KK Sharma, Inf—01 Aug 2003
 IC35163 SK Aneja, EME—01 Aug 2003
 IC35167 Yashwant Singh, EME—01 Aug 2003
 IC35168 SK Sinha, ADA—01 Aug 2003
 IC35169 KC Dogra, Inf—01 Aug 2003
 IC35171 Rajbir Singh, Inf—01 Aug 2003
 IC35173 RJ Noronha, Inf—01 Aug 2003
 IC35174 Rajeev Joneja, Sigs—01 Aug 2003
 IC35178 RS Chhular, AOC—01 Aug 2003
 IC35181 S Chakraborty, ADA—01 Aug 2003
 IC35185 SS Malik, Arty—01 Aug 2003
 IC35187 Avan Mukherjee, Inf—01 Aug 2003
 IC35188 RK Sharma, Inf—01 Aug 2003
 IC35189 Ajay Kohli, Sigs—01 Aug 2003
 IC35199 Umesh Kumar Rai, Inf—01 Aug 2003
 IC35201 AK Sahgal, ADA—01 Aug 2003
 IC35202 MP Sinha, Inf—01 Aug 2003
 IC35204 US Bawa, Inf—01 Aug 2003
 IC35206 Konsan Himalay Singh, Inf—01 Aug 2003
 IC35207 I Davendra SG, AOC—01 Aug 2003
 IC35210 BK Dhingra, ADA—01 Aug 2003
 IC35215 Sohan Singh Dhanoa, Inf—01 Aug 2003
 IC35217 Pradeep Rana, Inf—01 Aug 2003
 IC35218 Pravin Joshi, Inf—01 Aug 2003
 IC35219 KG Bhagwat, Inf—01 Aug 2003
 IC35221 Amit Rai, AC—01 Aug 2003
 IC35222 S Visvanathan, Sigs—01 Aug 2003
 IC35224 AK Kalia, AOC—01 Aug 2003
 IC35226 KG Krishna, Inf—01 Aug 2003
 IC35227 Anil Puri, ASC—01 Aug 2003
 IC35229 DK Nanda, Inf—01 Aug 2003
 IC35234 GS Sobti, Arty—01 Aug 2003
 IC35235 Ganga Prasad, ASC—01 Aug 2003
 IC35237 J Anantharaman, Inf—01 Aug 2003
 IC35242 D Nath, Inf—01 Aug 2003

- IC35246 Jagmohan Varma, Inf—01 Aug 2003
IC35249 GS Chima, AC—01 Aug 2003
IC35250 AK Nagpal, AC—01 Aug 2003
IC35254 Sunil Saberwal, AC—01 Aug 2003
IC35258 Haridas Gopalan, ADA—01 Aug 2003
IC35259 Alok Bajpai, Engrs—01 Aug 2003
IC35260 Sartaj Singh, AOC—01 Aug 2003
IC35261 PNK Narayanan, Inf—01 Aug 2003
IC35264 HS Shahid, Inf—01 Aug 2003
IC35266 KP Chand, Arty—01 Aug 2003
IC35270 PK Jhamb, AOC—01 Aug 2003
IC35271 Anil Sud, EME—01 Aug 2003
IC35274 Vinod Kumar, Inf—01 Aug 2003
IC35277 DK Rai, Inf—01 Aug 2003
IC35282 Jasbir Singh, Inf—01 Aug 2003
IC35284 Vikash Joshi, Arty—01 Aug 2003
IC35285 PK Sodhi, ASC—01 Aug 2003
IC35290 Sudhir Uppal, Inf—01 Aug 2003
IC35294 BG Rawat, AOC—01 Aug 2003
IC35297 JS Rawat, Inf—01 Aug 2003
IC35301 CS Malik, AC—01 Aug 2003
IC35304 RK Joshi, Engrs—01 Aug 2003
IC35307 VN Prasad, Inf—01 Aug 2003
IC35308 HS Mangat, Arty—01 Aug 2003
IC35309 LS Randhawa, Arty—01 Aug 2003
IC35314 DP Sreenivasa, Inf—01 Aug 2003
IC35317 SK Patil, ASC—01 Aug 2003
IC35318 Ashok Sharma, AOC—01 Aug 2003
IC35321 RK Pandey, Inf—01 Aug 2003
IC35324 RS Perhar, AC—01 Aug 2003
IC35329 Anil Bhatia, Inf—01 Aug 2003
IC35346 AK Vaid, Inf—01 Aug 2003
IC35347 NKM Bhatnagar, Inf—01 Aug 2003
IC35351 C Unnikrishnan, Inf—01 Aug 2003
IC35357 CM Malhotra, AC—01 Aug 2003
IC35360 Rakesh Virmani, Inf—01 Aug 2003
IC35365 Rajiv Johri, Arty—01 Aug 2003
IC35367 M Giridhar, Inf—01 Aug 2003
IC35371 Anup Parkash Singh, AOC—01 Aug 2003
IC35373 HS Sahi, Inf—01 Aug 2003
IC35375 P Mandetra, Inf—01 Aug 2003
IC35376 Gautam Deb, Int Corps—01 Aug 2003
IC35384 PS Dadwal, ASC—01 Aug 2003
IC39024 KK Pahuja, Engrs—01 Aug 2003
IC39028 Raj Pal Singh, EME—01 Aug 2003
IC39030 Ram Gopal, Sigs—01 Aug 2003
IC39032 SN Akhade, Sigs—01 Aug 2003
IC39034 SK Raina, Engrs—01 Aug 2003]
IC39043 BK Chhimwal, EME—01 Aug 2003
IC39056 Sukhvir Sharma, Engrs—01 Aug 2003
IC35108 Narendra Singh, Engrs—01 Aug 2003
IC35109 RV Kanitkar, AC—01 Aug 2003
IC35111 Ranjan Kumar Singh, Inf—01 Aug 2003
IC39054 A Bhandarkar, EME—01 Aug 2003
IC37732 Rakesh Kumar, EME—01 Aug 2003
IC37734 G Ravi Kumar, EME—01 Aug 2003
IC37132 NK Bakhshi, Arty—01 Aug 2003
IC37175-VC Katoch, AC—01 Aug 2003
IC37177 RS Sidhu, Mech, Inf—01 Aug 2003
IC37179 VK Chhibber, Inf—01 Aug 2003
IC37181 S Banerjee, AC—01 Aug 2003
IC37183 KJ Singh, AOC—01 Aug 2003
IC37189 BS Sambyal, Inf—01 Aug 2003
IC37190 RM Sharma, ASC—01 Aug 2003
IC37193 S Adhikari, Inf—01 Aug 2003
IC37194 Gurmeet Singh, EME—01 Aug 2003
IC37195 Kulbir Singh, AOC—01 Aug 2003
IC37200 BB Atray, AC—01 Aug 2003
IC37201 PS Shekhawat, ASC—01 Aug 2003
IC37202 KC Pant, Inf—01 Aug 2003
IC37204 Binoy Poonnen, Inf—01 Aug 2003
IC37209 MC Chauhan, ASC—01 Aug 2003
IC37210 S Padmanabh, Inf—01 Aug 2003
IC37211 DS Dadwal, Inf—01 Aug 2003
IC37217 Rajesh Kumar, Arty—01 Aug 2003
IC37219 AKS Chauhan, Arty—01 Aug 2003
IC37220 Uttam Singh, Inf—01 Aug 2003
IC37223 A Chander, Inf—01 Aug 2003

IC37230 AK Sharma, Inf—01 Aug 2003	IC35506 Atul Mehra, Sigs—01 Dec 2003
IC37233 OP Yadav, Inf—01 Aug 2003	IC35511 Bharat Bhusha, Inf—01 Dec 2003
IC37238 APS Cheema, Inf—01 Aug 2003	IC35512 Jeyaraj Azaria, Arty—01 Dec 2003
IC37242 KS Rana, Inf—01 Aug 2003	IC35513 Kulwant Singh, Arty—01 Dec 2003
IC37243 J Frederick, Arty—01 Aug 2003	IC35514 VK Madan, Arty—01 Dec 2003
IC37245 Rajan Kulkarni, Inf—01 Aug 2003	IC35515 Bhabani S Das, Inf—01 Dec 2003
IC37247 GS Chandel, Inf—01 Aug 2003	IC35520 KS Choudhary, Inf—01 Dec 2003
IC37258 BC Varghese, Engrs—01 Aug 2003	IC35521 Sanjaya Saran, Arty—01 Dec 2003
IC37268 SS Josan, Inf—01 Aug 2003	IC35522 PR Narayana, Arty—01 Dec 2003
IC37271 Rajive Sood, AOC—01 Aug 2003	IC35527 VK Yadav, Arty—01 Dec 2003
IC37278 Gurinder Pratap Singh, AC—01 Aug 2003	IC35538 Neeraj Bali, Inf—01 Dec 2003
IC37283 BP Ramesh, Inf—01 Aug 2003	IC35543 TK Mukherjee, Arty—01 Dec 2003
IC37294 H Bahadur, Inf—01 Aug 2003	IC35548 SK Samantray, Arty—01 Dec 2003
IC35183 Kuldip Singh, Inf—01 Aug 2003	IC35550 Sanjeev Shukla, AC—01 Dec 2003
IC35468 Sandeep Kumar, Inf—01 Aug 2003	IC35553 Sunil Sharma, Inf—01 Dec 2003
IC35470 A Kundu, AC—01 Aug 2003	IC35558 Mohammed Sajjad, Inf—01 Dec 2003
IC35471 Bipin Rawat, Inf—01 Aug 2003	IC35559 Harinder Bhanot, EME—01 Dec 2003
IC35472 MN Bughani, Inf—01 Aug 2003	IC35560 J Ghosal, Inf—01 Dec 2003
IC35474 MM Shukla, Inf—01 Aug 2003	IC35563 BK Jain, Inf—01 Dec 2003
IC35479 BS Negi, Inf—01 Aug 2003	IC35566 MJ Mathew, Arty—01 Dec 2003
IC35480 Surinder Singh, Inf—01 Aug 2003	IC35572 RS Nirban, Inf—01 Dec 2003
IC35481 R Narayanan, AC—01 Aug 2003	IC35574 PC Katoch, Arty—01 Dec 2003
IC35482 S Kaushik, Engrs—01 Aug 2003	IC35577 S Kallat, Arty—01 Dec 2003
IC35485 Rajiv Talwar, AC—01 Aug 2003	IC35578 D Binda, Inf—01 Dec 2003
IC35486 SC Rangi, Inf—01 Aug 2003	IC35581 C Prakash, Arty—01 Dec 2003
IC35487 NPS Hira, Inf—01 Aug 2003	IC35584 GK Gujjala, Inf—01 Dec 2003
IC35488 G Rajeevan, Arty—01 Aug 2003	IC35585 Jagdish Singh, Inf—01 Dec 2003
IC35490 NP Murlidharan, Sigs—01 Aug 2003	IC35586 Bhupinder Singh, Mech Inf—01 Dec 2003
IC35491 PS Mehla, ASC—01 Aug 2003	IC35587 Beant Parmar, Inf—01 Dec 2003
IC35492 DA Patil, Mech Inf—01 Aug 2003	IC35589 DS Nanuan, Arty—01 Dec 2003
SL02478 DR Yadav, SL RO—01 Aug 2003	IC35595 SS Hora, Arty—01 Dec 2003
IC35494 Subrata Saha, Inf—01 Dec 2003	IC35602 AB Shivane, AC—01 Dec 2003
IC35496 SN Yadav, Arty—01 Dec 2003	IC35606 GK Pandey, Arty—01 Dec 2003
IC35498 Inderjit Singh, AOC—01 Dec 2003	IC35607 HS Bhati, AC—01 Dec 2003
IC35499 MR Babu, Inf—01 Dec 2003	IC35610 Balbir Singh, ASC—01 Dec 2003
IC35500 FS Karamsot, Arty—01 Dec 2003	IC35619 SS Pathania, Sikh—01 Dec 2003
IC35501 KA Muthanna, Inf—01 Dec 2003	IC35622 Ashutosh Dhar, ASC—01 Dec 2003
IC35502 HS Pathania, Guards—01 Dec 2003	IC35623 RK Kapur, Sigs—01 Dec 2003
IC35505 Amar Krishna, Engrs—01 Dec 2003	IC35624 SK Behl, Arty—01 Dec 2003

- IC35625 AK Sehgal, Arty—01 Dec 2003
IC35626 UK Gurung, Inf—01 Dec 2003
IC35637 R Badrinarayan, AOC—01 Dec 2003
IC35643 V Narayanan, Inf—01 Dec 2003
IC35644 Anirudha Nath, AOC—01 Dec 2003
IC35645 CP Kumar, Arty,—01 Dec 2003
IC35649 Vijay Kumar Singh, Arty—01 Dec 2003
IC35650 BC Mathews, Inf—01 Dec 2003
IC35651 Joseph MJ, ASC—01 Dec 2003
IC35653 MM Shah, Inf—01 Dec 2003
IC35655 Thomas George, Inf—01 Dec 2003
IC35658 KD Pendharkar, Int—01 Dec 2003
IC35667 Gautam Kar, Arty—01 Dec 2003
IC35669 CP Medappa, Inf—01 Dec 2003
IC35672 Surinder Singh, Arty—01 Dec 2003
IC35680 Baldev Singh, Inf—01 Dec 2003
IC35681 SD Bhandare, Arty—01 Dec 2003
IC35684 Sandes, Inf—01 Dec 2003
IC35686 NS Negi, SL RO—01 Dec 2003
IC35688 Arjun Gupta, Inf—01 Dec 2003
IC35692 MPS Baweja, Sigs—01 Dec 2003
IC35704 CKS Mann, Inf—01 Dec 2003
IC35706 SS Sirohi, ASC—01 Dec 2003
IC35715 BPK Pillai, Inf—01 Dec 2003
IC35717 G Srinivasan, Arty—01 Dec 2003
IC35718 Anil Kumar, AOC—01 Dec 2003
IC35720 NK Mathur, Arty—01 Dec 2003
IC35722 TR Sharma, EME—01 Dec 2003
IC35724 MS Sandhu, Inf—01 Dec 2003
IC35727 Sudhir Singh, Inf—01 Dec 2003
IC35731 SB Asthana, Assam—01 Dec 2003
IC35743 Sunil Kapoor, AC—01 Dec 2003
IC35746 HS Puri, ASC—01 Dec 2003
IC35748 Mahesh Kumar, Kumaon—01 Dec 2003
IC35760 YS Sirohi, Engrs—01 Dec 2003
IC35766 MIS Chauhan, Inf—01 Dec 2003
IC35768 AK Sharma, Regt of Arty—01 Dec 2003
IC35789 Ranjit SG, AEC—01 Dec 2003
IC35790 D Choudhury, AEC—01 Dec 2003
IC35801 RS Khatri, AEC—01 Dec 2003
IC35833 P Chakraborty, AEC—01 Dec 2003
IC35874 CS Nair, Jag Dept—01 Dec 2003
IC39398 AK Wahi, Engrs—01 Dec 2003
IC39401 DKG Kadu, Engrs—01 Dec 2003
IC39407 K Ananth, EME—01 Dec 2003
IC39408 HK Semwal, Engrs—01 Dec 2003
IC39410 Debarchan Palit, Engrs—01 Dec 2003
IC39413 Ashish Chandra, EME—01 Dec 2003
IC35140 BC Sarmah, Inf—01 Dec 2003
IC35340 BNP Chandran, Inf—01 Dec 2003
IC37049 KS Rathore, Inf—01 Aug 2003
Majors to be Substantive Lt Col (Time Scale)
IC42446 Ashis Mukherjee, Sigs—15 Dec 2004
IC42544 Monil Kumar, Sigs—15 Dec 2004
IC42445 PK Sharma, ASC—15 Dec 2004
IC42403 MK Raut, Arty—15 Dec 2004
IC42506 LK Bubna, Arty—15 Dec 2004
IC42594 K Kumar, Sigs—15 Dec 2004
IC42443 Moirangthem BS, Inf—15 Dec 2004
IC42586 R Mahajan, ADA—15 Dec 2004
IC42436 AK Sah, Arty—15 Dec 2004
IC42484 Rakesh Kakar, Sigs—15 Dec 2004
IC42510 G Reddy, AC—15 Dec 2004
IC41795 Sri Bahadur, Inf—17 Dec 2003
IC41539 SK Pandey, Sigs—17 Dec 2003
IC41804 S Kumar, Engrs—17 Dec 2003
IC41712 SH Shukla, Inf—17 Dec 2003
IC41270 Rajiv Bakshi, Engrs—18 Jun 2003
IC43181 UK Sings, Engrs—19 Jun 2003
IC43644 Sunil Bhagat, Engrs—18 Dec 2003
IC43616 AK Bhatia, Engrs—18 Dec 2003
IC45159 Rajnish Kumar, Engrs—10 Nov 2003
IC41658 Jagveer Singh, Engrs—17 Dec 2003
IC41285 Swarop Chand, M. Inf—18 Jun 2003
IC41779 Nirmal Kumar, Engrs—17 Dec 2003
IC44026 P Kshirsagar, Engrs—14 Jun 2004
IC38926 Paramjit Singh, Inf—07 Jun 2003
IC42015 C J Rego, Engrs—09 Jun 2004

IC41918 K Ravi, Arty—09 Jun 2004	IC48840 Sunil Kumar, AOC
IC43994 Jasbir Singh, Engrs—14 Jur 2004	IC48911 Parthasarthy R, Engrs
IC41990 AS Rajawat, AC—09 Jun 2004	IC49169 Ajay Ahlawat, AC
IC41835 A Kumar, Engrs—20 Dec 2001	IC49312 Arun Sharma, AC
IC40224 EPP Topno, INF—19 Dec 2001	IC49395 Kamaljeet Singh Bindra, EME
IC42139 RS Verma, EME—09 Jun 2004	IC49581 Anil Gurung, Inf
IC42219 Rajib Babu, Arty—09 Jun 2004	IC50015 Ajay Ahuja, Inf
IC41794 AK Mathur, ASC—17 Dec 2003	IC50131 Sunil Kumar, Inf
SL3266 KS Bhainsora, AOC—20 Jul 2004	IC50206 Jaswinder Singh, Arty
IC40944 DK Mitra, Inf—24 Dec 2002	IC50483 Bavisetti Shree Nagesh, EME
IC40899 Atul Kashyap, Inf—24 Dec 2002	IC50518 Dantkale Vivek Rames, Inf
IC41006 S Batra, Inf—24 Dec 2002	IC50572 Arun Ganesh Rao Pathade, Arty
IC42093 MK Deo, Mech Inf—09 Jun 2004	IC50619 Vinod Divakaran, Inf
SL3206 RK Rai, Engrs—20 Jul 2004	IC50627 Anup Deol I, Arty
IC45330 S Mohan, AC—09 Nov 2004	IC50630 Narinder Pal Singh Toor, AC
IC45308 MA Baig, JAG—09 Nov 2004	IC50643 Praveen Kumar Bhatt, Inf
SL3146 HB Gurung, SL—20 Jul 2002 Capt to be Maj	IC50979 Shankarrao Vasanrrao Yadav, Engrs
IC53178 Sandip Chatterjee, Inf	IC50992 Yatendra Singh Tomar, Inf
IC53249 M Sooraj Prakasam, Arty	IC51018 Umaed Singh Rathore, Army AVN
IC53269 Kaushlesh Panghal, AOC	IC51045 Saurabh Lail, Inf
IC53288 Navdeep Singh, Inf	IC51063 Vinay Kapoor, Inf
IC53405 Prabhas Awasthi, Engrs	IC51080 Rakesh Biswas, ASC
IC53438 Bishnu Prasad Jagadev, Engrs	IC51296 Tallapaneni Sreenivasulu, Inf
IC56924 Muraleedharan M, EME —10 Dec 2004—	IC51319 Kiran Kashiram Gurav, Inf
IC50057 Kuman Deep Singh, Engrs —01 Nov 2004—	IC51363 Rajive Goyal, AOC
IC44989 Sanjay Singh, Sigs	IC51464 Prasad Bhaskar, Engrs
IC45817 Naresh Kumar Chhibber, Inf	IC51566 Deepndre Singh Chamyal, AOC
IC45857 Khemchandra Patil, EME	IC51620 Gurav Sahai, Inf
IC46000 Hemant Kumar Dogra, Arty	IC51721 S Kandswamy, Inf
IC46194 Feroz Hamid Usmani, Engrs	IC51757 Vishwa Bandhu, ASC
IC46497 Vivek Gupta, AC	IC51769 Tushar Srivastava, Arty
IC46555 Anil Kumar Jain, Engrs	IC51776 Sujit Kumar, Arty
IC46670 Dinesh Kumar Yadav, Arty	IC51810 Gajanan Pandey, ASC
IC46671 Sanjay Ghosh, AD Arty	IC51830 Ravi Shrivastav, Arty
IC46685 C Shasi, Inf	IC51862 Murli Iyer, Sigs
IC46789 Raveesh Vaid, ASC	IC51874 Arijit Ray, Arty
	IC51881 R Anil Kumar, AOC
	IC51993 Rameshan KC, EME
	IC52000 Gurpreet Singh, Inf

IC52062 George Mathew, Sigs	IC52679 Sailendra Patnik, Sigs
IC52160 Alok Bhatia, Engrs	IC52803 Ajit Singh, Inf
IC52164 R Raghpatti, Int	IC52870 Ajay Kumar, AC
IC52167 Rajnish Sethi, Sigs	IC52887 Muktesh Kapil, Arty
IC52174 Gurpreet Singh Bedi, ASC	IC52890 Vikash Kalucha, Sigs
IC52195 A Vijay Kumar, EME	IC52913 Pankaj Sinha, Arty
IC52204 Ajay Nayyar, Arty	IC52918 Vinod Ch, Arty
IC52208 Prabal Mukherjee, Inf	IC52924 Harmeek Singh, Arty
IC52214 Kannan S, ASC	IC52925 Ajay Kumar, Inf
IC52218 Navendra S Paul, Inf	IC52939 Joffy George John, EME
IC52254 Ram Singh Yadav, AOC	IC52948 Kumar Bhaskar, EME
IC52270 Sudarshan Bhattacharya, Sigs	IC52962 Gautam Verma, Arty
IC52274 Praban Kanti Chowdhury, ASC	IC52963 Vineet Chaturvedi, Inf
IC52297 Sujit Kumar Mukherjee, Engrs	IC52984 Minakshi Sundram S, Engrs
IC52394 Ravi Bhushan, Inf	IC52988 Devendra Pratap Singh, Inf
IC52407 Ujwal G Kammar, Sigs	IC52997 Nitin Chaturvedi, AOC
IC52453 Rohit Bakshi, AC	IC53007 Vinod Sharma, Inf
IC52459 Surinder Hora, Inf	IC53012 Amit Singh Negi, Inf
IC52493 Randhir Singh, Arty	IC53026 Sreekant Tiwari, Arty
IC52548 Praveen Dhiman, Arty	IC53055 Anish Jaitley, AC
IC52555 D Srinivasan, Arty	IC53057 Mark Robert Arland, Int
IC52557 Anil Thakur, ASC	IC53064 Ravi Kumar Misra, EME
IC52563 Rajneesh Bhatnager, EME	IC53076 Vikram Vijay Suri, EME
IC52568 Dheeraj Singh, ASC	IC53078 Ashish Khare, EME
IC52569 Pratap Singh, Inf	IC53082 Isukapalli Raghu Venkateshwarlu, AEC
IC52581 Ravi Bhushan, Inf	—01 Nov 2004—
IC52582 Aman Deep Singh, Rupal	IC53142 Sunil Uttam, Arty
IC52591 Vinod Kumar Sharma, EME	IC53145 Manjeet Singh, sigs
IC52601 Vijay Mishra, Sigs	IC53149 Naveen Kumar Sharma, EME
IC52614 Sameer Arora, AOC	IC53182 Harish Chandra Joshi, ASC
IC52616 Vivek Ahlawat, EME	IC53190 Karamjit Singh Gill, Engrs
IC52618 Naveen Teotia, Arty	IC53193 Balwant Singh, AD Arty
IC52622 Chetan Dewan, EME	IC53200 Rakesh Tiwari, Arty
IC52627 Vijay Chahar, Inf	IC53214 Manu Kumar, AOC
IC52631 Jayanta Kumar Jana, EME	IC53233 Sharad Kumar Singh, ASC
IC52652 Jashwant Sinha, Engrs	IC53238 Kailash Chandra, Arty
IC52669 Devender Singh Sohal, EME	IC53251 Jagminder Singh Mann, Inf
IC52671 Naresh Chaudhary, Mech Inf	IC53264 Shyamal Sinha, Inf
IC52673 Vikrant Singh, Sigs	IC53275 Kuljeet Singh Bajwa, Inf

IC53280 Ajay Kumar Garnaik, Arty	IC54285 VA Narayana, Engrs
IC53285 Satya Narayan Das, Inf	IC54582 RL Manoj Engrs
IC53290 Kapil Dev Sharma, Engrs	IC54597 Sandeep Acharya, EME
IC53297 Surendra Singh Chhillar, Inf	IC54604 EP John, EME
IC53300 Amit Sharma, Engrs	IC54605 Sameer Singh, EME
IC53305 Bikramadev Singh Grewal, ASC	IC54643 HS Khokher, AD Arty
IC53309 Devesh Dua, Engrs	IC54706 Uday Kumar P. Sankeshwar, Engrs
IC53311 Raj Kumar, EME	IC54716 Arun Sood, AC
IC53319 Surender Kumar, Arty	IC54721 Bapat Kedar Jagannath, Inf
IC53333 Kamaldeep Singh Randhawa, AD Arty	IC54822 Harbans Singh, EME
IC53335 Diptendra Nath Mallick, Inf	IC54836 Prabir Kanungo, Arty
IC53341 Rajesh Mishra, Sigs	IC54855 Neeraj Mohey, AC
IC53342 Sumanto Sen, ASC	IC54863 Lalit Mohan, Inf
IC53348 Shivananda MA, EME	IC54870 Sanjay Kumar Ahuja, ASC
IC53349 Sukumar Sahu, Engrs	IC54875 Sanjay Damodaran, Inf
IC53352 Sanjay Mishra, EME	IC54882 Manbir Singh Dhankar, AOC
IC53367 Dinesh Patahbi, EME	—01 Nov 2004—
IC53386 Vijay Kumar Thapliyal, Inf	IC54891 Jitender Yadav, ASC
IC53388 Rajeev Kumar Ohlyan, Inf	—04 Nov 2003—
IC53392 Ajay Serohi, EME	IC54893 Kirti Singh Bisht, Inf
IC53393 Parminder Pal Singh, EME	IC54924 Ajay Kumar Bhattacharjee, Arty
IC53394 IPB Vaidya Nathan, Sigs	IC54926 Partha Pratim Deb, Sigs
IC53401 Chekuri Srinivas Rao, ASC	IC54932 Abrar Ahmed, Arty
IC53404 Sheikh Asad, ASC	IC54939 Rudra Deep Dutta Roy, Inf
IC53412 Naveen Chauhan, Engrs	IC54943 Dharmender Singh Chaudhary, AOC
IC53425 Rajesh Rana, ASC	IC54948 Manjeet Singh, ASC
IC53428 Neeraj Chaudhary, EME	—01 Nov 2004—
IC53436 Anurag Kumar Chaudhary, Engrs	IC54951 Rajneesh Singh Gaur, ASC
IC53455 Sanjeev Kumar Singh, Inf	IC54956 Sanjeev Thakur, ASC
—10 Dec 2004—	
IC53480 Ajay Kumar Upadhyay, EME	IC54978 Patharakar Neelesh Ravindra, Inf
IC53483 Rama Subramanian H, Sigs	IC54983 Randeep Singh Nakai, AC
IC53867 Munish Bhagi, Engrs	IC54985 Jagat Singh J Hada, Inf
IC53888 Shiva Ram Krishna Setamraju, Engrs	IC54993 Rustam Darayoush Khambatta, Arty
IC53913 Yogesh Chandra, Engrs	IC55014 Himanshu Dixit, ASC
IC54264 Vinit Saxena, Sigs	IC55015 Santosh Kumar, Arty
IC54269 S Saravanan, Engrs	IC55023 Chhatarpal Singh Solanki, Inf
IC54273 Tapas Kumar Viswanath Das, EME	IC55026 Prithwish Saha, Arty
IC54277 Inder Mohan Singh, EME	IC55028 Vimal Sethi, EME

IC55058 Rakesh Kumar Singh, Inf	IC52406 Chanchal Dasgupta, AOC
IC55062 Deepak Sharma, AC	—11 Dec 2003—
IC55070 Nilendra Singh Mathur, AOC	IC52724 Anuj Kalia, AC
IC55087 Sabyasachi Datta, EME	IC52871 Saurabh Singh Shekhawat, Inf
IC55088 Manoj KB, Engrs	IC53048 Parminder Singh Sidhu, ASC
IC55093 Jaideep Chakarverti, Arty	—11 Jun 2004—
	—01 Nov 2004—
IC55119 Suryavanshi Atul Dilip Kumar, Engrs	IC53102 Ajit Singh Bhaduria, MF
IC55123 Rajendra Singh Rawat, Engrs	IC53868 Joseph JK, MF
IC55130 Sandeep Ratra, JAG	—16 Dec 2004—
IC55135 DS Poovaish, Engrs	IC54568 Dhirendra Singh, EME
IC55137 Sanjay Apte, EME	—12 Jun 2004—
IC55138 Sudhir Kumar Singh, Inf	IC55047 Ray Gautam Prasad, AOC
IC55139 Ram Krishan Das Kapur, ASC	—19 Apr 2004—
IC55143 Param Jeet Singh, Inf	IC52497 Sachin Puri, AD Arty
IC55145 Neeraj Sharad, Inf	—16 Dec 2004—
IC55146 Jai Bhagwan, Sigs	IC43237 Anil Gaur, Sigs
IC55149 Abhijit M Velankar, Inf	IC43612 Rajesh Nautiyal, Inf
IC55160 Dharmendra Kumar Upadhyay, Arty	IC43989 Yus Jamwal, ASC
IC55163 T Allwyn, AOC	IC44397 Anil Ram, AC
IC55166 J Francis Jude Mohan Raj, Inf	IC44413 RS Bist, EME
IC55172 Aseem Kapoor, Arty	IC45574 AAR Deshpandey, Inf
IC55174 Harsh Sethi, Arty	IC45661 Jatinder Paul, Inf
IC55176 Amit Kumar Chowdhury, ASC	IC45669 Sorab Jaitley, Inf
✓ IC55178 Manish Mrinal, ASC	IC45719 Pondicherry S Sunil Kumar, EME
	—03 Nov 2004—
IC55328 Sanjeev Tyagi, EME	IC45749 Dinesh Nijhawan, AC
	—01 Nov 2004—
IC55518 Sushil Kumar Saini, EME	IC45768 Arun Kumar Kohli, EME
IC55520 Vijyant Thakur, Sigs	IC45790 VS Shekhawat, ASC
IC55526 Pawan Kumar, EME	IC45861 S Hari Kumar, EME
	—01 Nov 2004—
IC56914 Tushar Prakash Ghate, Engrs	IC45964 Sukhjinder Singh, ASC
IC56926 AL Suresh Kumar, Sigs	IC46018 Manouendra Chatterji, Arty
	—10 Dec 2004—
IC48459 D James Vijaya Vardhan, AD Arty	IC46077 KP Prakhakar, EME
	—21 Dec 1997—
IC51313 Jagdeep Singh Mann, Arty	IC46097 Ravi Mishra, Inf
	—11 Nov 2002—
	IC46105 Dharam Vir Singh, Inf
	IC46137 Khushru Mistry, Arty
	IC46153 D Krishna Kumar, Arty
	IC46239 Anil Kumar Kanan, AC
	IC46240 Paras Basnett, Inf
	IC46250 Inder Pal Singh Ghuman, Arty
	IC46293 Birendra Singh Verma, Arty

IC46398 Narender Sharma, Arty	IC50156 Amarjit Singh, AD Arty
IC46414 Sanjay Sinha, Arty	IC50234 Deepak Kumar, Inf
IC46420 Ravi Kumar Dhar, AC	IC50245 Sajiv Kumar Singh, Engrs
IC46544 Inderjeet Singh, Engrs	IC50463 Ishwar Singh Thapa, Inf
IC46589 Manish Srivastava, ASC	IC50542 Amit Ghosh, M/Inf
IC46620 Rajuniala Vankatesh, AOC	IC50577 Tanmay Singh, Arty
IC46754 Bhaskar Banerjee, EME	IC50633 Virender Mohan Benbi, M/Inf
IC46766 Devajyoti Brahma, Inf	IC50635 N Anil Kumar, EME
IC46812 Harsh V Chhibber, AC	IC50654 Alok Bhatnagar, Inf
IC46822 Jaswant Singh, Arty	IC50776 Suravarapu Nagaraja, Engrs
IC46890 S Mitra, Arty	IC50951 Ashish Bedi, AC
IC46952 Man Preet Singh Dhillon, Arty	IC51026 Kishore Kumar, Engrs
IC46960 Sharad Sharma, EME	IC51033 Sharm Chander Kumar Lekhraj, Arty
IC46969 Vikram Singh, AC	IC51059 Mani Kumar Limbu, Inf
IC47095 Atul Ajmani, Sigs	IC51076 SK Singh, ASC
IC47295 Prem Singh Kharwal, ASC	IC51077 Vivek Sharma, EME
IC47526 CS Ravindra Reddy, Sigs	IC51101 Himanshu Shekhar, EME
IC47806 Surendra Singh, Inf	IC51111 Ranjan Kumar K Chaudhary, AEC
IC47870 Alok Johri, EME	IC51155 Sanjay Dalal, Inf
IC47890 Arvinder Singh Grewal, ASC	IC51339 Arun Kumar Pitamber Jha, Int
IC47929 Sidhu Albel Singh, Arty	IC51377 Gopal Singh Chauhan, Inf
IC47969 Kishore J, EME	IC51386 Rupinder Singh Pannu, Inf
IC48220 P Madhusudan, AOC	IC51458 Syam Sunder Patnaik, EME
IC48421 Joyanta Kumar Roy Chawdhury, Inf	IC51599 Rawinder Singh Bali, Inf
IC48853 Atul Vats, Engrs	IC51627 Rakesh Kumar Verma, EME
IC48927 Amit Gehlot, EME	IC51629 S Khatri, Sigs
IC48942 Kautharapa Srinivas, Sigs	IC51672 Pankaj Gupta, Arty
IC48951 Raja Shekhar S Patil, Engrs	IC51698 Narsimha Murthy KN, Engrs
IC49155 Balakrishnan Unnithan R, Arty	IC51789 KS Machal, Inf
IC49754 Ganeshan M, Sigs	IC51811 Jitendra Narayan Kumar, ASC
IC49716 Sukhjeet Singh Dhaliwal, Inf	IC51841 V Venkat Shrinivas, Arty
IC49765 Min Bahadur Gurung, Inf	IC51872 Manish Sharma, ASC
IC49766 Virendra Singh, Inf	IC51878 Arun Kant Tripathi, Arty
IC49783 Rajeev Katoch, AC	IC51917 Sanjay Kumar, AEC
IC49798 Sandeep Singh, Inf	IC52122 Ajay Gupta, Arty
IC49829 Sudhir Bahal, EME	IC52185 Salabh Tripathi, AC
IC49833 Mahaveer Singh Kanwar, Engrs	IC52201 Devender Singh, Inf
IC49843 Sanjay Srivastava, EME	IC52211 Virupak Shaich, ASC
IC49847 Pravcen, MF	IC52212 Tilak Magan Thapa, AOC

IC52216 Sushil Kumar Hahiya, Inf	IC53283 C Lal Hming Thanga, ASC
IC52237 CP Rajeev, Inf	IC53320 Anil Kumar Singhroha, Inf
IC52242 Manjit Singh Sohi, Inf	IC53362 Ritesh Kumar, Int
IC52340 Manoranjan Das, Engrs	IC53366 Shashank Trivedi, Inf
IC52422 Vishwajeet Kumar, EME	IC53381 Rajkumar Saini, EME
IC52473 V Nagendra Rao, Engrs	IC53387 Pankaj Tuknait, Inf
IC52491 Randhawa Singh, Arty	IC53416 Anuj Garg, EME
IC52501 Babu Jaishankar Chandra, EME	IC53429 Manesh Babu G, AC
IC52541 PT Sanjeev, EME	IC53433 Karnik Ashish Shrikant, Arty
IC52551 Hira Singh Sandhu, Inf	IC53439 Rajiv A, AEC
IC52565 Suresh Nair, Sigs	IC53449 Shailendra Pratap Singh, Inf
IC52566 Jaswinder Singh Bagga, Sigs	IC53484 Rao Murli Sridhar, Engrs
IC52589 KS Jankiram, EME	IC53486 Anil Abraham, Engrs
IC52623 Surinder Singh, Arty	IC53877 K Sugumar, Sigs
IC52676 V Vinod, Engrs	IC54254 Rajib Chatopadhyay, Sigs
IC52704 Girish Kashyap S, Engrs	IC54271 KN Singh, EME
IC52707 Viresh Nandan Sahay, EME	IC54275 Anupam Kumar Singh, EME
IC52718 Sahi Baljinder Sahni, Engrs	IC54606 Pradeep Kar, Sigs
IC52773 Lalit Sehgal, Arty	IC54611 Rohit Thapa, AOC
IC52792 Paul Debopam Dibyendu, Engrs	IC54634 Rohit Bhatara, AC
IC52866 Tarun Kumar, Arty	IC54702 Ashok C, Inf
IC52898 Devinder Pal Singh Danoona, Inf	IC54736 Yajuvendra Singh, ASC
IC52941 Vishal Saxena, Sigs	IC54764 Shailendra Singh Sahi, Inf
IC53008 Sandeep Kumar Nigade, Engrs	IC54780 Sukhdeo Singh, AOC
IC53014 Jaswinder Singh, EME	IC54790 Sanjay Washington, Inf
IC53041 Narender Singh, M/Inf	IC54793 Arvind Kaul, Inf
IC53043 AS Mukherjee, Arty	IC54807 Pradyumna Singh Banafar, Arty
IC53046 Vinod Kumar, Sigs	IC54823 Vasant Setty Srinivas, AOC
IC53051 Tushar Tiwari, EME	IC54829 Sunil Kumar Chandran, Arty
IC53058 Manish Chauhan, Int	IC54830 Sidhu George K, JAG
IC53059 Gaurav Razida, Inf	IC54843 Suresh Narayanan, Engrs
IC53169 Ashish Khanwalkar, AD Arty	IC54860 Rajbir Sharma, AOC
IC53176 Patil Dhananjirao Shivajirao, Arty	IC54865 Tarak Majumdar, Arty
IC53211 Mahendra Kumar Singh, Inf	IC54869 Apar Krishnatray, ASC
IC53219 Lalit Balhara, AC	IC54888 Mohit Puri, AOC
IC53221 Pawar Nitin Rajaram, Sigs	IC54914 Mahesh Kumar Nain, AD Arty
IC53246 Rajeev Kumar Sharma, Arty	IC54927 Neeraj Bhakri, Inf
IC53262 Snehashish Bhattacharjee, Inf	IC54930 Abir Ghosh, ASC
IC53272 Jagannath Nisonku, Engrs	IC54931 Rashmi Ranjan Behura, Sigs

IC54937 Ajay Sangwan, Inf	IC19122 Brig Jatinder Singh, SM, Arty—02 Apr 2002
IC54946 Sharma Sudhir Praneet, Inf	IC24143 Brig SN Mukherjee, Engrs—11 Sep 2003 with seniority from 03 Apr 2002 without effect on pay and pension.
IC54949 Vinit Kukund, Inf	IC26878 Brig Gaganjit Singh, AVSM, 88AR—04 Apr 2002
IC54953 Harishwar Singh, Arty	IC19386 Brig Samantaray AK, VSM, Arty (GC)—01 Aug 2002 with seniority from 05 Apr 2002 without effect on pay and pension.
IC53166 Kulwinder Singh, EME	IC19391 Brig Pawar BS, Arty—06 Apr 2002
IC55006 Sanjay Kumar Shukla, Inf	IC19393 Brig Shekhawat KDS, 3 CAV—07 Apr 2002
IC55007 Narayan Kurup, Inf	IC19396 Brig Summanwar DH, VSM Raj Rif—08 Apr 2002
IC55008 Bhushan Kunderia, AC	IC19403 Brig Singh RD, AOC—20 Apr 2002
IC55031 Jitendra Singhs Panwar, ASC	IC19405 Brig Sahuja AK, Arty, 01 May 2002
IC55034 Arun Kumar Bensla, ASC	IC19407 Brig Dahiya SK, ASC—02 May 2002
IC55037 Gurpreet Singh Khanna, AOC	IC19410 Brig Pande Mohan, Mahar—01 Jun 2002
IC55038 Gilbert Nelton Jena, Engrs	IC19411 Brig Tripat Singh, SM, VSM, Punjab—01 Aug 2002 with seniority from 02 Jun 2002 without effect on pay and pension.
IC55041 Gurpreet Singh, Inf	IC19422 Brig Goswami RR, Engrs—01 Jul 2002
IC55048 Vishal Gautam, Arty	IC19429 Brig Shah ZU, VSM, Arty (GC)—02 Jul 2002
IC55057 Darryl Hopking, Arty	IC19440 Brig Sharma Sudhir, VSM, Guards—03 Jul 2002
IC55061 Shantanu, ASC	IC19445 Brig Chopra Rajiv, VSM, Arty—04 Jul 2002
IC55074 CJ Laxmi Narayan, Sigs	IC19456 Brig Gopal RP, AOC—05 Jul 2002
IC55089 Vivek Chaturvedi, Arty	IC19478 Brig GK Nischal, Sigs—06 Jul 2002
IC55094 Abdul Basit Abdul Hangal, ASC	IC19506 Brig Mahajan PK, Arty (GC)—01 Sep 2002 with seniority from 01 Aug 2002 without effect on pay and pension.
IC55132 S Kumara Pandian, Inf	IC19510 Brig Vijan CB, Arty (GC)—02 Aug 2002
IC55157 Rahul Kondinya, AC	IC19531 Brig SK Makin, SM, Sigs—14 Apr 2003 with seniority from 01 Sep 2002 without effect on pay and pension.
IC55164 Devendra Kumar Singh, Inf	IC19550 Brig Mehta RK, YSM, VSM, Para—02 Sep 2002
IC55168 Kamaldeep Singh Samra, Inf	IC19554 Brig Raj Pal, ASC—03 Sep 2002
IC55187 Raj Shekhar Neogi, EME	IC19586 Brig Kaul RL, ASC—04 Sep 2002
IC55203 Satyanshu Verma, Sigs	IC24465 Brig AK Saini, Sigs—06 Aug 2003 with seniority from 05 Sep 2002 without effect on pay and pension.
IC55335 Yoginder Pal Singh, Engrs	IC24528 Brig Bhattacharya U, Engrs—01 Jan 2003 with seniority from 05 Sep 2002 without effect on pay and pension.
IC55515 Vijay Basnett, Sigs	IC26295 Brig Ghosh S, VSM, Gren—01 Oct 2002
IC55523 AK Singh, EME	IC26360 Brig Merchant DP, AVSM, Madras—02 Oct 2002

—16 Dec 2004—

S. S. SINHA
Dy. Dir.
MS-8C

No. 313, dated 1st June 2005.—The President is pleased to make substantive promotions of Major General to the following Officers:—

IC No., Rank, Name, Arm and Date of Substantive Maj Gen.

IC17595 Brig Roye Arun, VSM, Guards—01 Mar 2002
 IC17637 Brig Sindh KS, VSM, 15 AR—02 Mar 2002
 IC19107 Brig Mukherji Dipak, YSM, Bihar—01 Apr 2002

IC19122 Brig Jatinder Singh, SM, Arty—02 Apr 2002
 IC24143 Brig SN Mukherjee, Engrs—11 Sep 2003 with seniority from 03 Apr 2002 without effect on pay and pension.
 IC26878 Brig Gaganjit Singh, AVSM, 88AR—04 Apr 2002
 IC19386 Brig Samantaray AK, VSM, Arty (GC)—01 Aug 2002 with seniority from 05 Apr 2002 without effect on pay and pension.
 IC19391 Brig Pawar BS, Arty—06 Apr 2002
 IC19393 Brig Shekhawat KDS, 3 CAV—07 Apr 2002
 IC19396 Brig Summanwar DH, VSM Raj Rif—08 Apr 2002
 IC19403 Brig Singh RD, AOC—20 Apr 2002
 IC19405 Brig Sahuja AK, Arty, 01 May 2002
 IC19407 Brig Dahiya SK, ASC—02 May 2002
 IC19410 Brig Pande Mohan, Mahar—01 Jun 2002
 IC19411 Brig Tripat Singh, SM, VSM, Punjab—01 Aug 2002 with seniority from 02 Jun 2002 without effect on pay and pension.
 IC19422 Brig Goswami RR, Engrs—01 Jul 2002
 IC19429 Brig Shah ZU, VSM, Arty (GC)—02 Jul 2002
 IC19440 Brig Sharma Sudhir, VSM, Guards—03 Jul 2002
 IC19445 Brig Chopra Rajiv, VSM, Arty—04 Jul 2002
 IC19456 Brig Gopal RP, AOC—05 Jul 2002
 IC19478 Brig GK Nischal, Sigs—06 Jul 2002
 IC19506 Brig Mahajan PK, Arty (GC)—01 Sep 2002 with seniority from 01 Aug 2002 without effect on pay and pension.
 IC19510 Brig Vijan CB, Arty (GC)—02 Aug 2002
 IC19531 Brig SK Makin, SM, Sigs—14 Apr 2003 with seniority from 01 Sep 2002 without effect on pay and pension.
 IC19550 Brig Mehta RK, YSM, VSM, Para—02 Sep 2002
 IC19554 Brig Raj Pal, ASC—03 Sep 2002
 IC19586 Brig Kaul RL, ASC—04 Sep 2002
 IC24465 Brig AK Saini, Sigs—06 Aug 2003 with seniority from 05 Sep 2002 without effect on pay and pension.
 IC24528 Brig Bhattacharya U, Engrs—01 Jan 2003 with seniority from 05 Sep 2002 without effect on pay and pension.
 IC26295 Brig Ghosh S, VSM, Gren—01 Oct 2002
 IC26360 Brig Merchant DP, AVSM, Madras—02 Oct 2002
 IC28342 Brig Joshi VK, VSM, Int—03 Oct 2002
 IC28636 Brig Mohan SC, ASC—04 Oct 2002
 IC26531 Brig Narang SPS, VSM, Arty—01 Nov 2002

IC26638 Brig Avasthy SD, Rajput—02 Nov 2002
 IC19832 Brig Ravinder Singh, YSM, Raj Rif—31 Mar 2003 with seniority from 03 Nov 2002 without effect on pay and pension.
 IC19834 Brig Panag HS, Mech, Inf—04 Nov 2002
 IC19845 Brig Desai DN, VSM, 18 CAV—01 Dec 2002
 IC19846 Brig Batra HS, VSM, Para, 02 Dec 2002
 IC19848 Brig Mathew Thomas, Rajput—03 Dec 2002
 IC19853 Brig Mahajan Arvind, VSM*, EME—04 Dec 2002
 IC19860 Brig Mandhata Singh, YSM, 9 GR—01 Jan 2003
 IC19868 Brig Dhillon SS, VSM, Gren—02 Jan 2003
 IC19876 Brig RS Chhatwal, Sigs—06 Aug 2003 with seniority from 04 Jan 2003 without effect on pay and pension.
 IC19886 Brig Jain YK, Engrs—05 Jan 2003
 IC19890 Brig Singh RK, VSM—Sikh LI—06 Jan 2003
 IC19931 Brig Rampal PK, 11 GR—09 Jan 2003
 IC19980 Brig Gupta RK, EME—02 Feb 2003
 IC19983 Brig Anand Deepak, VSM, MLI—21 Feb 2003
 IC23030 Brig Choudhary PS, SM, VSM, Raj Rif—02 Mar 2003
 IC23039 Brig Paramjit Singh, VSM, Garh Rif—04 Mar 2003
 IC23068 Brig Rajan SN, ASC—05 Mar 2003
 IC24975 Brig SK Sahijpal, Engrs—01 Apr 2003

N. MARIAPPAN
Jt. Director/MS (X)

(DEPARTMENT OF DEFENCE PRODUCTION)

No. 314, dated 2nd June 2005.—The President is pleased to make the following promotions:—

Shri G Ravikumar, JTO, CQA(L), Bangalore to be JSO in-situ w.e.f. 20 Jul 2004 (FN).

Smt. Prema Kumari, STA-I, QAE(WE), Bangalore to be JSO at CQAE (WE), Bangalore w.e.f. 26 Jul 2004 (FN).

Shri SA Shiv Kumar, JTO, SQAE(L), Chennai to be JSO in-situ w.e.f. 20 Jul 2004 (FN).

Shri S Krishna Rao, STA-I, CQAE(WE), Bangalore to be JSO in-situ w.e.f. 26 Jul 2004 (FN).

Shri RN Soren, SSA, SQAE (GS), Kolkata to be JSO in-situ w.e.f. 23 Jul 2004 (FN).

Shri PP Pande, SSA, Dte of Stdn, New Delhi to be JSO at SQAE (GS), New Delhi w.e.f. 20 Aug 2004 (FN).

Shri VK Pande, SSA, SQAE(GS), Chennai to be JSO at SQAE(GS), Kolkata w.e.f. 05 Aug 2004 (FN).

Shri Gaya Ram, JTO, SQAE(GS), Mumbai to be JSO in-situ w.e.f. 20 Jul 2004 (FN).

Shri Moti Lal, SSA, CQA(PP), Kanpur to be JSO at CQA(M), Kanpur w.e.f. 27 Jul 2004 (FN).

Shri Gorey Lal, SSA, CQA(PP), Kanpur to be JSO at CQA(M), Kanpur w.e.f. 27 Jul 2004 (FN).

Shri Girish Chandra, SSA, CQA(M), Kanpur to be JSO in-situ w.e.f. 21 Jul 2004 (FN).

Shri AK Sonkar, SSA, CQA(M), Kanpur to be JSO in-situ w.e.f. 21 Jul 2004 (FN).

Shri SK Bhadra, SSA, SQAE(GS), Chennai to be JSO at SQAE(GS), Kolkata w.e.f. 16 Aug 2004(FN).

Smt. S Geetha, SSA, SQAE(GS), New Delhi to be JSO in-situ w.e.f. 20 Jul 2004.

Shri RC Sharma, SSA, SQAE(GS), New Delhi to be JSO in-situ w.e.f. 20 Aug 2004 (FN).

Shri UK Tamulyar, SSA, SQAE(GS), Kolkata to be JSO in-situ w.e.f. 29 Oct 2004 (FN).

Shri Sudarshan Kumar, JTO, SQAE(A), Delhi Cantt. to be JSO at CQA(A), Kirkee w.e.f. 20 Nov 2004 (FN).

Shri M Sai Prasad, CDM, CQA(A), Kirkee to be JSO in-situ w.e.f. 01 Jan 2005 (FN).

Shri GD Saxena, SSA, SQAE(A), Cossipore to be JSO at CQA(Met), Ichapur w.e.f. 23 Nov 2004 (FN).

Shri JA Dixit, JTO, CQA(V), Ahmednagar to be JSO in-situ w.e.f. 27 Oct 2004 (FN).

Shri Subrato Ghosh, SSA, CQA(GS), Kanpur to be JSO at SQAE(GS), Shahjahanpur w.e.f. 06 Dec 2004 (FN).

Shri Prem Chand, JTO, CQA(I), Dehradun to be JSO in-situ w.e.f. 01 Dec 2004 (FN).

Shri AM Satpute, JTO, SQAE(A), Secunderabad to be JSO at SQAE(A), Kolkata w.e.f. 06 Dec 2004 (FN).

Shri Debarata Halder, JTO, CQA(AVL), Avadi to be JSO in-situ w.e.f. 10 Feb 2005 (FN).

Shri N Balasubramanian, JTO, CQA(HV), Avadi to be JSO in-situ w.e.f. 31 Jan 2005 (FN).

Shri D Govardhana Rao, JTO, VQAW, Bangalore under SQAE(V), Chennai to be JSO in-situ w.e.f. 31 Jan 2005 (FN).

S PATTANAYAK
Dir. (S-I)

DEFENCE RESEARCH AND DEVELOPMENT
ORGANISATION

No. 315, dated 3rd June 2005.—The President is pleased to promote the following Officers from their existing grade

to the next grade w.e.f. 01 Sep 2004 (FN) as mentioned against each:—

Name (S/Shri/Smt.), Lab/Estt, Existing Grade, Promoted to and Pay Scale of Promoted Grade

G Prithiviraj, CVRDE, TO 'B', TO 'C'—Rs. 10,000-325-15,200/-

L Seenivasan, CVRDE, TO 'B', TO 'C'—Rs. 10,000-325-15,200/-

S Palanichamy, CVRDE, TO 'B', TO 'C'—Rs. 10,000-325-15,200/-

V Rajagopal, CVRDE, TO 'B', TO 'C'—Rs. 10,000-325-15,200/-

A Ramalingiah, CVRDE, TO 'B', TO 'C'—Rs. 10,000-325-15,200/-

Gajendra Kumar, CVRDE, TO 'A', TO 'B'—Rs. 8,000-275-13,500/-

T Bala Krishnan, CVRDE, TO 'A', TO 'B'—Rs. 8,000-275-13,500/-

G Thirugnanam, CVRDE, TO 'A', TO 'B'—Rs. 8,000-275-13,500/-

A Mariaprasanathan, CVRDE, TO 'A', TO 'B'—Rs. 8,000-275-13,500/-

M Gunasekaran, CVRDE, TO 'A', TO 'B'—Rs. 8,000-275-13,500/-

VS Madivanan, CVRDE, TO 'A', TO 'B'—Rs. 8,000-275-13,500/-

V Ramasamy, CVRDE, TO 'A', TO 'B'—Rs. 8,000-275-13,500/-

S Mohan, CVRDE, TO 'A', TO 'B'—Rs. 8,000-275-13,500/-

C Jayakumar, CVRDE, TO 'A', TO 'B'—Rs. 8,000-275-13,500/-

N Natarajan, CVRDE, TO 'A', TO 'B'—Rs. 8,000-275-13,500/-

M Rajamanickam, CVRDE, TO 'A', TO 'B'—Rs. 8,000-275-13,500/-

J Immanuel Raj, CVRDE, TO 'A', TO 'B'—Rs. 8,000-275-13,500/-

A Muralidharan, CVRDE, TO 'A', TO 'B'—Rs. 8,000-275-13,500/-

Kamal Sawroop, IRDE, TO 'B', TO 'C'—Rs. 10,000-325-15,200/-

AK Kalara, IRDE, TO 'B', TO 'C'—Rs. 10,000-325-15,200/-

Bikaou Singh, IRDE, TO 'B', TO 'C'—Rs. 10,000-325-15,200/-

AK Roy, IRDE, TO 'B', TO 'C'—Rs. 10,000-325-15,200/-

Nirmal Singh, IRDE, TO 'B', TO 'C'—Rs. 10,000-325-15,200/-

Pooran Singh, IRDE, TO 'B', TO 'C'—Rs. 10,000-325-15,200/-

JB Goyal, IRDE, TO 'A', TO 'B'—Rs. 8,000-275-13,500/-

OP Singh, IRDE, TO 'A', TO 'B'—Rs. 8,000-275-13,500/-

Rajendra Prasad, IRDE, TO 'A', TO 'B'—Rs. 8,000-275-13,500/-

Santosh Kumar, IRDE, TO 'A', TO 'B'—Rs. 8,000-275-13,500/-

Rajendra Singh, IRDE, TO 'A', TO 'B'—Rs. 8,000-275-13,500/-

Jitendra Kumar, IRDE, TO 'A', TO 'B'—Rs. 8,000-275-13,500/-

Ranjana Chatarjee, IRDE, TO 'A', TO 'B'—Rs. 8,000-275-13,500/-

BM Agrawal, IRDE, TO 'A', TO 'B'—Rs. 8,000-275-13,500/-

NC Joshi, IRDE, TO 'A', TO 'B'—Rs. 8,000-275-13,500/-

VK Jain, IRDE, TO 'A', TO 'B'—Rs. 8,000-275-13,500/-

Ram Singh, DEAL, TO 'B', TO 'C'—Rs. 10,000-325-15,200/-

RP Gujral, DEAL, TO 'B', TO 'C'—Rs. 10,000-325-15,200/-

IP Juyal, DEAL, TO 'A', TO 'B'—Rs. 8,000-275-13,500/-

Gajay Singh, DFAL, TO 'A', TO 'B'—Rs. 8,000-275-13,500/-

Kuldip Singh, DEAL, TO 'A', TO 'B'—Rs. 8,000-275-13,500/-

Lalit Mohan Sharma, DEAL, TO 'A', TO 'B'—Rs. 8,000-275-13,500/-

BD Nautiyal, DEAL, TO 'A', TO 'B'—Rs. 8,000-275-13,500/-

HKL Verma, DEAL, TO 'A', TO 'B'—Rs. 8,000-275-13,500/-

VK Bapat, HEMRL, TO 'B', TO 'C'—Rs. 10,000-325-15,200/-

RD Dahiwal, HEMRL, TO 'B', TO 'C'—Rs. 10,000-325-15,200/-

SW Joshi, HEMRL, TO 'B', TO 'C'—Rs. 10,000-325-15,200/-

PS Dendge, HEMRL, TO 'B', TO 'C'—Rs. 10,000-325-15,200/-

LN Bhujbal, HEMRL, TO 'B', TO 'C'—Rs. 10,000-325-15,200/-

PM Wani, HEMRL, TO 'B', TO 'C'—Rs. 10,000-325-15,200/-

VM Darshane, HEMRL, TO 'B', TO 'C'—Rs. 10,000-325-15,200/-

MH Gijare, HEMRL, TO 'B', TO 'C'—Rs. 10,000-325-15,200/-

VW Abhyankar, HEMRL, TO 'B', TO 'C'—Rs. 10,000-325-15,200/-

MV Manohar, HEMRL, TO 'B', TO 'C'—Rs. 10,000-325-15,200/-

MA Tapaswi, HEMRL, TO 'B', TO 'C'—Rs. 10,000-325-15,200/-

RS Punekar, HEMRL, TO 'B', TO 'C'—Rs. 10,000-325-15,200/-

DK Saha, ARDE, TO 'B', TO 'C'—Rs. 10,000-325-15,200/-

HA Kher, ARDE, TO 'B', TO 'C'—Rs. 10,000-325-15,200/-

SH Gulati, ARDE, TO 'B', TO 'C'—Rs. 10,000-325-15,200/-

VG Joshi, ARDE, TO 'B', TO 'C'—Rs. 10,000-325-15,200/-

Jolley Mathew, NPOL, TO 'B', TO 'C'—Rs. 10,000-325-15,200/-

Jayalakshmi Gangadharan, NPOL, TO 'B', TO 'C'—Rs. 10,000-325-15,200/-

NM Mathew, NPOL, TO 'B', TO 'C'—Rs. 10,000-325-15,200/-

TP Muraleedharan, NPOL, TO 'A', TO 'B'—Rs. 8,000-275-13,500/-

KT Varghese, NPOL, TO 'A', TO 'B'—Rs. 8,000-275-13,500/-

TP Suresh Babu, NPOL, TO 'A', TO 'B'—Rs. 8,000-275-13,500/-

Valsa John, NPOL, TO 'A', TO 'B'—Rs. 8,000-275-13,500/-

AM Varghese, NPOL, TO 'A', TO 'B'—Rs. 8,000-275-13,500/-

KM Makkar, NPOL, TO 'A', TO 'B'—Rs. 8,000-275-13,500/-

VV Pushpangathan, NPOL, TO 'A', TO 'B'—Rs. 8,000-275-13,500/-

KV Elias, NPOL, TO 'A', TO 'B'—Rs. 8,000-275-13,500/-

S Asokan, NPOL, STA 'C', TO 'A'—Rs. 7,450-225-11,500/-

MP George, NPOL, STA 'C', TO 'A'—Rs. 7,450-225-11,500/-

PK Lalu, NPOL, STA 'C', TO 'A'—Rs. 7,450-225-11,500/-

Liziyamma Joseph, NPOL, STA 'C', TO 'A'—Rs. 7,450-225-11,500/-

S Prasad, NPOL, STA 'C', TO 'A'—Rs. 7,450-225-11,500/-

PL Rosily, NPOL, STA 'C', TO 'A'—Rs. 7,450-225-11,500/-

DN Rajagopala, ADE, STA 'C', TO 'A'—Rs. 7,450-225-11,500/-

PV Sashidhara, ADE, STA 'C', TO 'A'—Rs. 7,450-225-11,500/-

S Umes, ADE, STA 'C', TO 'A'—Rs. 7,450-225-11,500/-

Gopalakrishna, ADE, STA 'C', TO 'A'—Rs. 7,450-225-11,500/-

Raghuraj, ADE, STA 'C', TO 'A'—Rs. 7,450-225-11,500/-

Joseph Mathew, GTRE, STA 'C', TO 'A'—Rs. 7,450-225-11,500/-

B Sridhar, GTRE, STA 'C', TO 'A'—Rs. 7,450-225-11,500/-

K Ashoka, GTRE, STA 'C', TO 'A'—Rs. 7,450-225-11,500/-

VS Seshadri, GTRE, STA 'C', TO 'A'—Rs. 7,450-225-11,500/-

Ravi George, GTRE, STA 'C', TO 'A'—Rs. 7,450-225-11,500/-

S Palani, GTRE, STA 'C', TO 'A'—Rs. 7,450-225-11,500/-

R Narayana, GTRE, STA 'C', TO 'A'—Rs. 7,450-225-11,500/-

BL Radhakrishna, GTRE, TO 'B', TO 'C'—Rs. 10,000-325-15,200/-

HA Chandrasekhara Murthy, GTRE, TO 'B', TO 'C'—Rs. 10,000-325-15,200/-

NS Seetharama Rao, GTRE, TO 'B', TO 'C'—Rs. 10,000-325-15,200/-

S Vedavyasachar, GTRE, TO 'B', TO 'C'—Rs. 10,000-325-15,200/-

M Seetharama Bhat, GTRE, TO 'B', TO 'C'—Rs. 10,000-325-15,200/-

T Gangadharan, GTRE, TO 'B', TO 'C'—Rs. 10,000-325-15,200/-

Meghanatha Mudaliar, GTRE, TO 'B', TO 'C'—Rs. 10,000-325-15,200/-

CS Lakshmikantha Setty, GTRE, TO 'A', TO 'B'—Rs. 8,000-275-13,500/-

S Elangovan, GTRE, TO 'A', TO 'B'—Rs. 8,000-275-13,500/-

K Harinarayanan, GTRE, TO 'A', TO 'B'—Rs. 8,000-275-13,500/-

KS Sunder Rajan, GTRE, TO 'A', TO 'B'—Rs. 8,000-275-13,500/-

Prashanth Kumar Pal, GTRE, TO 'A', TO 'B'—Rs. 8,000-275-13,500/-

- UA Bansode, GTRE, TO 'A', TO 'B'—Rs. 8,000-275-13,500/-
- V Goapalkrishnan, GTRE, TO 'A', TO 'B'—Rs. 8,000-275-13,500/-
- AK Valsalan, GTRE, TO 'A', TO 'B'—Rs. 8,000-275-13,500/-
- Syed Nisar Ahmed, GTRE, TO 'A', TO 'B'—Rs. 8,000-275-13,500/-
- M Manimegalai, GTRE, TO 'A', TO 'B'—Rs. 8,000-275-13,500/-
- T Saidorai, GTRE, TO 'A', TO 'B'—Rs. 8,000-275-13,500/-
- K Venkatappa Rao, GTRE, TO 'A', TO 'B'—Rs. 8,000-275-13,500/-
- R Somasundaram, GTRE, TO 'A', TO 'B'—Rs. 8,000-275-13,500/-
- L Venkataramana, NSTL, TO 'B', TO 'C'—Rs. 10,000-325-15,200/-
- S Shahinulla, NSTL, TO 'B', TO 'C'—Rs. 10,000-325-15,200/-
- K Dhavaleswara Rao, NSTL, TO 'B', TO 'C'—Rs. 10,000-325-15,200/-
- A Sri Ramarao, NSTL, TO 'B', TO 'C'—Rs. 10,000-325-15,200/-
- D Nageswara Rao, NSTL, TO 'B', TO 'C'—Rs. 10,000-325-15,200/-
- KSN Murthy, NSTL, TO 'B', TO 'C'—Rs. 10,000-325-15,200/-
- M Nirmala Devi, NSTL, TO 'B', TO 'C'—Rs. 10,000-325-15,200/-
- K Venkataramana, NSTL, TO 'A', TO 'B'—Rs. 8,000-275-13,500/-
- P Veerabhadra Rao, NSTL, TO 'A', TO 'B'—Rs. 8,000-275-13,500/-
- K Durgabhavani, NSTL, TO 'A', TO 'B'—Rs. 8,000-275-13,500/-
- J Veerabhadra Rao, NSTL, TO 'A', TO 'B'—Rs. 8,000-275-13,500/-
- VV Swarnalatha, NSTL, TO 'A', TO 'B'—Rs. 8,000-275-13,500/-
- V Hariprasadarao, NSTL, TO 'A', TO 'B'—Rs. 8,000-275-13,500/-
- EARM Reddy, NSTL, TO 'A', TO 'B'—Rs. 8,000-275-13,500/-
- R Ramarao, NSTL, TO 'A', TO 'B'—Rs. 8,000-275-13,500/-
- D Srinivasarao, NSTL, TO 'A', TO 'B'—Rs. 8,000-275-13,500/-
- CH Rambabu, NSTL, TO 'A', TO 'B'—Rs. 8,000-275-13,500/-
- N Balaji, NSTL, TO 'A', TO 'B'—Rs. 8,000-275-13,500/-
- Ram B, ADE, TO 'B', TO 'C'—Rs. 10,000-325-15,200/-
- Vijay Kumar TR, ADE, TO 'B', TO 'C'—Rs. 10,000-325-15,200/-
- Raju VK, ADE, TO 'B', TO 'C'—Rs. 10,000-325-15,200/-
- Acharya VV, ADE, TO 'B', TO 'C'—Rs. 10,000-325-15,200/-
- Jayavaradhani S, ADE, TO 'B', TO 'C'—Rs. 10,000-325-15,200/-
- Shoba AC, ADE, TO 'B', TO 'C'—Rs. 10,000-325-15,200/-
- Satyadurgadevi PV, ADE, TO 'B', TO 'C'—Rs. 10,000-325-15,200/-
- Vijayalakshmi JS, ADE, TO 'B', TO 'C'—Rs. 10,000-325-15,200/-
- Sandeep S, ADE, TO 'B', TO 'C'—Rs. 10,000-325-15,200/-
- Joy KJ, ADE, TO 'A', TO 'B'—Rs. 8,000-275-13,500/-
- Krishnachar CB, ADE, TO 'A', TO 'B'—Rs. 8,000-275-13,500/-
- Lakshmaiah M, ADE, TO 'A', TO 'B'—Rs. 8,000-275-13,500/-
- Sathyanarayana HB, ADE, TO 'A', TO 'B'—Rs. 8,000-275-13,500/-
- Joshi VL, ADE, TO 'A', TO 'B'—Rs. 8,000-275-13,500/-
- Osmanuddin Khazi, ADE, TO 'A', TO 'B'—Rs. 8,000-275-13,500/-
- Chanappa G, ADE, TO 'A', TO 'B'—Rs. 8,000-275-13,500/-
- Rangaiah D, ADE, TO 'A', TO 'B'—Rs. 8,000-275-13,500/-
- Ramakrishna A, ADE, TO 'A', TO 'B'—Rs. 8,000-275-13,500/-
- Chandramohan K, ADE, TO 'A', TO 'B'—Rs. 8,000-275-13,500/-
- Prasad P, ADE, TO 'A', TO 'B'—Rs. 8,000-275-13,500/-
- Hendry J, ADE, TO 'A', TO 'B'—Rs. 8,000-275-13,500/-
- RB Dighe, ARDE, STA 'C', TO 'A'—Rs. 7,450-225-11,500/-
- KD Joshi, ARDE, STA 'C', TO 'A'—Rs. 7,450-225-11,500/-
- KY Galande, ARDE, STA 'C', TO 'A'—Rs. 7,450-225-11,500/-
- DK Shinde, ARDE, STA 'C', TO 'A'—Rs. 7,450-225-11,500/-

SA Sonavadekar, ARDE, STA 'C', TO 'A'—Rs. 7,450-225-
11,500/-

BK Deshmukh, ARDE, STA 'C', TO 'A'—Rs. 7,450-225-
11,500/-

MD Jalindre, ARDE, STA 'C', TO 'A'—Rs. 7,450-225-
11,500/-

SS Uppin, ARDE, STA 'C', TO 'A'—Rs. 7,450-225-11,500/-

PN Gambhir, ARDE, STA 'C', TO 'A'—Rs. 7,450-225-
11,500/-

DM Nagane, ARDE, STA 'C', TO 'A'—Rs. 7,450-225-
11,500/-

P Rajendran, CVRDE, STA 'C', TO 'A'—Rs. 7,450-225-
11,500/-

P Ayyapillai, CVRDE, STA 'C', TO 'A'—Rs. 7,450-225-
11,500/-

TB Rajendran, CVRDE, STA 'C', TO 'A'—Rs. 7,450-225-
11,500/-

S Muthuramalingam, CVRDE, STA 'C', TO 'A'—Rs. 7,450-
225-11,500/-

MJ Rajkumar, CVRDE, STA 'C', TO 'A'—Rs. 7,450-225-
11,500/-

K Kesavan, CVRDE, STA 'C', TO 'A'—Rs. 7,450-225-
11,500/-

R Dhanasekaran, CVRDE, STA 'C', TO 'A'—Rs. 7,450-
225-11,500/-

G Balakrishnan, CVRDE, STA 'C', TO 'A'—Rs. 7,450-
225-11,500/-

V Murugaiyan, CVRDE, STA 'C', TO 'A'—Rs. 7,450-225-
11,500/-

J Pugalendhi, CVRDE, STA 'C', TO 'A'—Rs. 7,450-225-
11,500/-

G Meenakshinathan, CVRDE, STA 'C', TO 'A'—Rs. 7,450-
225-11,500/-

MR Mohan, CVRDE, STA 'C', TO 'A'—Rs. 7,450-225-
11,500/-

P Sekar, CVRDE, STA 'C', TO 'A'—Rs. 7,450-225-11,500/-

MU Shaikh, HEMRL, STA 'C', TO 'A'—Rs. 7,450-225-
11,500/-

JM Joshi, HEMRL, STA 'C', TO 'A'—Rs. 7,450-225-
11,500/-

RW Chute, HEMRL, STA 'C', TO 'A'—Rs. 7,450-225-
11,500/-

SK Chaware, HEMRL, STA 'C', TO 'A'—Rs. 7,450-225-
11,500/-

AL Pund, HEMRL, STA 'C', TO 'A'—Rs. 7,450-225-
11,500/-

VN Potdar, HEMRL, STA 'C', TO 'A'—Rs. 7,450-225-
11,500/-

RM Kale, HEMRL, STA 'C', TO 'A'—Rs. 7,450-225-
11,500/-

SN Bhatkal, HEMRL, STA 'C', TO 'A'—Rs. 7,450-225-
11,500/-

SB Mudholkar, HEMRL, STA 'C', TO 'A'—Rs. 7,450-225-
11,500/-

GM Yeshwant, HEMRL, STA 'C', TO 'A'—Rs. 7,450-225-
11,500/-

GJ Chavan, HEMRL, STA 'C', TO 'A'—Rs. 7,450-225-
11,500/-

The undermentioned officer is promoted from his existing
grade to the next grade w.e.f. 02 Sep 2004 (FN) as mentioned
against him:—

CY Jadhav, HEMRL, STA 'C', TO 'A'—Rs. 7,450-225-
11,500/-

The President is pleased to promote the following Officers
from their existing grade to the next grade w.e.f. 27 Sep
2004 (FN) as mentioned against each:—

AD Navgire, ARDE, TO 'B', TO 'C'—Rs. 10,000-325-
15,200/-

BB SHARMA
DD (Pers-D)

(NAVY BRANCH)

No. 316, dated 3rd June 2005.—The President is pleased
to make undermentioned promotion in Executive Branch
(Air Traffic Control) of Indian Navy under provisions of
NHQ letter to TR 8282 dated 09 Feb 1993 and Ministry of
Defence Letter No. MP/0491/NHQ/743/DO/D(N-IV) dated
01 Jul 1992:—

Name, Personal No., Date of Commission and Date of
Promotion as LT

S K Yadav (05311W), 12 Aug 2002—12 Nov 2004

A S Rana (05317H), 12 Aug 2002—12 Dec 2004

Nilu Sinsinwar (05319N), 12 Aug 2002—12 Dec 2004

Pushpa Pandey (05310T), 12 Aug 2002—12 Feb 2005

S Jaitley (05312Y), 12 Aug 2002—12 Apr 2005

Justine J Puthur (05316F), 12 Aug 2002—12 Feb 2005

Sameer Shori (05314A), 12 Aug 2002—12 Feb 2005

Jayashree Sarkar (05315B), 12 Aug 2002—12 Dec 2004

Ruchi Bhatia (05318K), 12 Aug 2002—12 Dec 2004

The President is pleased to make the following promotion
in Executive Branch (Air Traffic Control) of Indian Navy
under provisions of Govt. of India letter No. 4(1)/US(MP)/
D(N-II)/2004 dated 11 Mar 2005 and IHQ/Mod (N) letter
No. NA/3102/Policy dated 14 Mar 2005:—

Name, Personal No., Date of Commission and Date of
Promotion

Pushpa Pandey (05310T), 12 Aug 2002—16 Dec 2004

Sameer Shori (05314A), 12 Aug 2002—16 Dec 2004

Justine J Puthur (05316F), 12 Aug 2002—16 Dec 2004
S Jaitely (05312Y), 12 Aug 2002—16 Dec 2004

This supersedes all the previous DGNs issued in respect of the above named Officers as Lts.

The President is pleased to make undermentioned promotion in Executive Branch (Logistic Cadre) of Indian Navy under provisions of Ministry of Defence Letter No. MP/0421/NHQ/869/US/D(N-II) dated 01 May 1989 and TR/0886/LSS/P dated 04 Jan 1993:—

Name, Personal No., Date of Commission and Date of Promotion Lt.

Paramjeet Singh (05350H), 12 Aug 2002—27 Jan 2005

The President is pleased to make undermentioned promotion in Executive Brnach (Logistic Cadre) of Indian Navy under provisions of Ministry of Defence Letter No. MP/0421/NHQ/869/US/D(N-II) dated 01 May 1989 and TR/0886/LSS/P dated 04 Jan 1993:—

Name, Personal No., Date of Commission and Date of Promotion

Rathore Barkha (05399W), 10 Feb 2003—10 Apr 2005

Ramendra Singh (05344W), 12 Aug 2002—27 Feb 2005

The President is pleased to make undermentioned promotion in Executive Brnach (Logistic Cadre) of Indian Navy under provisions of Govt. of India Letter No. 4(1)/US(MP)/D(N-II)/2004 dated 11 Mar 2005 and IHQ/Mod (N) letter No. NA/3102/Policy dated 14 Mar 2005:—

Name, Personal No., Date of Commission and Date of Promotion

Parampreet Singh (05354T), 12 Aug 2002—16 Dec 2004

The President is pleased to make undermentioned promotion in Executive Brnach (Logistic Cadre) of Indian Navy under provisions of Ministry of Defence Letter No. MP/0421/NHQ/869/US/D(N-II) dated 01 May 1989 and TR/0886/LSS/P dated 04 Jan 1993:—

Name, Personal No., Date of Commission and Date of Promotion Lt.

Neema KU (05185H), 04 Jul 2001—20 Oct 2003

Rajesh R Pillai (05263K), 01 Jan 2002—16 Aug 2004

Parveen Malik (05338F), 12 Aug 2002—12 Aug 2004

Jasmit Nehal (05339H), 12 Aug 2002—12 Aug 2004

Priya Khurana (05351K), 12 Aug 2002—12 Aug 2004

Vikrant Malhan (05355W), 12 Aug 2002—27 Nov 2004

Shilpa (05342R), 12 Aug 2002—12 Sep 2004

Aparna Ramesh Joshi (05340K), 12 Aug 2002—12 Oct 2004

Augstine Sunaina (05347A), 12 Aug 2002—27 Dec 2004

Shweta Sethi (05343T), 12 Aug 2002—27 Jan 2005

Pooja Rajput (05352N), 18 Aug 2002—03 Feb 2005

Deepika Singh (05348B), 12 Aug 2002—12 Dec 2004

Randive Sandeep Satish (05336A), 12 Aug 2002—27 Nov 2004

Bhavna Salaria (05346Z), 12 Aug 2002—27 Jan 2005

Priyanka Gupta (05345Y), 12 Aug 2002—27 Feb 2005

**NAVAL CONSTRUCTOR (ENGINEERING BRANCH)
WING**

Sub Lts to be Lts

The President is pleased to make the following Promotion in the Engineering Branch Corps of Naval Constructor of Indian Navy under the provision of Ministry of Defence letter No. NC/3066/NHQ/3182/D(N-II) dated 10 Jun 1977 and Navy Order No. 127/99:—

Name, P No., Date of Commission, Seniority gained and Due date for promotion

Amrit Pal Singh (42197A) 01 Jan 2000, 06—01 Jul 2002

S K Rao (42198B) 01 Jan 2000, 11.5—16 Jan 2002

Deepak Sebastain (42199F) 01 Jan 2000, -0.5—16 Jan 2003

Rajesh Vijayan Nair (42200H) 01 Jan 2000, 05—01 Aug 2002

PERMANENT COMMISSION

NAVAL CONSTRUCTOR (ENGINNERING BRANCH)

The President is pleased to make the following promotion:—

Name of Sub Lt, P. No. and Date of Commission

Mithun Joy (42505A), 01 Jan 2003

The President is pleased to make undermentioned promotion in the Education Branch of the Indian Navy Regulation 167 and 168 of Regs Navy Part III statutory and Ministry of Defence letter No. AD/2232/75/37/3798/NHQ/D(N-II) dated 21 Jul 1976 and NHQ letter No. TR/3331/P/G dated 07 Feb 1989:—

Name, Personal No., Date of Commission and Date of Promotion

Shibu Devasis (70475W), 12 Aug 2002—12 Dec 2004

Seema Butola (70476Y), 12 Aug 2002—12 Dec 2004

Sandupal Dutta (70469F), 05 Jul 2001—05 Aug 2003

Lincy Puthiyathu (70474T), 12 Aug 2002—12 Feb 2005

The President is pleased to make the undermentioned promotion in Executive Branch (Naval Law Cadre) of Indian Navy under provisions of Ministry of Defence letter No. MP/0417/I/NHQ/IV/DO/D(N-IV) dated 20/91:—

Name, Personal No., Date of Commission and Date of Promotion

Vanilla Kiran (05192Z), 13 Jul 2001—13 Jul 2003

Richa S Ingle (05191-Y), 02 Jul 01—02 Sep 03

Bhumika Sexena (05189-T), 02 Jul 01—02 Dec 03

(PERMANENT COMMISSION)

The President is pleased to make following promotion in the "X" Branch (Naval Aviation Cadre) of the Indian Navy under Navy Order No. 56/80:—

Name of Slt, Personal Number, Date of Commission & Date of Promotion as Lt

M Sharma (05303-A), 07 Jan 02—22 Jan 04

R Verma (05211-T), 01 Jul 02—16 Nov 04

V V Senthil (05250-F), 01 Jul 02—16 Dec 04

J Ghosh (05216-B), 01 Jul 02—01 Nov 04

Name, P No., Date of Commission, Time gained in months & Date of Promotion to Lt

P Paritosh (05295-H), 01 Jan 03, +9.5 —16 Mar 05

S Rana (05267-W), 01 Jan 03, +11—01 Feb 05

V Kattoju (05282-B), 01 Jan 03, +09.5—16 Mar 05

Naveen Pandita (05271-B), 01 Jan 03—01 May 05

The President is pleased to make the following promotion in Executive Brnabc (Naval Aviation Cadre) of Indian Navy under provisions of Govt. of India letter No. 4(1)/US(MP)/D(N-II)/2004 dated 11 Mar 2005 and IHQ/Mod (N) letter No. NA/3102/Policy dated 14 Mar 2005:

Name, Personal No., Date of Commission and Date of Promotion Lt.

S Rana (05267-W), 01 Jan 03—16 Dec 04

V Kattoju (05282-B), 01 Jan 03—16 Dec 04

P Paritosh (05295-H), 01 Jan 03—16 Dec 04

N Pandita (05271-B), 01 Jan 03—16 Dec 04

This supersedes all the previous DGNs issued in respect of the above named officers as Lts.

GEORGE MATHEW
DD (C & J)
Directorate of Personnel

(AIR BRANCH)

No. 317, dated 1st June 2005.—The President is pleased to make the following substantive promotion:—

INDIAN AIR FORCE

AE BRANCH

To be substantive Gp Capt (AE Branch)

Particulars of the Officers & Date

Gp Capt (Actg) M F Alam (14173) AE(L), 01 Jan 03

Gp Capt (Actg) D K Pande (15081) AE(L), 01 Jan 03

Gp Capt (Actg) P Kanakraj (15066) AE(M), 01 Jan 03

Gp Capt (Actg) S C Luthra (15105) AE(L), 01 Jan 03

Gp Capt (Actg) V M Khanna (15071) AE(M), 01 Jan 03

Gp Capt (Actg) D S Khajuria (15073) AE(M), 01 Jan 03

Gp Capt (Actg) S A Narayanan (15079) AE(L), 01 Jan 03

Gp Capt (Actg) R Chopra (15087) AE(L), 01 Jan 03

Gp Capt (Actg) P P Khandekar (15095) AE(L), 01 Jan 03

Gp Capt (Actg) U S Shenoy (15065) AE(M), 01 Jan 03

(Their names will appear above Gp Capt P S ROy (15097) AE(L) in the combined Gradation List).

S K SHUKLA
Dy. Director of Personnel (Officers) 2 (B)

No. 318, dated 30th June 2005.—The President is pleased to retire Shri B. P. Sharma, CSS, Deputy Secretary, Ministry of Defence from Government Service with effect from 30.4.2005 (AN) on attaining the age of superannuation.

G. VIJAYARAGHAVAN
Under Secy.

RESEARCH & DEVELOPMENT ORGANISATION

No. 319, dated 30th May 2005.—On attaining the age of superannuation viz 60 years, Shri H. S. Kain, Section Officers, R&D Orgn retired from service w.e.f. 31 Mar 2005 (Transferred to Pension Establishment w.e.f. 1 Apr 2005).

SANTOSH DASGUPTA
Dy. Chief Administrative Officer (A)

(ARMY BRANCH)

No. 320, dated 3rd June 2005.—The President is pleased to permit the undermentioned AD Corps officer to premature retired from Army Service at his own request w.e.f. the date shown against his name.

REGULAR ARMY

ARMY DENTAL CORPS

PERMANENT COMMISSION

PREMATURE RETIREMENT

Col. Naresh Behl (DR-10356F), 31 Jan 2005 (AN)

PARAMJIT SINGH
Maj Gen.
Addl. DGDS

**DEFENCE RESEARCH AND DEVELOPMENT
ORGANISATION**

No. 321, dated 3rd June 2005—Consequent upon attaining the age of superannuation Shri MC Gupta, TO 'C', Dte of P&C, DRDO HQ will be retired from service with effect from 31 Jul 2005 (AN) and transferred to pension establishment with effect from 01 Aug 2005 (FN).

Consequent upon attaining the age of superannuation Shri V V Rishi, TO 'B' DIC, DRDO HQ will be retired from service with effect from 31 Jul 2005 (AN) and transferred to pension establishment with effect from 01 Aug 2005 (FN).

Consequent upon attaining the age of superannuation Shri Mahesh Kumar, TO 'B' DIC, DRDO HQ retired from service with effect from 31 Mar 2005 (AN) and transferred to pension establishment with effect from 01 Apr 2005 (FN).

B B SHARMA
Dy. Director (Pers-I)

(ARMY BRANCH)

CORRIGENDUM

No. 322, dated 3rd June 2005.—In Ministry of Defence Gazette Notification published in the Gazette of India on 29.01.05 under the heading, Regular Army—Army Dental Corps (Short Service Commission) sub heading 'Lt to be Capt' against the name DS-12118N Pramod Udagani :—

For 03.09.2004

Read 03.03.2004

R C DHIR
Lt Gen
DGDS

CORRIGENDUM

No. 323, dated 3rd June 2005.—The President is pleased to make the following amendment in the Ministry of Defence Gazette Notification published in Part-I, Section-4 of the Gazette of Govt. of India published on 10 Oct 96 under the heading Lt Col to be Col (& equivalent) :—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

(ARMY MEDICAL CORPS)

Lt Col (& equivalent) To be Col (& equivalent)

FOR

19. M K Garg (MR-3268) AMC/PC, 31.12.96 (Notional seniority without effect on his pay and pension from 16.12.96)

READ

19. R K Garg (MR-3268) AMC/PC, 31.12.96 with notional seniority without effect on pay & pension from 16.12.96

S K SHARMA
Brig
Dy. DGAFMS (P)

PERMANENT COMMISSION (SPECIAL LIST)

CORRIGENDUM

No. 324, dated 3rd June 2005.—Gazette of India, Ministry of Defence Notification published on 27 February 93 under the heading "Permanent Commission (Special List)" is hereby amended :—

FOR

JC-160693F Sub Surinder Singh, EME (SL-4010P), (Lt), EMAE (SA)

READ

JC-160693F Sub Surinder Singh, EME (SL-4010F), (Lt), EMAE (SA)

REGULAR ARMY

(Short Service Commission)

To be Lt

CORRIGENDUM

In the Govt. of India, Ministry of Defence Gazette Notification No. 235 published on 27 May 2000 under the heading 'Regular Army (Short Service Commission)' and sub-heading "to be Lt" following is amended :—

Name of WS-00431M

FOR Nidi Singh

READ Nidhi Singh

S K SHARMA
Lt Col
AMS 8B

CORRIGENDUM

No. 325, dated 3rd June 2005.—In the Gazette of India, Ministry of Defence Notification published on 29 Sep 2001 under the heading "Regular Army, Permanent Commission", and sub heading "Capt to Maj" the following amendment is made :—

For : IC-50057 R D Singh, Int

Read : Blank

S S SINHA
Dy. Director
MS 8C

CORRIGENDUM

No. 326, dated 3rd June 2005—In the Gazette of India, Ministry of Defence Notification published on 23 Oct 2004 under the heading “Regular Army, Permanent Commission”, and sub heading “Capt to Maj” the following amendment is made :—

For : 54594 Manoj Kumar Lenka, AEC

Read : Blank

A S SRIVASTAVA

Lt Col
AMS 8C

(AIR BRANCH)**CORRIGENDUM**

No. 327, dated 1st June 2005—Following amendment is made in entry under Met Branch in Gazette of India Part 1 Section 4 published on 26 Feb 2005.

Against the entry of

Wg Cdr MS Deshpande (14430) Met :—

FOR : 29.07.02

READ : 01.07.03

S K SHUKLA

Dy. Director of Personnel (Officers) 2 (B)